

अवधानामा



LITTLE ANGELS SCHOOL, PILIBHIT



Heartiest Congratulations!!!



to the Management, Parents, Teachers & Students for Excellent Board Result

Students who scored 90% & above in class XII CBSE Board Exam

SESSION 2023-24

CLASS XII

Above 95% - 9
 Above 90% - 16
 Above 85% - 39
 Above 80% - 52
 Above 70% - 75
 Above 60% - 103



Aanya Singh
97.8%



Shobhit Kumar Bharti
97.6%



Bhanu Pratap Singh (97.4%)



Pakhi Sahu
97%

**DISTRICT
 TOPPER IN
 SCIENCE
 STREAM**

Appeared : 118

1st Division : 103



Stuti Sahu
96.8%



Shredhey Kashyap
95.8%



Varshika Kashyap
95.4%



Utkarsh Agarwal
95.4%



Viraj Agarwal
95%



Mohd. Javvad Yaseen Khan (94.2%)



Mayank Gangwar
93.2%



Mahi Agarwal
92.8%



Labiba Fatima Shamsi
92%



Abhinav Chawla
91.6%



Abhay Agarwal
90.8%



Richa Agarwal
90%

Students who scored 90% & above in class X CBSE Board Exam

Session 2023-24

CLASS X

Above 95% - 14
 Above 90% - 49
 Above 85% - 69
 Above 80% - 85
 Above 70% - 102
 Above 60% - 128



Ujjwal Sharma
(99%)

DISTRICT TOPPER

Appeared : 138

1st Division : 128



Vivek Anant Mishra
98.60%



Anushka Singh
97.20%



Achyut Bajpai
97.20%



Haniya Afzal
96.80%



Anika Varshney
96.40%




Abdullah Khan
96.20%



Shreyasi Verma
96%



Soumya Wal
96%



Vanshika Gupta
95.60%



Shyam Khandelwal
95.60%



Atharv Mishra
95.20%



Soundarya Sharvan
95.20%



Naitik Jaiswal
95%



Nandini Gupta
94.60%



Aditi Gangwar
94.40%




Shourya Saxena
94.40%



Chirag
94.40%



Sanskar Tiwari
94.20%



Lakshya Sethi
94.20%



Mansi Agarwal
94.00%



Lavanya Vaish
93.80%



Saumya Suhani
93.40%




Divyanshi Singh
93.40%



Sparsh Gangwar
93.20%



Tanishka Singh
93.20%



Janhavi Singh
92.80%



Astitva Dixit
92.80%



Rashi Gangwar
92.60%



Shivang Agarwal
92.60%



Hritik Saxena
92.40%



Geet Agnani
92.40%



Yogyata Singh
92.00%



Jeetansh Ruhela
91.80%



Abhinav Agarwal
91.60%



Akashdeep Singh
91.60%



Sarthak Deval
91.60%



Dev Agarwal
91.60%



Shourya Agarwal
91.40%



Areeba Nawaid
91.20%



Sejal Gangwar
91.20%



Kavya Raj
91%



Vansh Rathi
91%



Gaurika Singh
90.80%



Tanishq Gangwar
90.80%



Manya Gangwar
90.60%



Parth CM Patel
90.20%



Sugandh Gangwar
90.20%



Rashi Chandra
90.20%

95, Ashok Colony, Tanakpur Road, Pilibhit, U.P. - 262001
 Phone : 05882 - 259516, 8445210399
 E-Mail : littleangels_pbt@yahoo.co.in



Director
DR. SANJEEV AGARWAL



Executive Director
MR. UJJAWAL AGARWAL



Principal
MR. N.C. PATHAK

घर में चारपाई पर मिला विवाहिता का शव. दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का लगाया आरोप



अवधानामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। पटुआ थाना क्षेत्र के भैरमपुर मजरा बैरिया में रात विवाहिता का शव उसी के घर में चारपाई पर मिला। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने छानबीन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

कीर्ति शर्मा ने आउट स्टैंडिंग प्लेसमेंट के लिए जीता एवसीलेंस अवॉर्ड, बधाईयों का लगा तांता

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। ग्रामिण एग एग इंस्टीट्यूट्स की कीर्ति शर्मा को आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट के लिए एवसीलेंस अवॉर्ड मिला है। अवॉर्ड कार्यक्रम में कीर्ति शर्मा को सर्टिफिकेट के साथ ही 50 हजार की धनराशि भी प्रदान की गई है। इस अवधि पर परिजन अत्यधिक उत्साहित हैं और हर कोई उनकी इस उपलब्धि से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गिरल कॅन्वेंशन निवासी समाजवादी पार्टी उर प्रेक्ष के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ विजेश कुमार शर्मा की प्रतिभावन पुत्री कीर्ति शर्मा लगातार अत्यधिक हार्दिक करती रही है। इसी के चलते इन्हें ग्रामिण एग एग इंस्टीट्यूट्स की ओर से आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट के तहत अवीर्यमंट अवार्ड के रूप में रु. 50000 का अवार्ड प्रदान किया गया। 18 मई 2024 को देहरादून स्थित विश्वविद्यालय

प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार करें कार्रवाई: जिलाधिकारी

सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र ने जिला गंगा, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण समिति की बैठक में वृहद् पौधरोपण अभियान-2024-25 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला गंगा, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये। प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए युजमिनी की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इस अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा की शपथ भी प्रदत्त की गई। बरसात से पहले धमोला नदी की साफ-सफाई एवं सिल्ट हटाने के लिए निर्देश दिए।

लिटिल एंजल्स स्कूल में हुआ समर कैंप का शुभारंभ



अवधानामा संवाददाता


पीलीभीत। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल लिटिल एंजल्स में समर कैंप का आज शुभारंभ हुआ, इस वर्ष समर कैंप के दौरान कक्षा के जी से कक्षा 2 तक के बच्चों को ड्राइंग एंड क्रफ्ट, हिप हॉप डांस, स्केटिंग एवं ताइकांडो की एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, कक्षा तीन से आठ तक के छात्र-छात्राओं को क्रिकेट, आर्चरी, टेबल टेनिस, फोटोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स,

कॉल कर बताया कि हरप्रीत को कुछ हो गया है। मौके पर जाकर देखा तो चारपाई पर हरप्रीत का शव मिला। पिता के मुताबिक उसके गले पर निशान थे। जिससे लगता है कि उसको गला दबाकर मारा गया है। भैरमपुर बैरिया में विवाहिता की मौत के मामले में कई बातें सामने आ रही हैं। पिता जगजीत सिंह के मुताबिक एक महीना पहले उनकी बेटी हरप्रीत कौर को ससुराल में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। आरोप है कि जहर खिलाते के बाद जब तबीयत बिगड़ी तो इलाज करवाया। मायके वालों ने जब कार्रवाई करने की बात कही तो दबाव बनाकर समझौता कर लिया। एसओ हरिकेश राय ने बताया कि परिजनों ने तहरीर दी है। मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। हरप्रीत कौर की शादी पांच साल पहले धर्मदेव सिंह के साथ हुई थी। एक तीन साल की लड़की गुरलीन और दो साल का बेटा गुरमंत सिंह है। घटना के बाद दोनों बच्चे समधी गुरपाल सिंह ने उन्हें

निगम दे रहा टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट का अवसर

सहारनपुर। नगर निगम भवन स्वामियों को टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट का अवसर दे रहा है। जिसके चलते नगर निगम की कैंस खिड़की पर टैक्स जमा करने वालों की आज काफी भीड़ रही। अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने नगर निगम के सभी टैक्स बकायादारों से अपील की है कि वे शीघ्रतः अपना टैक्स जमा करें और टैक्स में 20 प्रतिशत तक की छूट पायें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के टैक्स बिल वितरित कर दिए गए हैं। यदि किसी भवन स्वामी को बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह नगर निगम की वेबसाइट 'नगरनिगम/चजईट/देवउ/पर जाकर या नगर निगम कार्यालय आकर बिल प्राप्त कर सकते हैं। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा नये बिल तैयार कर वितरित कर दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि जो भवन स्वामी 30 जून तक निगम की कैंस खिड़की पर टैक्स जमा करायेंगे उन्हें 15 प्रतिशत तथा जून लाइन टैक्स जमा करने पर चालू वर्ष के टैक्स बिल में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

बिजली खंभे से टकरा मोपेड, सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से गई जान



लखीमपुर खीरी। उजौलिया थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर में किशोर की मोपेड बिजली खंभे से टकरा गई। हादसे में मोपेड चला रहा गांव कलवारी निवासी मुस्तकीम (15) पुत्र असगर की सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से जान चली गई। मोपेड पर पीछे बैठे गांव निवासी अरबाज (15) पुत्र सज्जन चोटिल हो गया। जानकारी के अनुसार मुस्तकीम गांव में परचून की दुकान चलाता था। वह शुक्रवार तड़के अरबाज के साथ मोपेड से सामान खरीदने इब्राहिमपुर गया था। वापस घर जाते समय रास्ते में हादसा हो गया। जिसमें दोनों घायल हो गए। मुस्तकीम के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मुस्तकीम को परिजन निजी वाहन से जिला अस्पताल शाहजहांपुर ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव घर ले आए। मुस्तकीम की मौत से घर में कोहराम मच गया। उसके बड़े भाई की हाल ही में बीमारी से मौत हो गयी थी। जिसका चालीसवां पिछले सप्ताह हुआ था। मुस्तकीम पांच भाइयों में सबसे छोटा था। दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है।

निगम ने आईआईटी रुड़की कैम्पस को 47 करोड़ सर्विस चार्ज का बिल भेजा

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। आईआईटी रुड़की कैम्पस को नगर निगम द्वारा 47 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज का बिल भेजा गया है। कैम्पस पर 2012 से सर्विस चार्ज बकाया है। इसके अलावा शहर के अनेक सरकारी विभागों को भी नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपये के बकाया टैक्स के बिल भेजे गए हैं। सभी विभागों को टैक्स में वृद्धि कर बिल भेजे गए हैं। निर्धारित अवधि में सम्बंधित विभागों द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक तरफ कार्रवाई करते हुए वसूली की जायेगी। महानगर में नगर निगम द्वारा सरकारी विभागों पर पहले बहुत मामूली सर्विस चार्ज व टैक्स लगाये गए थे। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश पर निगम के राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भवनों के सर्विस चार्ज व टैक्स का पुनःआकलन करने के

पश्चात अनेक विभागों पर लगाये गए सर्विस चार्ज व टैक्स में वृद्धि की गयी है। इस की गयी वृद्धि के साथ अब इन विभागों को बिल भेजे गए हैं। अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने सरकारी भवनों पर की गयी टैक्स व सर्विस चार्ज की वृद्धि की जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी रुड़की कैम्पस को नगर निगम द्वारा 47 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज का बिल भेजा गया है। कैम्पस पर 2012 से सर्विस चार्ज बकाया है। जीपीओ रोड स्थित पोस्ट ऑफिस को एक करोड़ 92 लाख रुपये तथा मिशन कम्पाउंड स्थित डाक तार विभाग के मण्डलीय कार्यालय को दो वर्ष के सर्विस चार्ज का 3 करोड़ 90 लाख रुपये का बिल भेजा गया है। मण्डलीय कार्यालय भवन पर पहले सर्विस चार्ज नहीं लगाया गया था। कोर्ट रोड स्थित आयकर विभाग पर 41 लाख 50 हजार वार्षिक सर्विस चार्ज था जिसे अब बढ़ाकर 86 लाख

लखनऊ से चलकर गोला जा रही बस में अचानक लगी आग

लखीमपुर खीरी। लखनऊ से चलकर गोला जा रही गोला डिपो की अनुबंधित बस में अचानक आग लग गई। देखते देखते बस लपटों से घिर कर आग का गोला बन गयी। बस में बैठे यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचायी। वहीं इनका सारा सामान जलकर राख हो गया। गुरुवार की रात गोला डिपो की अनुबंधित बस (संख्या यूपी 33एटी 5958) में हरागंज चौराहे पर आग लग गई। बस लखनऊ से गोला के लिए जा रही थी। इसमें करीब 22 यात्री बस में सवार थे। आग लगने पर यात्रियों ने खिड़की से कूद कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसमें उनको चोट भी आई है। वहीं यात्रियों का बस में रखा तमाम जलकर राख हो गया। रात में हुई इस घटना के दौरान सड़क पर जल रही बस की आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी करीब एक घंटे बाद पहुंच सकी। इससे बस और उसमें रखा सामान आग में जल गया। गोला एआरएम कमल ने बताया कि आग लगने के दौरान बस का ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया था। बहरहाल सुबह उसको लाया गया। बस में आग लगने की घटना की जांच हो रही है साथ ही ड्राइवर के भी बयान लिये जायेंगे।

विवाहिता के ससुराली जनों ने की तीन लाख रुपया और बुलेट मोटर साइकिल की मांग

पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की मोहम्मदी-खीरी। तहसील क्षेत्र के ग्राम कंधारपुर निवासी एक विवाहिता ने ससुराली जनों पर पति के इलाज के लिए तीन लाख रुपया और बुलेट मोटर साइकिल की मांग करने पर मायके वालों ने असमर्थता जताने पर मारपीट कर सुहाग के गहने छीनकर घर से निकाल देने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम कंधारपुर निवासी खुशबू देवी पुत्री स्वर्गीय सुशील ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया दो वर्ष पूर्व उसके पिता ने अपनी हार्मिसयत के अनुसार उफार देकर राजू पुत्र पलटू प्रसाद निवासी उरौली सिवारगंज उधम नगर उत्तराखंड के साथ विवाह किया था। ससुराल जाने पर उसने अपने पति को शारीरिक अक्षम होने की बात सास ससुर समेत घर वालों को बताई जिस पर उन्होंने उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। पीड़िता लोक लज्जा के चलते बात को छिपाती रही अंत में जब ससुराल के लोगों ने इलाज के लिए रुपया और एक बाइक की मांग शुरू कर दी और साथ ही जबरन देवर के साथ सम्बन्ध बनाने का दबाव भी डालने लगे। विरोध करने पर खुशबू से गहने और कपड़े छीन कर कई दिनों तक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया जब खुशबू प्रताड़ना सहन न कर सकी तो बस से मोहम्मदी कम्पा में छोड़कर घर चले गए थे। पीड़िता की मां ने निभा लेने की बात पर पुत्री के पति और देवर ने मोबाइल पर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है।

आइसीएमआई की बैठक में राज

किशोर चैयरमैन व भावना बनी सचिव

सहारनपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स सहारनपुर चैयर के चुनाव में सर्वसम्मति से राज किशोर कौशिक को पुनः चैयरमैन और भावना अग्रवाल को सचिव चुना गया। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का मान्यतापत्र कर स्वागत किया। गिरल कालोनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स में सीएमए सौरभ जैन ने चैयरमैन पद पर राज किशोर कौशिक के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए उनके नाम पर सहमति जताई। इस मौके पर चैयरमैन राजकिशोर कौशिक ने कहा कि स्थानीय चैयर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। चैयर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र-छात्राओं की सभी समस्याओं का हल यही हो करारया जायेगा, उनको अब दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी कोचिंग और अन्य पढ़ाई से सम्बंधित मार्गदर्शन चैयर पर दिया जायेगा।

पोलिटैक्निक छात्र की हत्या का खुलासा, तीन हत्यारोपी दबोचे

घटना में प्रयुक्त एक चाकू व बाईक बरामद

अवधानामा संवाददाता

सहारनपुर। थाना नागल पुलिस ने पोलिटैक्निक छात्र की गला रेंतकर हत्या करने के मामले में वांछित 03 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू व 01 बाईक बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकारों के समक्ष हत्या का खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पिंकी पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना नागल ने प्रेम प्रसंग के चलते अभियुक्त ओम सिंह, ललित, पिन्टू, सचिन, विनश व मोनी समस्त निवासीगण ग्राम पतेहपुर कलां थाना नागल पर उसके पुत्र गौरव की गला रेंतकर हत्या कर देने के संबंध में थाना नागल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नागल प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बोध के

नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिरी की सूचना पर मुकदमें में 03 वांछित अभियुक्त मयंक सैनी पुत्र सतीश कुमार निवासी गुरुद्वारा के पास कस्बा व थाना नागल, बिबू पुत्र रणजीत सिंह उर्फ बबलू निवासी खजूरवाला थाना नागल व बोबी पुत्र मांगेशम निवासी भाटखेड़ी थाना नागल को ग्राम मीरपुर मोहनपुर के निकट रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त मयंक के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 01 चाकू व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वह और गौरव तथा एक लडकी निवासी पतेहपुर कलां थाना नागल ने 2022 में जनता इण्टर कालेज, नागल से इण्टर पास किया था। वर्तमान में वह और वह लडकी इन्द्रप्रस्थ कॉलेज नागल से बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं तथा गौरव इन्द्रप्रस्थ कॉलेज से पोलिटैक्निक की पढाई कर रहा था। गौरव और उस लडकी का रिश्ता भी

तय हो गया था। लेकिन दीपावली के बाद किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया और दोनों के बीच बोलचाल बंद हो गयी थी। वह भी उस लडकी से प्रेम करता था। करीब 15 दिन



पहले गौरव और वह लडकी फिर सम्पर्क में आ गये, जिस कारण मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ गौरव से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत में 22 मई की शाम गौरव के साथ नेशनल पब्लिक स्कूल के पास से उसकी बाईक पर बैक्कर उसके गांव की ओर चल दिया। उसका साथी बिबू अपने साथी बोबी को लेकर

लगा तभी हम तीनों ने गौरव को पकड़कर उसके गले को चाकू से काट कर हत्या कर दी थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बोड्ड, निरीक्षक सतपाल भाटी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक ओमेन्द्र सिंह मलिक, उपनिरीक्षक सचिन त्यागी, महेशचन्द्र, अस्मर अली व हैड कारंटेबल सत्री कुमार शामिल रहें।

लॉई कृष्णा स्कूल में फन डे सेलिब्रेट किया गया



अवधानामा संवाददाता

पीलीभीत। बलभनगर कॉलोनी स्थित लॉई कृष्णा स्कूल में फन डे सेलिब्रेट किया गया जिसमें कक्षा पी.एन.सी. से एक तक के सभी छात्रों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधकसनी दीक्षित व प्रधानाचार्य श्रीमती रोजी दीक्षित ने छात्रों संबोधित करते हुए समझाया की पढ़ाई के साथ-साथ कुछ मनोरंजन होना भी अति आवश्यक है जो की छात्रों के संपूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है उन्होंने छात्रों को कक्षा में खिलाए जाने वाले सभी खेलों का आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात सभी छात्रों ने सप्रथम विभिन्न गानों पर खूब नृत्य किया तत्पश्चात अपनी-अपनी कक्षा में जाकर खूब सारे अलग-अलग खेल खेल व

विभिन्न प्रकार फूल लंच में व्यंजनों का आनंद उठाया। कक्षा पीएनसी व एनसी में सभी छात्रों ने खूब नृत्य किया व फूल लंच में अपने पसंदीदा व्यंजन का स्वाद चखा व कई सारे अलग-अलग खेल खेलें। कक्षा के जी.में सभी छात्रों ने नृत्य किया फिर कई सारे पिक एंड थ्रो, पासिंग व बॉल गेम खेलें व अपने पसंदीदा व्यंजन का मजा लिया। कक्षा एक में सभी छात्रों ने नृत्य किया व जिजांजे रेस का आनंद उठाया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रोजी दीक्षित जी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। सभी छात्र अत्यंत प्रसन्न दिखे। सभी के चेहरे पर बहुत खुशी दिखी। सभी शिक्षक गण विशाल,प्रिंसी, अनुराधा, सोनम, सोनानी, नंदिनी, पूनम, श्वेता, नमिता, अर्चना व भावना आदि का पूरा सहयोग रहा।


गोस्वामीज् मॉन्स प्राइड स्कूल जंगरोली में एक शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन

अवधानामा संवाददाता

पीलीभीत। गोस्वामीज् मॉन्स प्राइड स्कूल जंगरोली में एक शैक्षिक गोष्ठी आयोजित की गई। जिसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती सिता अग्रवाल थी जो लेडी इरविन कॉलेज से एम.एस.सी. करी हुई है और वर्तमान में एक पेशेवर आहार विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सिता अग्रवाल ने सेमिनार की शुरुआत करते हुए शैक्षणिक स्थिति को दर्शाते हुए और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा करी एवं अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ साथ बदलते मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने और पौष्टिक भोजन किस प्रकार हमारे लिए आवश्यक है इस विषय में भी बताया कि पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर किस तरह प्रभावित करती है। पोषण एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य और विकास का मूलमंत्र है। यह एक



प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय के सभी सदस्यों को आवश्यक पोषक तत्वों, ऊर्जा और पोषण की आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। पोषण आहार, स्वास्थ्य देखभाल, जल, स्वच्छता और सही जीवनशैली के संपूर्ण पक्षों को समाविष्ट करता है। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निशात गोस्वामी जी, चैयरपर्सन सोनिया गोस्वामी, प्रधानाचार्या नीलोत्तम अंसारी जी और सभी अध्यापक गण उपस्थित रहें।



दीनानगर रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला मैं देश नहीं मिटने दूंगा: मोदी

चुनाव प्रचार

- पंजाब गुरु नानक देव जी की धरती है
- इस हमारे युवाओं का भविष्य निगल रहा है
- दिल्ली के दरबारी पंजाब पर शासन कर रहे



चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुकवार को गुरदासपुर के दीनानगर में एक रैली को संबोधित करने आए। इस रैली से उन्होंने गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर लोकसभा सीटों को साधा। अपने संबोधन में मोदी ने राहुल गांधी और भगवंत मान सरकार को

निशाने पर रखा। मोदी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो या फिर देश का विकास पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। गुरदासपुर का तेज विकास हो, पंजाब का तेज विकास हो और देश का तेज विकास हो, अपने तीसरे कार्यकाल में मैं आपकी उम्मीदों

पर खरा उतरूँ, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कहा कि पंजाब गुरु नानक देव जी की धरती है। गुरदासपुर से भाजपा का खास नारा रहा है। इसलिए चार बार सांसद रह चुके विनोद खन्ना को आज भी गुरदासपुर की जनता याद कर रही है। पीएम ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा है

इंडी ने राम मंदिर का किया विरोध : पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए ही कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती थी। इन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर साजिश चल रही है। कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगा देगा। कहा कि 60 वर्ष तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। उनको भी आरक्षण की जरूरत है, कांग्रेस ने इन समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मोदी ने आकर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ नहीं हुआ। इसके कारण आज हमारे समाज के लोगों को अलग-अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है।

कि मैंने पंजाब की धरती पर लंबे समय तक काम किया है। गुरुओं की इस धरती ने मुझे सिखाया है - सौंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रकने दूंगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के भविष्य को

दांव पर लगा रही हैं। इस हमारे युवाओं का भविष्य निगल रहा है, अपराधियों को राज्य सरकार से संरक्षण मिल रहा है। आज पंजाब में विकास ठप है, किसान परेशान हैं और ये इंडी गठबंधन वाले अपनी जिम्मेदारी से पल्ल झाड़ रहे हैं।

बृथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

याचिका

- पांच फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए नैनापावर जुटाना मुश्किल
- डेटा का सुरक्षित रखने की आवश्यकता: कपिल सिब्बल

शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग को निर्देश देने का आग्रह

सिब्बल ने दावा किया कि चुनाव आयोग आमतौर पर इस डेटा को 30 दिन के लिए सुरक्षित रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमें यह भी जानने की भी आवश्यकता है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ता है और जब संशोधित आंकड़े सामने आते हैं तो ये आंकड़े कैसे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा 'हम चाहते हैं कि देश की शीर्ष अदालत इस बारे में चुनाव आयोग को निर्देशित करे।



निर्वाचित न हो। सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17 सी (दर्ज किए गए वोटों का खाता) अपलोड नहीं किया जा सकता तो राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह जिम्मेदारी ली जा सकती है। ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखने से यह पता चलेगा कि मतदान किस समय पर संपन्न हुआ और कितने वोट अवैध हैं।

इससे यह भी पता चलेगा कि वोट किस समय डाले गए थे। इसलिए डेटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के बाद 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान डेटा अपलोड करना अनूचित होगा।

भारत को बदनाम करना चाहता है अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट गैंग: जयशंकर

प्रतिक्रिया

- पश्चिमी मीडिया और इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग के बीच है संबंध

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुकवार को एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में एक देश-विरोधी पारिस्थितिकी तंत्र काम कर रहा है, जिसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट गैंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कथित उदात्तादी, पश्चिमी सोच वाले लोगों का समूह है, जो चुनाव के दौरान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये लोग अपने फायदे के लिए भारत की राजनीति को दिशा को प्रभावित करना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा पश्चिमी मीडिया और इस इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग के बीच संबंध हैं। यह एक तरह की अभिजात्य साम्राज्यी सोच वाले लोग हैं, जो भारतीय



एस जयशंकर ने कहा कि इस भारत विरोधी पारिस्थितिकी तंत्र में मीडिया, विश्वविद्यालय, थिंक टैंक भी शामिल हैं और लगातार कोशिश के जरिए भारत के मतदाताओं और यहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। चुनाव के दौरान ये कोशिश तेज हो जाती है, लेकिन यह लगातार चलती रहती है। इसकी भी एक पूरी व्यवस्था है, जिसके तहत पहले विदेशी मीडिया कोई मुद्दा उठाता है, जिसके बाद धरेलू मीडिया और फिर थिंक टैंक, फिर विश्वविद्यालय स्तर पर चर्चा होती है।

मीडिया से खबरों को लेकर भारत को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देश में एक खास विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें अक्सर खान मार्केट गैंग कहा जाता है। उसी तरह से इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी है। ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये भारत विरोधी पारिस्थितिकी तंत्र भारत की नकारात्मक छवि दुनिया के सामने पेश करता है और इस तंत्र के लोग राजनीतिक पार्टियों में भी हैं।

आठ राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज

छठा चरण

- 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में
- मतदान का समय सुबह सात से शाम 6 बजे तक
- धर्मेंद्र यादव से खट्टर तक की सीट पर मतदान



एक सीट पर वोटिंग है। मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी समेत कई हाई-प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। इनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुजरं जैसे मंत्रियों की किस्मत भी शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट इस चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है। यहां से भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि, शुरुआत में संशय बना हुआ था कि सुल्तानपुर से भाजपा मेनका को ही मौका देगी या किसी अन्य चेहरे को। दरअसल, पीलीभीत में मेनका के बेटे करुण गांधी का टिकट काट दिया गया था। इस चुनाव में भाजपा नेता के

343 करोड़पति

183 दागी

सामने सपा ने पूर्व विधायक रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने जिला पंचायत सदस्य उदयराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा से मेनका गांधी जीती थीं। उस चुनाव में यहां 56.37 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। देश की हॉट सीटों में शामिल आजमगढ़ में भी छठे चरण में मतदान है। यहां मुलायम सिंह यादव के भतीजे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव सपा के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं, भाजपा ने भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर भरोसा जताया है जो आजमगढ़ के मौजूदा सांसद भी हैं। बसपा ने महशूद अहमद को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश की है।

चार को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुकवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अलग-अलग चैनलों को दिए साक्षात्कार में केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देना मेरी लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा को 220 से भी कम सीटें आंणीं। केजरीवाल ने कहा कि देश कुछ भी बदलित करेगा लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की जनता कह रही है कि अब देश तानाशाही की तरफ जा रहा है अगर फर्जी मुकदमें में केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी को भी बिना किसी गुनाह के गिरफ्तार कर सकते हैं। आप देखते हैं देश को प्रभावित करने के लिए और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं, वो प्रधानमंत्री से इनका समर्थन चाहते हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं तो प्रधानमंत्री गाली गलौच करते दिखते हैं।

अंग्रेजों की तरह जल, जंगल और जमीन को मोदी सरकार ने लूटा

पलटवार

- खड़गे ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
- देश की संपत्ति अरबपति दोस्तों को सौंप दी



देवघर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुकवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और इसकी तुलना अंग्रेजों से की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अंग्रेजों की तरह देश के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया। खड़गे झारखंड के देवघर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने देश को जल, जंगल और जमीन को वैसे ही लूटा जैसा अंग्रेजों ने किया था। खड़गे ने कहा कि मोदी

सरकार ने अंग्रेजों की तरह 10 साल में देश के जल, जंगल और जमीन को लूटा। पीएम मोदी ने देश की संपत्ति अपने अरबपति दोस्तों को सौंप दी। हमने अंग्रेजों का सामना किया और हम भाजपा से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हमारे लोग आजादी के लिए लड़े और फांसी पर लटके। उस समय ना आरएसएस थी, ना जनसंघ। हमने लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान बनाया। आज आप हमारी वजह से कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कोरोना काल में गायब हो गए थे कांग्रेस और सपा के लोग : मुख्यमंत्री योगी

तंज

- सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाए गोकर्षी को बढ़ावा देने का आरोप
- शकील अहमद



कुरीनगर (अवधनामा ब्यूरो)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब कोरोना कालखंड में देश परेशान था तब कांग्रेस और सपा के लोग जनता की मदद करने की जगह गायब हो गए थे। यूपी के दो लड़कों में से एक इंग्लैंड तो दूसरा इटली भाग गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के शासन में गरीब मुसहर भूखों मरता था, तब हम सब सड़क पर उतर कर

उन्के हक की लड़ाई लड़ते थे। आज पीएम के नेतृत्व में हमने मुसहर जाति के परिवार को एक-एक आवास जमीन का पट्टा और राशन कार्ड प्रदान किया है। योगी आदित्यनाथ शुकवार को साखोपार में कुरीनगर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार दूबे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि

चुनाव रामभक्त और रामदोहियों के बीच आ गया है

सीएम ने कहा कि 500 साल का इंतजार मोदी जी ने खत्म करा दिया है और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मगर कांग्रेस और सपा के लोग कहते हैं कि राम का मंदिर बेकार बना है, राम हुए ही नहीं। इसीलिए कहा हूँ कि ये चुनाव रामभक्त और राम दोहियों के बीच आ गया है। रामभक्त ही देशभक्त हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, कुशीनगर का व्यक्ति भी अब कश्मीर में जमीन खरीद सकता है।

बीते 10 साल में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नेस्तानाबूद हुआ है। अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। उसे पता है कि भारत को छेड़ना नहीं है, क्योंकि किसी ने छेड़ा तो भारत छेड़ेगा नहीं। मगर इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान को छेड़ो मत, ऐसे लोगों को भारत पर बोझ बनने की

जगह पाकिस्तान जाकर भीख मांगना चाहिए। सीएम योगी ने बताया कि जब हमने इंसेफलाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार किया था, तब जेपी नड्डा स्वास्थ्य देश के स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि जितना धन चाहिए उतना लीजिए। कुरीनगर में मेडिकल कॉलेज कभी एक कल्पना थी। आज ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। यहां एयरपोर्ट भी बन गया है। (संबंधित खबर पृष्ठ-13 पर)

21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सीजेआई को लिखा पत्र

प्रोजेक्ट

- कोयला आयात मामले की जांच तेजी से निपटाने की अपील



नई दिल्ली। कम से कम 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा इंडोनेशियाई कोयला आयात के कथित ओवरवैल्यूएशन के मामले की जांच कर रहे लंबित मामले को तेजी से निपटाए। संगठनों ने कहा वे जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ दुर्दृष्टा से खड़े हैं। यह पत्र लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें जॉर्ज सोरोस

समर्थित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार 2013 में उच्च मूल्य वाले ईंधन के रूप में निम्न-श्रेणी के कोयले को बेचकर अदाणी समूह की ओर से धोखाधड़ी करने की आशंका जताई गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने तमिलनाडु के टैनजेडको के साथ लेनदेन में अदाणी समूह द्वारा कम गुणवत्ता वाले कोयले को कहीं अधिक महंगा स्वच्छ ईंधन बताया गया था।

जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम उनकी पत्नी और बेटे को जमानत

फर्जीवाड़ा

- भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां के कुनबे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत मंजूर कर ली है। वहीं आजम खां को मिली सात वर्ष की सजा पर रोक लगा दी है। जबकि पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की सजा को अलग मानते हुए कोर्ट ने रोक लगाने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इनका मामला

आजम से अलग है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की ओर से रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाई गई सात वर्ष की सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका शुकवार को स्वीकार करते हुए उक्त फैसला सुनाया। मामले में तंजीम फातिमा और अब्दुल आजम एक वर्ष चार महीने और आजम खां दो वर्ष

पांच माह से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल आजम स्वयं से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

बड़ी संख्या में वोट देने की अपील

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 25 मई को मतदान होगा है। छठे चरण के मतदान के तहत मतदाता इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में 14, हरियाणा में 10, पश्चिम बंगाल और बिहार में 8-8, 7 सहित 58 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। छठे चरण में बिहार की 6, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू-कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से खास अपील की है। चुनाव आयोग ने शुकवार को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत शहरी क्षेत्रों के वोटर्स से खास अपील की है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं से लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए। आयोग ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को उनके मतधिकारों के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया है।

पुणे कार हादसा झ़ाइवर के गाड़ी चलाने की बात झूठी

छह आरोपी सात तक न्यायिक हिरासत में

हादसा

- सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग शराब पीता दिखा
- पुलिस ने एकआईआर में जोड़ी नई धाराएं

हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है: अमितेश

पुणे सीपी अमितेश कुमार ने शुकवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसमें नाबालिग शराब पीता हुआ दिखा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में हमारे पास सिर्फ रक्त रिपोर्ट ही नहीं बल्कि और भी कई सबूत हैं। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ थे। ऐसा नहीं था कि वह लोहा इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके आचरण के कारण धारा 304 केब जैसी घटना हो सकती है। थाने में पिज्जा पार्टी के मामले में कोई सबूत नहीं है।

झ़ाइवर के बयान की हो रही जांच

कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह सच है कि शुरुआत में झ़ाइवर ने कहा था कि वह कार चला रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि झ़ाइवर ने यह बयान किसके दबाव में दिया था। उस दौरान झ़ाइवर बदलने का प्रयास भी किया गया। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन खबरों का भी खंडन किया जिसके तहत कहा जा रहा है कि कार को झ़ाइवर चला रहा था।

हमने फोरेंसिक से दोनो नमूनों का डीएनए नमूना लेने का अनुरोध किया है। कहा, हम दोनों मामलों की बारीकी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच कर रहे हैं। हम एक निर्विवाद मामला बना रहे हैं।

सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से सुरक्षित होगा बेटियों का भविष्य



अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किए गए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने समृद्ध सुकन्या समृद्धि समाज अभियान चलाया है, जिसके तहत डाक विभाग घर जाकर बेटियों का खाता खोल रहा है। इस योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों

के लिए भविष्य में पढ़ाई विवाह के लिए मां बाप को चिंता ना करने पड़े इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी के द्वारा बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे इसके लिए यह योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है। पहले बेटियों के भविष्य की चिंता जन्म के बाद से ही माता-पिता को सताने लगती है।

पहले यह फिर शादी से जुड़ी होती थी लेकिन अब जमाना बदल गया है। बेटियों भी पढ़-लिखकर मां-बाप का नाम रोशन कर रही हैं। हालांकि शादी हो या पढ़ाई दोनों के लिए एक समय के बाद पैसों की जरूरत होती

है, इसलिए माता-पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए उसके जन्म के बाद से ही निवेश करना शुरू कर दें।

इस क्रम में शुक्रवार को मण्डलीय कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के शाखा डकघर के पोस्टमास्टर्स को रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट डाक जीवन बीमा आदि जमा निकासी के लिए अयोध्या मण्डल के प्रवर अधीक्षक डाकघर एच के यादव ने थर्मल प्रिन्टर वितरित किया। इससे गांव गांव के डाकघरों में रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, तथा पीएलआई की सुविधा सुलभ होगी। 615 शाखा डाकघरों को प्रिन्टर दिया जाना है जिसमें से अब तक मण्डल में 350 से अधिक डाकघरों को प्रिन्टर आपूर्ति कर दिया गया। मातहत डाक कर्मचारियों को घर घर सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के निर्देश दिया और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया कि मण्डल के सभी डाकघरों में मई माह में 250 रुपये में सुकन्या खाता खोला जा सकता है।

सत्रह दिवसीय स्वदेश उत्सव का हुआ समापन

अयोध्या। स्वदेश संस्थान, सागर कला भवन अयोध्या स्थापना दिवस पर श्री लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सत्रह दिवसीय 9वें स्वदेश उत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन, कला संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह आदि का शुभारंभ स्वदेश संस्थान की संरक्षक श्रीमती अनारा देवी, श्री लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट की संरक्षक श्रीमती लक्ष्मी देवी, अयोध्या शोध संस्थान के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राम तीर्थ, विशिष्ट अतिथि के रूप में शिव कुमार, खाकी वाले गुरु जी एस आई रंजीत यादव, समाजसेवी राजेश चौबे रहे संचालन सतोष सिंह एवं कवि दुर्गा पाण्डेय दुर्लभ, गायक बृज मोहन तिवारी, स्वदेश संस्थान सागर कला भवन अयोध्या के अध्यक्ष एस बी



सागर प्रजापति, श्री लक्ष्मी चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष श्री आदि के कर कर्मलों द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। अतिथियों का स्वागत सत्कार अंगवस्त्र पहिनाका स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए किया गया। इस अवसर पर 50 लोक कलाकारों ने अपनी भव्य प्रस्तुति दी। आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके पूर्व स्वदेश उत्सव के अवसर पर म्यूरल पेन्टिंग, रंगोली प्रतियोगिता का अवलोकन के मूल्यांकन किया गया जिसमें निर्णायक की भूमिका में साकेत महाविद्यालय से अम्बरीश श्रीवास्तव, एलोरा आर्ट गैलरी से राम चन्द्र, गया प्रसाद आनन्द द्वारा भी मूल्यांकन किया गया।

अज्ञात चोरों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम, चोर नगदी सहित लाखों के जेवरत चुरा ले गए

बौकापुर- अयोध्याधाम। कोतवाली क्षेत्र के उमरपुर बाजार रुरुखास में टेंट व्यवसायी और मेडिकल स्टोर के दुकानदार के घर में बृहस्पतिवार की रात चुराकर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर नगदी तथा लाखों के जेवरत चुरा ले गए। परिजनों को चोरी की भनक तक न लगी। सुबह चोरी की जानकारी होने के बाद पीड़ित व्यवसायी आशीष कुमार पाठक द्वारा कोतवाली में अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उमरपुर बाजार निवासी व्यवसायी आशीष कुमार पाठक द्वारा बताया गया है कि उमरपुर बाजार में उनकी टेंट और मेडिकल स्टोर की दुकान संचालित है। बृहस्पतिवार की रात मकान में पीछे के गलियारे से कूद कर अज्ञात चोर अंदर घुस गए। चोरों ने लगभग 5 लाख 60 हजार की नगदी तथा लाखों रूपए के सोने चांदी के आभूषण अटैची और बॉक्स का कुंड तोड़कर चुरा ले गए।

भ्रष्टाचार का अड़ा बन गया है राम नगरी का जिला अस्पताल



अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। क्या आप इलाज कराने खैती अस्पताल जा रहे हैं? यदि आपका जवाब हां है तो सावधान हो जाइए। सरकार ने भले जिला चिकित्सालय में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की हैं किन्तु अयोध्या के जिला चिकित्सालय में आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नहीं प्राप्त होगी। यहां डाक्टर से लेकर अन्य पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के साथ लूट खसोट में लगा है। इमरजेंसी ओपीडी से लेकर सामान्य ओपीडी तक इसके अलावा आपरेशन कक्ष तक यहां तक कि यहां जांच के नाम

पर व मरीजों को खून मुहैया कराने के नाम पर सुविधा शुल्क लिया जाता है। हर इलाज के लिए अलग अलग सुविधा शुल्क निर्धारित है। इस प्रकार निर्धारित है सुविधा शुल्क आपरेशन शुल्क पांच हजार से 15 हजार रूपए, मेडिकोलॉजल दो हजार से लेकर 5 हजार रूपए तक, ब्लड उपलब्ध कराने के लिए पांच से आठ हजार रूपए प्रति यूनिट, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड 100 से 200 रूपए तक, चर्मा उपलब्ध कराने के लिए 500 रूपए, कैथेटर लगाने का शुल्क 100 से 200 रूपए तक, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 100 रूपए से लेकर 2000 रूपए तक।

कम पैसे में मरीजों को बढ़िया दवाई मिलने से उनके जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा

गोण्डा। जनपद गोण्डा के कोतवाली मदनपुर अंतर्गत शुक्रवार के दोपहर सविध परिस्थितियों में क्षेत्र के टिकरी रामगढ़ वन में सागौन के पेड़ से लटका हुआ युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर कब्जे में लेते हुए पंचायत नामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार के दोपहर जनपद गोण्डा के मदनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टिकरी रामगढ़ जंगल में एक युवती का सागौन के पेड़ से लटकता हुआ शव देखा गया। जिससे स्थानीय लोगों ने वन डिपो के पास मौजूद वनकर्मियों को मामले से अवगत कराया। वनकर्मियों के सूचना पर पहुंची मदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आस पास मौजूद लोगों से पहचान करवाने की कॉपी कोशिश कि लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। बताया जाता है कि मदनपुर टिकरी जंगल स्थित रूद्रपुर सम्मय मंदिर से कुछ दूर पर स्थित वनकटवा

युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप

अवधनामा संवाददाता

गोण्डा। जनपद गोण्डा के कोतवाली मदनपुर अंतर्गत शुक्रवार के दोपहर सविध परिस्थितियों में क्षेत्र के टिकरी रामगढ़ वन में सागौन के पेड़ से लटका हुआ युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर कब्जे में लेते हुए पंचायत नामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मिली जानकारी अनुसार शुक्रवार के दोपहर जनपद गोण्डा के मदनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टिकरी रामगढ़ जंगल में एक युवती का सागौन के पेड़ से लटकता हुआ शव देखा गया। जिससे स्थानीय लोगों ने वन डिपो के पास मौजूद वनकर्मियों को मामले से अवगत कराया। वनकर्मियों के सूचना पर पहुंची मदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आस पास मौजूद लोगों से पहचान करवाने की कॉपी कोशिश कि लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। बताया जाता है कि मदनपुर टिकरी जंगल स्थित रूद्रपुर सम्मय मंदिर से कुछ दूर पर स्थित वनकटवा

गांव को जाने वाले रास्ते के पास एक छोटे से सागौन के पेड़ से 25 वर्षीय अज्ञात युवती का शव टुकड़े के सहारे लटक रहा था। प्रभारी निरीक्षक संतोष



कुमार मिश्रा ने दूरभाष पर बताया कि वन विभाग के सूचना पर सागौन के पेड़ से लटक रहे 25 वर्षीय युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खाना किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवती के हाथ पर खुशबू लिखा हुआ है इससे पता

वन टागिया के लोगों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
महाराजगंज। सोहीबखवा वन्य जीव प्रभाग के वन टागिया कम्पाई 24 सहित हथियारवा एवं वन्यजीवों के दर्जनों मतदाताओं ने जंगल के बाहर फारिस्ट रॉड चौक बाजार टिकट घर के सामने प्रदर्शन किया। जिसमें उन्होंने मांग पूरी नहीं हुई तो वे चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उनके गांव तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कराया जाय तथा नदी नालो पर पुल और पुलिया का निर्माण कराया जाय। मतदाता केंद्र वन टागिया में ही बनाया जाय और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग लोक सभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर वन टागिया वन अधिकार समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद सहित ग्राम प्रधान रमेश साहनी गम्फार अमेश सुभास प्रदीप मुबारक धर्मद गंगाराम आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

वाटर कूलर में उतरा करंट, चपेट में आकर किशोर झुलसा
बाराबंकी। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर के मोहल्ले नालापार दक्षिणी में लगे नगर पंतायत द्वारा लगाए गए सार्वजनिक वाटर कूलर से पानी लेने गया किशोर करंट लगने से उसी में चिपक गया। जिसे देखकर आसपास के लोग दौड़े। लाठी-डंडे से किसी प्रकार किशोर को अलग किया। उसे सभी ने आनन-फानन निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत द्वारा नगर के विभिन्न मोहल्ले में वाटर कूलर लगाए गए हैं। नालापार दक्षिणी में भी एक सार्वजनिक वाटर कूलर लगा है। तकनीकी खामियों के चलते इस वाटर कूलर में करंट उतर रहा था। युववार शाम इसी मोहल्ले का शहनवाज (14) पानी लेने के लिए गया था। उसने जैसे ही वाटर कूलर की टोटी को खोला वैसे ही उसमें आ रहे करंट से चिपक गया। उसकी चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और लाठी आदि से किसी प्रकार लोगों ने शहनवाज को कूलर से छुड़ाया लेकिन करंट से झुलकर शहनवाज बेहोश हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन रहे-चिखने लगे। स्थानीय लोगों के सहयोग से परिजनों ने शहनवाज को स्थानीय एक निजी चिकित्सक के यहां ले जाकर भर्ती कराया।

शराब ठेके के निकट मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

बाराबंकी। आवास विकास से सटी कांशीराम कॉलोनी से थोड़ी दूर शराब ठेके के निकट एक शव पड़ा पाया गया। काफी प्रयास के बावजूद मृतक की पहचान नहीं की जा सकी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

जीवन रक्षक दवाओं के साथ बूथों पर तैनात रहेंगी आशा बहू
बौकापुर- अयोध्या। लोकसभा अंबेडकर नगर में होने वाले मतदान को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बौकापुर में गोसाईंज विधानसभा के मतदान केंद्र (बूथों) के लिए जीवन रक्षक दवाओं के साथ आशा बहू तैनात रहेंगी। अधिक जानकारी देते हुए अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मतदान करने आने वाले सभी मतदाताओं में जिसकी भी बूथ पर आने के बाद कुछ तबीयत खराब समझ में आती हो वह वहां उपस्थित आशा बहू से मिलकर तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए दवा ले सकते हैं। अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि ऐसे तो हमारे मोबाइल टीम सभी बूथों का दौरा करती रहेंगी और सभी बूथों पर पहुंचते रहेंगे। किसी मतदाता की किसी बूथ पर स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिलने पर तत्काल हमारे मोबाइल की टीम पहुंच कर उपचार करेंगी यदि हालात इतने में भी सुधार में ना आया तो तत्काल सरकार की सुविधा के अनुसार एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाएगा जहां उसकी पूर्ण उपचार करके उसे स्वस्थ किया जाएगा डॉक्टर श्री सिंह ने बताया कि आशा बहू को जो जीवन रक्षक दवाएं दी गई हैं उसे मतदाताओं की परेशानी होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए पूरे दिन बूथ पर रहकर मतदाताओं के देखरेख में रहने का निर्देश दिया गया है। अधीक्षक डॉक्टर श्री सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को अलग से उपचार के लिए किट दिया गया है। आशाओं को प्रमुख रूप से मतदाताओं के लिए लगाया गया है।

सय्यद शकील शाह बाबा का चार दिवसीय मेला आज से

सूरतगंज-बाराबंकी। कस्बा सूरतगंज स्थित फूलपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सय्यद शकील शाह बाबा की मजार पर लगने वाला मेला शनिवार से शुरू हो रहा है। इस बार मेला चार दिवसीय का होगा। मेले में प्रथम दिन उजमा नाज व लतीफ अजमेरी की शानदार जवाबी कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। रविवार को ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। सोमवार को नौटंकी व मंगलवार को आर्केस्ट्रों का आयोजन किया जा रहा है। मेला अध्यक्ष मो.असलम उर्फ छंगा ने बताया कि मुशायरे में हिलाल बंदाय की निजामत में वसीम रामपुरी, अब्दुल रुदालवी दिलशाद जख्मी, विकास बौखल आदि शायर तशरीफ ला रहे हैं।

बाइक की टक्कर घायल अधेड़ के इलाज के दौरान मौत

अवधनामा संवाददाता

बेलहरा बाराबंकी। तीन दिन पहले सञ्जी बेचकर घर लौट रहे अधेड़ को बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में घायल अधेड़ को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान गुरुवार रात अधेड़ ने दम तोड़ दिया। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पीएम के लिए भेज दिया। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की बेलहरा चौकी अंतर्गत ग्राम घघसी निवासी मोहम्मद खालिक (45) प्रतिदिन ठेले पर सञ्जी लेकर गवाड़ गांव में बेचने जाता था। सञ्जी बेचकर वह परिवार का भरण पोषण करता था। बुधवार को भी वह ठेला लेकर सञ्जी बेचने गया था जहां से देर शाम घर लौट रहा था तभी बेलहरा-महमूदाबाद मार्ग पर स्थित जैन कोलेज स्टोर के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में खालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था परिजनों ने घायल को इलाज हेतु सीएचसी फतेहपुर

पहुंचाया जहां से जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां से डाक्टरों ने हालत गंभीर देख द्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया लेकिन परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए वहां इलाज के दौरान गुरुवार रात खालिक की मौत हो गई। सूचना

पर पहुंची सीतापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गवाड़ गांव में ठेले पर सञ्जी बेचकर परिवार चलाता था। दुर्घटना में मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

मतभेद मुलाकर फिर एक साथ रहने को राजी हुए 4 दंपति

बाराबंकी। महिला थाना, परिवार परामर्श केंद्र के अथक प्रयास से पारिवारिक, वैचारिक मतभेद मुलाकर 04 दम्पति एक साथ हंसी-खुशी रहने हेतु राजी हुए। महिला थाना, महिला परामर्श केंद्र द्वारा पारिवारिक, वैचारिक मतभेदों से उत्पन्न विवादों सम्बन्धी प्राठ 07 प्राथना पत्रों में दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप हेल्प डेस्क व शिकायत प्रकोष्ठ से प्राप्त 04 प्रकरण में दोनों दम्पतियों को बुलाकर सुना गया जिसमें 04 प्रकरण में दम्पति द्वारा वैचारिक मतभेदों को बुलाकर आपसी सहमति से एक साथ हंसी-खुशी रहने हेतु राजी हुए। महिला थाना प्रभारी/काउंसलरों द्वारा दम्पति को पुरानी बातों को भुलाकर अग्रिम जीवन की नये तरीके से शुरूआत करने की शुभकामनाएं देते हुए समझाया गया कि दोनों परस्पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे का भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महिला थाना प्रभारी/काउंसलरों द्वारा समझौते के पुनरावलोक हेतु दम्पति को 15 दिवस बाद पुनः बुलाया गया है, जिससे समझौता दम्पति के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी रहे।

गोण्डा संसदीय सीट पर कमल व साइकिल का कडा मुकाबला

अवधनामा संवाददाता

गोण्डा। गोण्डा संसदीय सीट पर पांच विधान सभाएं हैं और यहां पर वर्ष 2022 में हुए विधान सभा चुनाव में भाजपा को मिले कुल मतों व गठबंधन को मिले मतों में सिर्फ पचास हजार का फासला रहा। उस चुनाव में गैर यादव पिछड़ी जातियां भाजपा के प्रति एकजुट रहीं। वहीं इस चुनाव पिछड़ी जातियों के मतों का बिखराव हुआ जिसका लाभ गठबंधन को मिला दिख रहा है। इससे भाजपा व सपा में कडा मुकाबला होता दिखा। विधान सभा चुनाव में भाजपा को सदर सीट गोण्डा पर 96528] मन्कापुर में 105677] गौरा में 73545] उत्तरौला में 87162] मेहनैन में 107327 मत मिले जबकि सपा को सदर गोण्डा में 89829] मन्कापुर में 63328] गौरा 50571] उत्तरौला में 65393]

मेहनैन में 84109 मत मिले। इनके साथ कांग्रेस को गोण्डा 2701] मन्कापुर में 1201] गौरा में 31589] उत्तरौला में 12944] मेहनैन में 5499 मत मिले थे। इसके अलावा उत्तरौला में ओवैसी की पार्टी को 12303 मत मिले। इस तरह बीजेपी को कुल मत 470239] सपा गठबंधन व ओवैसी को मिलाकर 419467 मत मिले। दोनों में 50] 772 का अंतर था। गौरा में पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह ने सपा को हार दिलाया था लेकिन इस बार पूरे जोष के साथ सपा के साथ रहे। वहीं उत्तरौला में 1 शब्दशब्द गठबंधन व अन्य विधान सभाओं में मुस्लिम प्रत्याषी न होने के कारण इस चुनाव में मुस्लिम मतों को बिखराव नहीं दिखा। गोण्डा संसदीय सीट कुर्मी बाहुल्य है और सपा ने जातिगत आंकड़ों देखते हुए श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा] अगर सपा की गणित फिट बैठे तो भाजपा

को सपा की कडी टक्कर मिलने जा रही है। वहीं इस चुनाव में छुड़ा जानवर] बेरोजगारी] पिछड़ा वर्ग का आरक्षण] पेपर आउट] महंगाई का असर भी दिखा है। भाजपा प्रत्याषी कीर्तिवर्धन सिंह तीसरी बार मैदान में हैं और हार्दिक लगाने की तैयारी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी वर्मा की पोती श्रेया वर्मा पहली बार संसद बनना चाह रही हैं। इस चुनाव को लेकर युवा नेता पप्पू अंसारी की माने तो अंत में भाजपा की जीत होगी वहीं सपा नेता शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सपा गठबंधन की जीत पक्की है वहीं नगर सेट राजेश गुप्ता की माने तो भाजपा गोण्डा में बडी जीत दर्ज करेगी जनता ने अनेक कारण इस चुनाव में मुस्लिम मतों को बिखराव नहीं दिखा। गोण्डा संसदीय सीट कुर्मी बाहुल्य है और सपा ने जातिगत आंकड़ों देखते हुए श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा] अगर सपा की गणित फिट बैठे तो भाजपा

फरेंदा के एक पोखरे की खुदाई में मिला हैड ग्रेनेड

महाराजगंज। फरेंदा क्षेत्र के एक पोखरी की खुदाई के दौरान मिला हैड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हैड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फरेंदा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा गोपालपुर शाह में मनरेगा कार्य से गांव में स्थित पोखरे की खुदाई के दौरान हैड ग्रेनेड बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार पोखरे की खुदाई के दौरान मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं ने हाथ से उत्खर देखा और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जब अन्य लोगों ने हैड ग्रेनेड को देखा तो हड़कंप मच गया और इसकी सूचना ग्राम प्रधान शाह आलम को दिया। ग्राम प्रधान ने तत्काल फरेंदा पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची फरेंदा पुलिस ने हैड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर आगे की कार्रवाई में जुट गई।

चार सौ पार नारे से इंडी गठबंधन के लोग हताश: योगी आदित्यनाथ

अवधनामा संवाददाता

महाराजगंज। सुबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद के फरेंदा स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया इंटर कालेज में बीजेपी प्रत्याशी पंकज

के सजाने व देश के विकास में लग रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव है। मोदी योगी की ताकत आपका वोट है। नया भारत छेड़ता नहीं है छेड़ता है तो सिंखाने का काम करता है। मोदी के

साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का घोषणापत्र खतरनाक है विकास का काम मोदी सरकार कर सकती है। अयोध्या काशी सजा अब मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के अंदर मुस्लिमान धर्म के आधार पर आरक्षण पाने का हकदार नहीं है। मोदी के नेतृत्व में राम के युग का राममंदिर सजा गया। यह कांग्रेस और सपा के बस की नहीं थी। 2017 में सड़कें बेकार थी अब बेहतर सड़कों पर चल रहे हैं। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आनन्दनगर से युधली तक की रेलवे लाईन की प्रक्रिया चल रही है। तैसरी वर्षों में मैंने जनता का बनाने का काम किया है बिगाड़ने का काम नहीं किया। जॉनेट सिंह ने कहा कि 89 बार कांग्रेस ने संविधान में छेड़छाड़ करने का काम किया है।

शतरंज प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया हुनर



अवधनामा संवाददाता

महाराजगंज। जिला शतरंज खेल संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के अंडर-7, अंडर-9 और अंडर-11 वर्ग के तीसरे राउंड में साहिल्य रघुनियार, फरहान सिद्दीकी, अनिमेष सिंह, मारुति नंदन, चंद्र भूषण पटेल, यशवती, अभिनंदन, अयाश चौहान, प्रियांशु चौरीसिया, अतुल्य धामिया, रुद्रप्रणय गौतम, गर्वित सैयद, प्रत्यक्ष राय, कृष्णेंद्र राय, शौर्य जायसवाल, केशव त्रिपाठी, आयुष कुमार, आयुष मंड्रीशिया, शानवी मिश्रा, हसन, आदर्श सिंह, अंशुमान गुप्ता, सम्यक मौर्य, आदर्श पटेल और

आशुतोष यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर चौथे राउंड में प्रवेश किया। अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 वर्ग के तीसरे राउंड में आशुतोष कुमार, अयाश सिंह, आर्कश सैयद, अर्जुन सिंह, संदीप सिंह, अगुह थॉमस, उदय गुप्ता, नवनीत चौधरी, दिव्यांशु चौरसिया, हासिम खान, श्रेयाश द्विवेदी, अश्वत लाट, श्रेया पटेल, उज्ज्वला शौर्य त्रिपाठी, निखिल गुप्ता, प्रीति गुप्ता, गणेश गुप्ता, मोहम्मद फरीद जमाल, नेहान सिद्दीकी, उदरकिर्षी राय, नामित जायसवाल, हर्ष कुमार, उज्ज्वला पटेल और दिव्यांशु पटेल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर चौथे राउंड में प्रवेश किया।

चुनाव में सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता जमकर कर रहे नूराकस्ती

अवधनामा संवाददाता

महाराजगंज। लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जंग छिड़ा हुआ है। कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सोशल मिडिया पर खूबजमकर उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो वहीं दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अच्छे और सरल मध्यम मान रहे हैं। जो कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का सबसे बेहतरीन साधन बना हुआ है सातवें चरण के अंतर्गत 1 जून को जनपद में लोकसभा का मतदान होना है। इस बीच प्रत्याशी घर घर मतदाताओं के पास पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिसमें सोशल मिडिया एक बड़ा मध्यम बना हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अन्य सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ता अपने पार्टी और प्रत्याशियों

की उपलब्धियां गिाने से लेकर विपक्ष के पार्टी और प्रत्याशियों के खिंचाई करने में भी पीछे नहीं हैं। सोशल मिडिया पर कोई सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई सरकार की उपलब्धियों पर प्रश्न करने में पीछे नहीं है। कुछ समर्थक आक्रामक पोस्ट करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी और प्रत्याशियों के समर्थन में सोशल मिडिया पर खूब जमकर तारीफें की जा रही हैं। मतदाताओं तक अपनी



खड़ा कर रहा है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता ना सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। इन दोनों के साथ साथ आम लोग भी सोशल मिडिया के माध्यम से अपनी भइस निकालने और अपने विचारों साझा

नेतृत्व में एक तरफ रामभक्त है एक तरफ रामद्वेही है। कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए देश का विभाजन व सामाजिकता व भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रही है। गठबंधन के लोग बाबा साहेब के विरोधी हैं अपने स्वार्थ में संविधान का छेड़छाड़ करना भारत के फिदरत के

बात पहुंचाने के लिए सोशल मिडिया सबसे आसान और सुविधाजनक माध्यम बना हुआ है। अब चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम चल पाएगा की सोशल मिडिया पर किस पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को कितना रिझा पाए हैं।

सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आज होगा मतदान

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जनपद-सिद्धार्थनगर में संसदीय क्षेत्र 60-डुमरियागंज के लिए मतदान 25 मई, 2024 को होना है। मतदान की अवधि प्रातः 07 बजे से सायं 06 तक निर्धारित है।

जनपद में कुल 1604 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 2178 मतदान बूथ स्थापित हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 19,61,845 है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,45,086, महिला मतदाता 9,16,618 एवं 141 थर्ड जेन्डर मतदाता हैं। जनपद में 42 माडल बूथ, 05 महिला प्रबन्धित बूथ (पिक बूथ), 05 दिव्यांग प्रबन्धित बूथ एवं 05 युवा बूथ स्थापित हैं। सभी बूथों पर पानी, बिजली, शौचालय, पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर, रैमप व छाया की व्यवस्था की गयी है। जनपद में निर्वाचन की प्रक्रिया सक्षम सम्पन्न कराने के लिए 8712



मतदान कार्मिकों की तैनाती की गयी है। कुल 30 जौनल मजिस्ट्रेट तथा 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है। 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक-एक चिकित्सीय टीम तैनात की गयी है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रहेंगे। जिनके पास सभी प्रकार के एमरजेन्सी मेडिकल किट उपलब्ध है। प्रत्येक बूथ पर एक आशा कार्यकर्ता को भी तैनात किया गया है जिनके पास एमरजेन्सी मेडिसिन किट उपलब्ध है। हीट वेव से बचाव के लिए भी प्रत्येक बूथ पर मेडिकल किट का प्रबन्ध किया गया है। शीतल

पेयजल के साथ-साथ धूप/गर्मी से बचाव हेतु प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 16x16 वर्ग फीट के टेप्ट की व्यवस्था की गयी है। जनपद में प्रत्येक बूथ पर दिव्यांग व अशक्त मतदाताओं के लिये मतदाता मित्र की तैनाती की गयी है, जिसमें युवक मंगल दल व नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक तथा पंचायत सहायकों की तैनाती की गयी है। दिव्यांग मतदाताओं के लिये आवश्यकतानुसार व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की सहायता हेतु वोटर अस्सिस्टेंट की तैनाती की गयी है तथा

● जनपद में कुल 1604 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 2178 मतदान बूथ स्थापित हैं, कुल मतदाताओं की संख्या 19,61,845 है

● जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम, सिद्धार्थनगर ने सभी से मतदान करने की अपील की है

वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर भी लगाये गये हैं। जनपद में कुल 69 फिजिकल केन्द्र हैं, जिनमें 94 बूथ हैं तथा 32 क्लबखुल बूथ हैं। 1102 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था है। 78 केन्द्रों पर मास्करो आब्जर्वर लगाए गए हैं। 100 बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर श्री पवन अग्रवाल द्वारा मतदाताओं से दिनांक 25 मई, 2024 को अवश्य मतदान करने की अपील की गयी है।

मीना पब्लिक स्कूल में मेधावियों को दिया प्रशस्ति पत्र

आलापुर (अम्बेडकरनगर) अवधनामा संवाददाता। मीना पब्लिक स्कूल



देवरिया बुजुर्ग में नर्सरी से कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मालूम हो सीबीएससी बोर्ड से संचालित मीना पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम से दो वर्षों के छात्रों को सस्ता और सुलभ शिक्षा प्रदान कर रहा है। बच्चों के उच्चल भविष्य एवं उसाहवर्धन करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति ने छात्र छात्राओं को मेडल, अंक पत्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। परीक्षा में अपनी मेधा का परचम लहराने वाले सभी कक्षाओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित कर मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संरक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव संचालन ललित श्रीवास्तव ने किया। विद्यालय के प्रबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्या श्रीमती अलका श्रीवास्तव के द्वारा पुरस्कार पाकर पाकर छात्र छात्राएँ काफी खुश नजर आईं। प्रबंधक ने विद्यालय के समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए आशा व्यक्त किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक सिद्धार्थ पांडेय, शैलेश शुक्ला, अनुराज सिंह, श्यामू विश्वकर्मा, सुरेंद्र, सुमंत, राम आशीष यादव, कविता पाठक, सुमन यादव, अपिता, अंकिता, अर्चना, विपिन पाठक नित्यानंद श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद, प्रवीण आदि शिक्षक शिक्षिकाएँ, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मत प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदान करो इनाम पाओ की है योजना

अवधनामा संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जनपद में 25 मई 2024 को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा अनिवार्य पहल करते हुए मतदाताओं के घर वगैरह महिला, पुरुष, युवा, दिव्यांग, वृद्ध सभी को उसाह पूर्वक चुनाव का पर्व देश का गर्व मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लकी झू के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग लकी झू निकाला जाएगा जिनमें 11-11 लोगों को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें स्मूटी, जूसर मिक्सर, घड़ी, इलेक्ट्रिक प्रेस सहित अनेक घरेलू उपयोग के वस्तुएँ लकी झू के माध्यम से दी जाएगी। लकी झू पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए किसी छोटें बच्चे से कराया



जाएगा। मतदान के दौरान दोपहर में मतदान गति बढ़ाने के लिए कृपण विवरित करने की रणनीति बनाई गई है। दोपहर मतदान करने पहुंचने वाले मतदाताओं को बचपन दिए जाएगी। मतदाताओं के बाद कृपण का लकी झू निकाला जाएगा। इसके आधार पर मतदाताओं को उपहार दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संग ही समस्त मतदाताओं को माताधिकार का प्रयोग करने के लिए विगत कई माह से जनपद में जागरूकता कार्यक्रम कराया है। जिसमें मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता

रैली, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम किए गए हैं इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अकबरपुर तथा जलालपुर सहित अन्य जगहों पर बैंड के साथ पैदल मार्च किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक मतदाता को मतदाता बनाने के साथ ही माताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने लगातार कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया है। प्रत्येक मतदाता को बूथ तक लाने एवं मतदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी ग्राम प्रधानों समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि दिनांक 25 मई 2024 को आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान में प्रतिभाग अवश्य करें।

पोलिंग पार्टियों को माला व पुष्पवर्षा कर किया रवाना



दानिश मेहंदी

अम्बेडकरनगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा की उपरांत निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सक्षम चुनाव संपन्न कराने हेतु जनपद अम्बेडकर नगर में 1899 बूथ बनाए गए हैं जिसके लिए 38 जौनल मजिस्ट्रेट व 155 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में समस्त तैयारी पूरी हो गई है आज प्रातः से ही पोलिंग पार्टियाँ हवाई पट्टी अकबरपुर से रवानगी की जा रही है। हवाई पट्टी पर विधानसभा वार टांड, अकबरपुर, आलापुर, कटेहरी तथा जलालपुर के लिए अलग-अलग पंडाल बनाए गए। जिसमें कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था, ईवीएम वितरण, मेडिकल कैम्प आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रातः काल से ही मतदान कार्मिक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र पंडाल में उपस्थित हुए और निर्धारित सामग्री प्राप्त की गई जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा पोलिंग पार्टियों को माला पहनकर पुष्प वर्षा

कर रवाना किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रातः काल से ही हवाई पट्टी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों को सक्षम रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जौनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्र तक पहुंचने की सूचना प्रेषित करें। सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा यह सूचना दी गई है कि पोलिंग पार्टियाँ अपने-अपने मतदान स्थल तक पहुंच चुकी हैं। 25 मई को मतदान के दिन सभी अधिकारी फील्ड में भ्रमण शील रहेंगे साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारी नियत समय से उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि दिनांक 25 मई 2024 को आप अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान में प्रतिभाग अवश्य करें।

न्यायालय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज

अमृतपुर फरुखाबाद। न्यायालय

के आदेश पर थाना अमृतपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। ग्राम मंझा की मडैया निवासी भैया लाल पुत्र राम सहाय ने अपने बेटे नीरज की मृत्यु में न्याय की आस को लेकर न्यायालय की शरण ली और मुकदमा दर्ज कराकर थाना प्रभारी को आदेशित करवाया और मुकदमे में लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय शेर सिंह जिलेंद्र पुत्र गिरिश रमाकंठ पुत्र कोतवाल सुनील पुत्र होयेलाल निवासी ग्राम मंझा की मडैया को आरोपी बनाया। दर्ज मुकदमे के अनुसार मृतक नीरज अपने ही गांव की विधवा औरत लक्ष्मी के यहां आता जाता था और वही लेटता भी था। उन दोनों के संबंधों को लेकर लक्ष्मी के परिवारजन नीरज से नाराज रहते थे। कई बार चेतावनी दी गई परंतु नीरज ने आना जाना बंद नहीं किया। इस बात को लेकर 30 मार्च 2023 को नीरज व लक्ष्मी के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की थी। जिसका प्रार्थना पत्र थाना अमृतपुर में दिया गया था। परंतु आरोपियों की पैठ के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे नीरज की लाश लक्ष्मी के घर के सामने मिली थी।

भनवापुर के सीएचसी सिरसिया में पीएमएसएमए दिवस पर गर्भवती के हेल्थ चेकअप शिविर का हुआ आयोजन

सात उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर विशेष देख रेख का दिया निर्देश

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के सीएचसी सिरसिया में शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अधीक्षक डॉ. शैलेन्द्र मणि ओझा के अगुवाई में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित शिविर में 37 गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप करते हुए इलाज तथा चिकित्सीय परामर्श दिया गया। जांच के दौरान 7 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया।

इन गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप, फीटस का बढ़ा होना, गंभीर एनिमिया, प्लेसेंटा का विकृत होना आदि पाया गया। डा. ओझा के द्वारा बताया गया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक माह के 1, 9, 16 तथा 24 तारीखों को ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को आशा बहू के माध्यम से कम से कम



● 37 गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया गया

● अधीक्षक डॉ. शैलेन्द्र मणि ओझा के अगुवाई में लगा हेल्थ चेकअप शिविर

एक बार सीएचसी पर हेल्थ चेकअप एवं चिकित्सीय परामर्श दिया जाना अनिवार्य होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गर्भावस्था के शुरुआती

दिनों में ही उच्च जोखिम वाले खतरे के लक्षण को चिन्हित करते हुए गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में ही चिकित्सीय इलाज एवं परामर्श देते हुए जल्चा और बच्चा को सुरक्षित किया जा सकता है। इस दौरान डॉ. पी. एन. पटेल, डॉ. श्रीया चौधरी, डा. सबीहा, रुमन पाठक, सविता मौर्या, अर्चना चौधरी, कु. वर्षा सागर, सुमन, कृष्ण गोपाल पांडे, प्रिंस पाण्डेय, रविंद्र कुमार, दुर्गावती आदि शामिल रहे।

सत्संग से ही होता है संस्कार का जन्म: आलोकानंद शास्त्री

डुमरियागंज क्षेत्र के परसपुर में श्रीमद्भागवत कथा के दौरान स्वामी आलोकानंद ने दिया संस्कारी होने पर जोर

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज क्षेत्र के परसपुर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा कार्यक्रम के चौथे दिन गुरुवार की रात कथावाचक स्वामी आलोकानंद शास्त्री ने लोगों से सत्संग के जरिये संस्कारी होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्संग से ही संस्कार का जन्म होता है। इसलिए हम अधिक से अधिक संत महात्माओं का सत्संग करें और अपने बच्चों को भी सत्संग में लाने का प्रयास करें। सत्संग में संतो द्वारा बताई गई बातों से ही बच्चों के मन में अच्छे विचार पैदा होंगे।

कथावाचक ने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। संस्कार हमारे अंदर तभी आएगा, जब हम संत महात्माओं का संगत करेंगे। संतों की वाणी को अपने अंदर उतारेंगे। तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भौतिकवादी जीवन में बच्चे सत्संग से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संस्कार को बनाए रखना आज लोगों के समक्ष चुनौती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को सत्संग में लाने का प्रयास करें। संत महात्माओं की संगति कराने का प्रयास करें और उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास



करें। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चले तभी यह जीवन सफल होगा और मन को शांति मिलेगी। कथावाचक ने लोगों से भगवान की कथाएं नित्य सुनने के लिए आह्वान किया। उन्होंने बताया कि भगवान की कथा सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं। इद्रियों को वश में रखना चाहिए। कलियुग का समय है, जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस, बेईमानी से

कमाया हुआ धन से दूर रहना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक पंडित मकरध्वज शुक्ला, आचार्य सतीश मिश्रा, प्रधान संघ अध्यक्ष दिलीप पाण्डेय, संदीप शास्त्री, प्रदीप शुक्ला, विजयपाल, राजेश पाण्डेय, शिवकुमार पाण्डेय, डा. बलराम द्विवेदी, बखेडू गाल, गोपाल, विकी, अरविंद आदि मौजूद रहे।

उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुजान पंजीकरण कराने के बाद ही जाएं

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। उत्तराखण्ड राज्य में चार धाम यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक श्रद्धालुजन पंजीकरण कराने के बाद ही यात्रा हेतु वहां जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा-2024 के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है। वगैर पंजीकरण का धाम यात्रा के लिए जाने पर श्रद्धालुओं को असुविधा हो सकती है।

यह जानकारी आज यहां देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चार धाम यात्रा (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ) पर जा रहे अथवा जाने के इच्छुक प्रदेश के तीर्थ यात्रियों से यह अपील की गई है कि वे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि पर ही जाएं। प्रवक्ता ने बताया कि चार धाम यात्रा-2024 के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा URL <https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php> अथवा मोबाइल ऐप Toursit Care Uttarakhand पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। इसलिए चारधाम यात्रा-2024 के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले तीर्थ यात्री/श्रद्धालु चार धामों की यात्रा न करें। ऐसे यात्री, जिनका पंजीकरण नहीं है, उन्हें निर्धारित चेक प्वाइंट्स पर रोक दिया जायेगा और वे उसके नहीं जा सकेगे। प्रदेश के समस्त दूर ऑपरेटेड तथा ट्रेवल एजेंट भी यह सुनिश्चित कराएँ कि उनके ग्राहकों द्वारा यात्रा प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक पंजीकरण करा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के समस्त इच्छुक श्रद्धालु यात्रा सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से अवगत रहें, जिससे उनकी चार धाम बिना किसी व्यवधान के सुगमतापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

● श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उत्तराखण्ड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की

किसान घायल

अमृतपुर फरुखाबाद। अमृतपुर थाना क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक देखने फैला हुआ है। इन सुअरों द्वारा खेती की रखवाली कर रहे किसानों को लगातार घायल किया जा रहा है। बीते दिन शाम 7 बजे के आसपास पूर्व अध्यापक रामकुमार पुत्र होरीलाल अवस्थी अपने मक़े के खेत में खाद डालने गए थे। इसी समय जंगली सुअर वें उनके टक्कर मार दी। जिससे उनका पैर फेंकर हो गया और वह वहीं गिर पड़े। किसी तरह वह उठकर खेत की मेड़ तक आए और अन्य लोगों को आवाज दी। आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से उनको घर तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनका पैर फेंकर हुआ है।

सूचना

मैं फरहाना हाशमी पत्नी खालिद परवेज सिद्दीकी निवासिनी 512/338 स्ट्रीट न. 4 सिद्धार्थ पार्क के सामने निशात गंज न्यू हैदराबाद लखनऊ की हूँ मैं अपना नाम फरहाना हाशमी से बदलकर फरहाना खालिद रख लिया है अब भविष्य में मुझे फरहाना खालिद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

इन्टैक व संस्कार भारती द्वारा श्री बुद्ध वीथिका का हुआ शुभारम्भ

अवधनामा संवाददाता

उई (जालौन)। इन्टैक उई अध्याय व संस्कार भारती जालौन के प्राच्य विधा के अन्तर्गत श्री विष्णु अवतारी भगवान श्री बुद्ध जी की जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बुद्ध वीथिका का शुभारम्भ चूड़ी वाली गली स्थित श्रीमती सन्ध्या पुर्वार के निवास पर सम्पन्न हुआ।

इस वीथिका का शुभारम्भ राजकीय मेडिकल कालेज जालौन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत डा. प्रशान्त निरंजन के हाथों सम्पन्न हुआ। उनके साथ में मेडिकल कालेज के फार्मिसिक विभाग के प्रोफेसर डा.0 चरक सांगवान व एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डा.0 रघुवीर मण्डली भी रहे। वीथिका का अवलोकन करते हुये मुख्य अतिथि डा.0 प्रशान्त ने कहा कि आज से



दो-चार वर्ष पूर्व कृष्ण कालेज की तारा मुद्राओं पर श्री बुद्ध जी के चित्र को देखकर, मैं अचम्भित हूँ। इस वीथिका में जापान, मंगोलिया, चीन, मारोशस, मलेेशिया, इन्डोनेशिया, लाओस आदि देशों के डाक टिकटों पर श्री बुद्ध भगवान के चित्र हैं जो का प्रमाण है कि भगवान बुद्ध के विचारों का प्रभाव इतनी दूर दूर तक था। डा.0 चरक सांगवान ने कहा कि मैं तो पहली बार श्री बुद्ध जी के इतने स्वर्णों को देख पा रहा हूँ। डा.0 रघुवीर मण्डली ने कहा कि पिनाक, ब्लैक, व ग्रीन जैड पत्थर के साथ साथ पुष्पावराज रत्न की श्री बुद्ध मूर्ति विस्मयकारी है। इस वीथिका में कम्बोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, चीन, जापान मंगोलिया, मारोशस, इन्डोनेशिया, लाओस, वियतनाम, बर्मा आदि देशों के डाक टिकटों के साथ साथ की देशों की श्री बुद्ध जी के चित्र से युक्त मुद्राओं को भी प्रदर्शित किया गया है। मंगोलिया देश की 3 औद्योगिक भार की

पूर्ण रजतिय अपरिचालित श्री बुद्ध जी की मूर्ति के आकर की 2000 वैंगरौना मूच्य की मुद्रा तथा भूटान का हाथ से छपा गया पाण्डुलिपि नोट विशेष आकर्षण का केन्द्र रहे। वीथिका में प्रदर्शित समस्त सामग्री श्रीमती सन्ध्या पुर्वार व डा.0 हरी मोहन पुर्वार के निजी संग्रह से प्रस्तुत की गई। इस वीथिका में उस परम पवित्र पीपल के वृक्ष की वह पत्ती भी प्रदर्शित की गई जिसे भारत द्वारा श्री लंका को वहां के तत्कालीन शासक को भेंट में प्रदान किया गया था। और वह वही पीपल के वृक्ष का अंश है जिसके नीचे सारनाथ में बुद्ध जी को परम ज्ञान की द्वापति हुई थी। वीथिका में पुर्वार दम्पति ने कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि देशों के भ्रमण के दौरान श्री बुद्ध भगवान से सम्बन्धित स्थानों के अपने चित्र भी प्रदर्शन में सम्मिलित किये हैं।

अवधनामा संवाददाता

अम्बेडकरनगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा की उपरांत निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सक्षम चुनाव संपन्न कराने हेतु जनपद अम्बेडकर नगर में 1899 बूथ बनाए गए हैं जिसके लिए 38 जौनल मजिस्ट्रेट व 155 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जनपद अम्बेडकर नगर में समस्त तैयारी पूरी हो गई है आज प्रातः से ही पोलिंग पार्टियाँ हवाई पट्टी अकबरपुर से रवानगी की जा रही है।

हवाई पट्टी पर विधानसभा वार टांड, अकबरपुर, आलापुर, कटेहरी तथा जलालपुर के लिए अलग-अलग पंडाल बनाए गए। जिसमें कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था, ईवीएम वितरण, मेडिकल कैम्प आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रातः काल से ही मतदान कार्मिक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र पंडाल में उपस्थित हुए और निर्धारित सामग्री प्राप्त की गई। जिला निर्वाचन



अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा पोलिंग पार्टियों को माला पहनकर पुष्प वर्षा कर रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रातः काल से ही हवाई पट्टी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। सभी पोलिंग पार्टियों को सक्षम रवाना किया गया।

अपने-अपने मतदान स्थल तक पहुंच चुकी है। दिनांक 25 मई को मतदान के दिन सभी अधिकारी फील्ड में भ्रमण शील रहेंगे साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारी नियत समय से उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी अनिनाश सिंह द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि दिनांक 25 मई 2024 को आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान में प्रतिभाग अवश्य करें।

जम्मू कश्मीर ललचा रहा

पाकिस्तान यूं तो भी भीषण आर्थिक दुर्दशा से त्रस्त है। आइएमएफ पाकिस्तान की नाकामी से रूढ़ हो उसे बेलआउट की रकम देने में हिचक रहा है। आवाग में मंहगाई और भुखमरी से पिस रही है। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान हथियार रक्खा जिसे पीओके कहते हैं वहां की जनता और ज्यादा त्रस्त है। पीओके की जनता जम्मू कश्मीर से नजदीक है वहां का विकास देख पीओके तुलना करते हुये पाकिस्तानी हुकूमत से रूढ़ है। पीओके 47 बिजली प्रोजेक्ट से पूरा पाकिस्तान रोशनी पता है। वहीं बिजली की दरों और करो के अत्याधिक ऊंचे रेट से त्रस्त जनता शान्तिपूर्ण अन्दोलन कर रही है। अवागी ऐक्शन कमेटी आवाग का नेतृत्व कर रही है। पर हुकूमत समझौता करने के मूड में नहीं है शान्तिपूर्ण अन्दोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है।

चरमपन्थी संगठन तदरीक एतालिबान पाकिस्तान ने जो सेना के खिलाफ लड़ रही है अन्दोलनकारियों के पक्ष में खड़ी हो उनकी मांगों को समर्थन दे रही है। इससे स्थितियों और जटिल हो जायेगी। जब अन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है हुकूमत ने बहुत बड़ी संख्या में सेना तैनात कर निरथे लोगों पर आंसू गैस और गोलियां चलावा दी। पाकिस्तान से आजादी के नारे अन्दोलनकारी ला रहे हैं। भारतीय ध्वज जत प्रसर्जन दिखाया है। भारत के चल रहे चुनाव अभियान के दौरान पीओके भारत का हिस्सा है लेके रहेगे भारत के मूहमंत्री और रक्षा मंत्री बाबकार दुहरा रहे हैं। लगता है भारतीय नेताओं के बयान सुन पीओके के लोग उर्दिल रहे हैं। भारतीय मंत्री कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का विकास देख वहां के लोगों की खुशहाली देख पीओके की आवाग विद्रोह करेगे और भारत में मिलने को आतुर होंगे। मंत्रियों का आकलन सही साबित होता दिख रहा है।

आर्थिक रूप से त्रस्त पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं करो में रियायत देने और बिजली दर कम करने में असमर्थ है। वह धन की उपाही में लगा है। भूख और मंहगाई से त्रस्त जनता क्या मदद कर सकती है। मजबूर जनता मन मसोसकर कुछ देगी तो उससे पाकिस्तान की हालत क्या सुधरेगी। पाकिस्तान को पांच साल के लिये 123 अरब डालर की जरूरत है। पाकिस्तान के पार घरेलू श्रोत तो है नहीं उसे फिन्डा करने वाला चाहिये। पाकिस्तान का कर्ज लौटाने के रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये अन्तराष्ट्रीय संस्था आईएमएफउसे मदद देने में हिचकिचा रही है। पाकिस्तान नये बेलआउट की मांग कर रहा है।

पाकिस्तान अपनी अन्दरूनी हालात सुधारने के बजाय अन्तराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर का नाम उखलता रहता है। पर पीओके की दुर्दशा पर रचनात्मक ध्यान नहीं दे रहा है। पीओके की दुर्दशा से दुनियां अब और वाकिफहो रही है। दुनियां समझ रही है अन्व पाक की पकड़ पीओके पर फिसल रही है। पीओके के लोग मोदी सरकार की ओर उम्मीद दिख रहे हैं।

चुनावी वार्दों कि बौखर, कौन जिम्मेदार

हरी राम यादव

हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां गांव से लेकर देश चलाने तक मदान के माध्यम से चुने गये लोग शासन की बागडोर संभालते हैं। एक बार चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि पांच वर्ष तक शासन की मुखियागीरी, प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके बाद फिर चुनाव होते हैं। देश में अलग अलग स्तर की शासन व्यवस्था है। पाकिस्तान का कर्ज लौटाने के रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये अन्तराष्ट्रीय संस्था आईएमएफउसे मदद देने में हिचकिचा रही है। पाकिस्तान नये बेलआउट की मांग कर रहा है।

पाकिस्तान अपनी अन्दरूनी हालात सुधारने के बजाय अन्तराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर का नाम उखलता रहता है। पर पीओके की दुर्दशा पर रचनात्मक ध्यान नहीं दे रहा है। पीओके की दुर्दशा से दुनियां अब और वाकिफहो रही है। दुनियां समझ रही है अन्व पाक की पकड़ पीओके पर फिसल रही है। पीओके के लोग मोदी सरकार की ओर उम्मीद दिख रहे हैं।

हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां गांव से लेकर देश चलाने तक मदान के माध्यम से चुने गये लोग शासन की बागडोर संभालते हैं। एक बार चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि पांच वर्ष तक शासन की मुखियागीरी, प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके बाद फिर चुनाव होते हैं। देश में अलग अलग स्तर की शासन व्यवस्था है। पाकिस्तान का कर्ज लौटाने के रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये अन्तराष्ट्रीय संस्था आईएमएफउसे मदद देने में हिचकिचा रही है। पाकिस्तान नये बेलआउट की मांग कर रहा है।

पाकिस्तान अपनी अन्दरूनी हालात सुधारने के बजाय अन्तराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर का नाम उखलता रहता है। पर पीओके की दुर्दशा पर रचनात्मक ध्यान नहीं दे रहा है। पीओके की दुर्दशा से दुनियां अब और वाकिफहो रही है। दुनियां समझ रही है अन्व पाक की पकड़ पीओके पर फिसल रही है। पीओके के लोग मोदी सरकार की ओर उम्मीद दिख रहे हैं।

पोलिटिकल एडिटर : एम.एम. मोहसिन

स्थायी संपादक

मोहम्मद आलम रिजवी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhanahindi@gmail.com

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिन्दू संगठनों एवं धर्मगुरुओं के भाजपा के पक्ष में होने का बयान संतों के लिए जान तक का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ भी है, ममता बनर्जी के बयान के बाद कुछ हमलावर जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम में घुस गए। उन्होंने भिक्षुओं पर हमला किया, सीसीटीवी आदि तोड़े दिए। रात हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार संतों पर दोष लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिये इंडिया गठबंधन के दल विशेषतः कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं।

कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के हिन्दू विरोध की उग्रता

लोकसभा चुनाव के दो चरण शेष रहे हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी बढ़त बनाने के लिये कुछ अतिरिक्तपूर्ण करने का प्रयास करते हुए राष्ट्र की एकता-अखण्डता एवं बहुसंख्यक हिन्दू धर्म विरोधी स्वयं को बुलंद किये हुए हैं और अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। विशेषतः इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एवं बाहर से समर्थन देने की बात करने वाले दल ऐसा दूषित प्रचार कर रहे हैं, जिससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है बल्कि ऐसे दलों को राजनीतिक लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं प्रवल हो रही हैं। इन चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के अन्य दल हिन्दूओं से, हिन्दू मन्दिरों-भगवानों-संतों एवं हिन्दू पर्वों से नफरत का बिगुल बज मोड़ पर बजाते रहे हैं जो हर रोज सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को खूश करने के लिए हिन्दू संतों को राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संतों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तृष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की ध्वजियां उड़ते



ललित गर्ग

हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अमानता वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्जनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दूओं को अपने ही देश में सेकेड क्लास सिटिजन एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तृष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तृष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक अस्तंजुत तथा रोष का कारण बन रहा है। बदले हुए राजनीतिक खलत इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनेकड़ी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए। ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खूब करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठ एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तृष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की ध्वजियां उड़ते

हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अमानता वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्जनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दूओं को अपने ही देश में सेकेड क्लास सिटिजन एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तृष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तृष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक अस्तंजुत तथा रोष का कारण बन रहा है। बदले हुए राजनीतिक खलत इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनेकड़ी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए। ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खूब करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठ एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तृष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की ध्वजियां उड़ते

हुए उंगली उठाई है। इस प्रकार कानून की अमानता वह नेता ही खड़ी कर सकता है, जिसे एक खास वर्ग के वोट चाहिए। संतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना, निःसंदेह आपत्जनक है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस हिन्दूओं को अपने ही देश में सेकेड क्लास सिटिजन एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तृष्टीकरण की इन दलों की सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलक रही है। सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम तृष्टीकरण की राजनीति की है, राजनीतिक दलों का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक अस्तंजुत तथा रोष का कारण बन रहा है। बदले हुए राजनीतिक खलत इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनेकड़ी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। लेकिन लगातार जीत की ओर बढ़ रहे भाजपा को हराने के लिये इन दलों को मुस्लिम वोटों का ही सहारा नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हिन्दू विरोध को प्रचंड किये हुए। ममता बनर्जी ने अपने शासन में मुस्लिमों को खूब करने एवं उनके वोटों को अपने पक्ष में करने के लिये हिन्दू विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ममता ने रामकृष्ण मठ, मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर झूठ एवं भ्रामक आरोप लगाया है कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम तृष्टीकरण के लिये ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर कानून की ध्वजियां उड़ते

सुविधाओं से लभान्वित होने लगी हैं ग्रामीण महिलाएं

दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। बात चाहे राजनीति में प्रतिनिधित्व की हो या फिर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी की हो। इसका अर्थ व्यापक प्रभाव भी देखने को मिलता है। वर्तमान में दुनिया की सभी सरकारें अब जनप्रतिनिधियों और दलों की योजनाएं तैयार करने लगी हैं। भारत में भी महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई आंदोलनों ने इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है।

जिसका परिणाम है कि आज सभी सरकार और राजनीतिक दल अपने एजेंडों में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सर्वोपरि रखने लगे हैं। चाहे वह स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सामाजिक स्थिति की बात हो या फिर रोजगार के माध्यम से उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मुद्दा हो, सरकार सभी विषयों को प्राथमिकता देने लगी है।

इसका प्रभाव केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं और किशोरियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं। ऐसा ही राजस्थान का लोयरा गांव भी है। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं।

इसका प्रभाव केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं और किशोरियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं। ऐसा ही राजस्थान का लोयरा गांव भी है। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं।

इसका प्रभाव केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं और किशोरियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं। ऐसा ही राजस्थान का लोयरा गांव भी है। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं।

इसका प्रभाव केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं और किशोरियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं। ऐसा ही राजस्थान का लोयरा गांव भी है। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं।

इसका प्रभाव केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। जहां पंचायत स्तर पर महिलाओं और किशोरियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं। ऐसा ही राजस्थान का लोयरा गांव भी है। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं। जहां न केवल महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त काय सब्जियां लगी हैं।

भले ही आर्थिक रूप से यह गांव सशक्त न हो, लेकिन जागरूकता के मामले में इस गांव में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। गांव की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने लगी हैं। एक ओर जहां उन्हें मनरेगा के तहत काम मिलने लगा है तो वहीं आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त पोषाहार कार्यक्रम के तहत सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। गांव की 34 वर्षीय गंगा देवी कहती हैं कि रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। गांव में मनरेगा के अंतर्गत जब भी काम होते हैं तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती है।

और माहवारी के दौरान पैड्स उपलब्ध कराये जाते हैं। राजस्थान के पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात उदयपुर स्थित यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी की दूरी पर आबाद है। बड़गांव पंचायत समिति अंतर्गत इस गांव की आबादी लगभग छह हजार के आसपास है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुत इस गांव में 450 मकान हैं। गांव में ज्यादातर गन्भी और डूंगी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त ओबीसी समाज की भी यहां अच्छी आबादी है। कि सामान्य समुदाय के कुछ परिवार भी यहां आबाद हैं। गांव के अधिकतर पुरुष उदयपुर शहर में मजदूरी करने जाते हैं। इनमें अधिकतर चिनाई कारीगर, बेलदार, मार्बल फिटिंग अथवा मार्बल चिनाई करने वाले हैं। फिलहाल मनरेगा के प्रति काफी महिलाएं शहर के बड़े घरों में घरेलू सहायिका और कुछ खेतों में मजदूरी करती हैं। भले ही आर्थिक रूप से यह गांव सशक्त न हो, लेकिन जागरूकता के मामले में इस गांव में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। गांव की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने लगी हैं। एक ओर जहां उन्हें मनरेगा के तहत काम मिलने लगा है तो वहीं आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त पोषाहार कार्यक्रम के तहत सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। गांव की 34 वर्षीय गंगा देवी कहती हैं कि रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति में पहले की



इस्लामिक संगठनों एवं चर्चों के द्वारा भाजपा के विरोध में किसी एक विशेष दल के पक्ष में मतदान करने के प्रकरण बार-बार सामने आये हैं। चुनावों को धार्मिक एवं साम्प्रदायिक रंग देने की इन विडम्बनापूर्ण स्थितियों पर आज तक ममता बनर्जी ने एक भी बयान नहीं दिया है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि बिना किसी प्रमाण हिन्दू संतों पर निशाना हमले का अभिप्राय यही है कि ममता बनर्जी की निगाहें कहीं और हैं निशाना कहीं और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ममता बनर्जी पर संतों को धमकाने का आरोप निराधार नहीं है। क्योंकि एक संत कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री ममता को कानूनी नोटिस भेज कर कहा है कि ममता बनर्जी के बयान निराधार, झूठे और अपमानजनक है।

पश्चिम बंगाल ही नहीं, अन्य गैर-भाजपा सरकारों के प्रांतों में हिन्दूओं को प्रताड़ित करने के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो हिन्दूओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हिंसक प्रदर्शन होता रहा है, पिछले कुछ सालों से हमेशा यह देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता पाकर भाजपा समर्थकों के साथ किस प्रकार का

जुद्धरतम महिलाओं तक पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करती हैं कि गर्भवती महिलाओं का समय पर सभी टीकाकरण हो। वह बताती हैं कि आंगनवाड़ी के माध्यम से गांव की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त पैड्स उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही समय समय पर उनके द्वारा इस दौरान स्वयं को कैसे स्वस्थ रखें, इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। वह बताती हैं कि यह आंगनवाड़ी केंद्र किशोरियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जहां उन्हें उन सभी बातों की जानकारी उपलब्ध हो रही है जो वह घर में भी किसी से पूछने में झिझक महसूस करती थीं। वहीं 40 वर्षीय धृती बाई कहती हैं कि पहले गांव में महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारियां थीं। लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाएं न केवल उन योजनाओं के बारे में जानने लगी हैं बल्कि उनका लाभ भी उठाने लगी हैं। हालांकि अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास समुचित पहचान पत्र और दस्तावेज नहीं होने के कारण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है।

गांव में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें भी पहले की अपेक्षा सुधार आने लगा है। गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की अधिकतर लड़कियां 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करती हैं। गांव में मनरेगा के अंतर्गत जब भी काम होते हैं तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती है। लेकिन यह निरंतर रूप से नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि अधिकतर महिलाएं शहरों में बड़े घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। कुछ महिलाएं खेतों में मजदूरी करने लगी हैं। इनमें अधिकतर चिनाई कारीगर, बेलदार, मार्बल फिटिंग अथवा मार्बल चिनाई करने वाले हैं। फिलहाल मनरेगा के प्रति काफी महिलाएं शहर के बड़े घरों में घरेलू सहायिका और कुछ खेतों में मजदूरी करती हैं। भले ही आर्थिक रूप से यह गांव सशक्त न हो, लेकिन जागरूकता के मामले में इस गांव में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। गांव की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने लगी हैं। एक ओर जहां उन्हें मनरेगा के तहत काम मिलने लगा है तो वहीं आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त पोषाहार कार्यक्रम के तहत सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। गांव की 34 वर्षीय गंगा देवी कहती हैं कि रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति में पहले की

वहीं 35 वर्षीय प्रेमा बाई गांव में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका रहते हुए कहती हैं कि केंद्र से न केवल बच्चों को बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी समय पर पूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र की संचालिका और सहायिका समय पर सभी

व्यवहार करते हैं। वर्ष 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस के जीतने के बाद राज्य में बवाल हुआ था और पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं ने हिंसक उल्लास मचाया था। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों को खोज-खोजकर हमले हुए थे। ऐसे स्थितियों में और ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिन्दू संगठनों एवं धर्मगुरुओं के भाजपा के पक्ष में होने का बयान संतों के लिए जान तक का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ भी है, ममता बनर्जी के बयान के बाद कुछ हमलावर जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम में घुस गए। उन्होंने भिक्षुओं पर हमला किया, सीसीटीवी आदि तोड़े दिए। रात हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार संतों पर दोष लगाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिये इंडिया गठबंधन के दल विशेषतः कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अल्पसंख्यकों में सिख, पारसी, यहूदी, जैनी, बौद्ध आदि धर्म आते हैं, लेकिन कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परसती करते आई हैं। ओबीसी आरक्षण पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाई है, उससे तो यही लगता है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए संविधान की जितनी अमानता की जा रही है, वह की जाती रहेगी। सामनेबाले को घेरने के लिए उसी संविधान की आड़ भी ली जाएगी। ममता ने मुस्लिमों को ओबीसी

सर्टिफिकेट देकर उन्हें तरह-तरह से लाभ पहुंचाने का पक्षयंत्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देकर और बात कह रहे हैं, वह भी इस घटना से साफ होता नजर आ रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है।

मोदी दशक में हिंदी सिनेमा

यह भारतीय राजनीति और समाज के लिये भारी उत्प्रेरक भरा दौर है, साल 2014 के बाद से एक राष्ट्र और समाज के तौर पर भारत को पुनर्निर्भाषित करने के सुव्यवस्थित प्रयास किये गये हैं, जाहिर है इससे फिल्मों में अछूती नहीं है। इस दौरान हिन्दुस्तान का सॉफ्ट पॉवर बढ़ा जाने वाला हिंदी हुआ है वह है लाभार्थी वर्ग। यह लाभार्थी वर्ग इसी तरह की योजनाओं को उजग है। इससे पहले यह शब्द प्रचलन में नहीं था। इस तरह की फ्री की योजनाओं से देश के कर्दादा पर अतिरिक्त भार पड़ता है और विकास की गति अवरूद्ध होती है। कर को जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वह फ्री की योजनाओं को चलाने में चला जाता है। सरकार को चाहिए कि इन बेलाभान घोषणाओं को रोकने के लिए कानून का निर्माण करे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिजवी ने गुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित करवाकर प्रथम तत्व, मॉस्टर्ड नूर महल, साकेत पब्लिकी, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

किसी भी लेख में कोई विवाद के लिए 'अवधानामा' जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद तो बॉलीवुड के खिलाफ सुनियोजित बायकॉट अभियान चलाया गया जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नशेड़ी और अपराधियों का नेटवर्क के तौर पर पेश करने की कोशिश की गयी। इस संबंध में बीबीसी द्वारा किये गये पड़ताल में पाया गया कि बॉलीवुड और उसके कलाकारों के खिलाफ किसी योजना के तहत एक नकारात्मक अभियान चलाया गया, बॉलीवुड के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाले अधिकतर लोग बहुसंख्यक दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार' कहा जाता है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस तपोबन्त चक्रवर्ती और राजशेखर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बिना जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची बनाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ममता बनर्जी सरकार से पहले वामपंथी शासन काल में भी हिन्दू संतों को माफकी कर सरकार ने निशाना बनाया था। तब परिणाम यह हुआ था कि कलकत्ता में सरेआम 16 भिक्षु और 1 साध्वी हत्या की गई थी। आज उन नरसंहार को 'बिजोन सेतु नरसंहार

आलिया से लेकर नोरा तक ये एक्ट्रेस नहीं डाल पाएंगी लोकसभा चुनाव 2024 में वोट

देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। सात चरणों में से पहले चरण का मतदान शुरूवार को पूरा हो चुका है। चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। कल शुरूवार को कई फिल्मी कलाकार मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए नजर आए। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

कुछ कलाकार हर साल अपना वोट डालकर नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हैं तो कुछ कलाकार निजी कार्यों से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। वहीं, कुछ फिल्मी सितारे ऐसे भी हैं, जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वे भारत में वोट नहीं डाल सकते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके प्रशंसकों को आज तक उनकी वोट डालते हुए एक तस्वीर देखने का मौका नहीं



मिल पाया है। दरअसल, आलिया भट्ट भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। उनकी मां का जन्म बर्मीयम में हुआ था।

केटरीना कैफ के चाहने वालों की भारत में कमी नहीं है। वे अभी तक कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आलिया की तरह केटरीना भी भारत की नागरिक नहीं हैं। उनका जन्म हंगकांग में हुआ था और उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। जैकलीन फर्नांडीज को भी लोग भारत में वोट डालते हुए नहीं देख सकते। जैकलीन बहरीन में पैदा हुई थीं। उनके पिता श्रीलंका और मां मलेशिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपना कॉलेज खत्म करने के बाद, वह श्रीलंका वापस आ गईं, जहां बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। नोरा फतेही लंबे समय से भारत में काम कर रही हैं। उनके डॉस वीडियो को लोग खूब पसंद करते हैं। भारत आने के बाद अपने काम से उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई। नोरा भी भारत में वोट नहीं डाल सकती हैं। उनके पास कनाडा की नागरिकता है।



अपनी मौत की फर्जी खबरों से परेशान शार्क टैंक इंडिया 3 की जज विनीता

शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ काफी कनेक्ट भी रहती हैं। पिछले काफी दिनों से उनकी मौत और गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थीं। इसे लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम प्रयासों के बाद अब विनीता ने खुद अपने एक्स हैडल पर फैंस के साथ अपनी चिंता जाहिर की है और प्रशंसकों से इसे लेकर सुझाव भी मांगा है। विनीता ने अपने एक्स हैडल पर फैंस के साथ कुछ स्क्रीनशॉट साझा किए। इसके साथ उन्होंने लिखा, पिछले पांच हफ्तों से अपनी मौत और गिरफ्तारी की खबरों के लिए मैं पेड पीआर से डील कर रही हूँ। पहले को इग्नोर किया और फिर मेटा में कई बार रिपोर्ट किया। मुंबई साइबर सेल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन यह सब नहीं रुका। हालांकि, इन सब में सबसे मुश्किल समय वो होता है, जब लोग घबरा जाते हैं और मेरी मां को फोन कर देते हैं। नीचे कुछ पोस्ट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं? विनीता की पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, पिछले दिनों मैंने ऐसी ही एक खबर देखी थी, जिसमें लिखा था कि विनीता सिंह दिवालिया हो चुकी हैं। हालांकि, बाद में पता लगा कि वह खबर फर्जी थी। इस पर कमेंट करते हुए विनीता ने लिखा, ऐसी एक पूरी सीरीज फेसबुक पर चल रही है, जो कि फर्जी न्यूज है। दूसरे यूजर ने लिखा, %यह काफी डरावना है और इसे भी ज्यादा भयावह यह है कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, जब आप जैसी बड़ी हस्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता होगा। बता दें कि विनीता पेड पीआर



जैसी चीजों से फिलहाल जुड़ा रही हैं, जिसने उनकी मौत और गिरफ्तारी के बारे में फर्जी खबरें फैलाई हैं। पिछले पांच हफ्तों से इस बारे में लगातार खबरें आ रही हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इतियाज अली द्वारा निर्देशित ये फिल्म अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में परिणीति ने अमरजोत का किरदार निभाया है। अभिनेत्री ने हाल ही में पलॉप फिल्मों की वजह से कम काम मिलने को लेकर खुलकर बात की है। उन्हें उम्मीद है कि इंडस्ट्री में उनकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा और उन्हें ऑफर आएंगे।

परिणीति चोपड़ा ने एक बातचीत में कहा कि वह समान अवसर चाहती हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां मौजूद सभी निर्माताओं से अवसर चाहती हूँ। बड़े निर्माता, बड़े स्टूडियो प्रमुख और बड़े निर्देशक अगर हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं। अगर हमारी कड़ी मेहनत दिखती है, तो बस हमें वह अवसर दीजिए। क्योंकि जब तक हमें वह मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम खुद को साबित नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, %अगर आज मेरे पास चमकीला नहीं होती, तो मुझे कभी पता नहीं चलता



या दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि मैं लाइव गा सकती हूँ। मैं अपना वजन बढ़ा सकती हूँ और मैं अच्छे अभिनय कर सकती हूँ। मैं अभी भी वही पुरानी स्थिति में हूँ। परिणीति ने कहा, कभी-कभी गलत कारणों से आपको अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। मैं निर्देशकों के पास गई और उन्होंने कहा, मैं पिछली तीन फिल्मों से तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। अगर मुझे नहीं पता था कि तुम काम करना चाहते हो या नहीं। परिणीति ने कहा, %मैं बस यही चाहती हूँ कि चमकीला के बाद अब यह बंद हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि यह मेरे लिए सही साबित हो। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगी, तो मुझे अच्छे काम मिलेगा। अब मैं इसी की तलाश में हूँ। मैं किसी खास प्रोजेक्ट का इंतजार नहीं कर रही, सिर्फ अच्छे काम की तलाश में हूँ। इतियाज अली द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की अमर सिंह चमकीला में परिणीति चोपड़ा ने पहली बार दिल्लीजित दोसांडा के साथ स्क्रीन साझा की है। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई है। इससे पहले वह 2023 में अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज में नजर आई थीं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।

आप हमारी रोल मॉडल हैं

बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेठ्टी अपने फैशन और अभिनय से तो दर्शकों को लुभाती ही हैं, मगर अब उन्होंने अपने फैंस को स्केच बनाने की कला से भी प्रभावित किया है। बड़े पर्दे से लंबे समय से दूर वहीं शमिता शेठ्टी की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। अपने फैंस के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती रहती हैं। इस बार उन्होंने अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया है। अभिनेत्री शमिता शेठ्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वे अपनी रचनात्मकता दिखा रही हैं। वीडियो में शमिता स्केच बनाती हुई दिख रही हैं। शमिता स्केच बनाते हुए पूरी तरह से उसमें डूबी हुई दिख रही हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'कला एक स्वतंत्र आत्मा की यात्रा है।' शमिता अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। शमिता के इस वीडियो को साझा करने के बाद उनके फैंस इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'खूबसूरत!' वहीं एक और यूजर ने टिप्पणी कर लिखा, 'वाँव!' शमिता की एक फैन ने लिखा 'आप मेरी रोल मॉडल हैं लव यू।' शमिता शेठ्टी को आखिरी बार 10 फरवरी 2023 में फिल्म 'टैनेट' में देखा गया था।

इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड अभिनेता इमरान पिछले लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अभिनेता ने अपनी जीवनी में काफी बदलाव किए। हाल ही में उन्होंने इसे लेकर बात की। बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई थीं कि इमरान खान ने अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिगटन के साथ मिलकर करण जोहर का फ्लैट किराए पर लिया। इस पर भी इमरान ने प्रतिक्रिया दी है और ऐसी खबरों को महज अफवाह बताया है। इमरान खान अपने पत्नी हिलि बगेल सुविधा संपन्न बंगले से निकलकर अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। हाल ही में फिल्म कर्मीनियम को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने लाइमलाइट और तमाम ताम-शाम से दूर होने के बारे में बात की। एक्टर ने कहा कि वह पांच साल पहले अपने पत्नी हिलि स्थित बगेल को छोड़कर बांद्रा के एक अपार्टमेंट में रहने चले गए थे। उस दौरान वह अपनी पूर्व पत्नी अर्वातिका मलिक से अलग हुए थे। मैंने वहां जाकर नई शुरुआत की। वह एक खाली अपार्टमेंट था। मैंने अपनी जहमतों के हिसाब से धीरे-धीरे वहां चीजें लेनी शुरू कीं।

सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने रद्द किया एलओसी

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू नोकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। कानूनी कार्यवाही के दौरान सैमुअल मिरांडा को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी दायर की गई थी। हालांकि, सैमुअल मिरांडा ने जवाब में छुट्टियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजनाओं का हवाला देते हुए एलओसी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस रेवती मोहिते-डरे और मंजूषा देशपांडे की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने तर्क दिया कि एलओसी की निरंतरता के लिए सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है। बेंच ने माना कि अब तक, सीबीआई ने कोई आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट जमा नहीं किया है और यह



स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया है और पूरे समय सहयोग किया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने नोट किया कि लुक आउट सर्कुलर में याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी से बचने, मुकदमे के लिए अनुपलब्ध होने, फरार होने या किसी अन्य वैध कारण के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई थी। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने

इस मामले के संबंध में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौकिक और उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंदजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को भी रद्द कर दिया था, जो सुशांत की मौत के बाद दायर किया गया था। गौरतलब है कि सुशांत के निधन के बाद सैमुअल मिरांडा को कानूनी जांच का सामना करना पड़ा और बाद में दिसंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

एलएसडी 2 के कमजोर बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने दी सफाई

फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकामला विद्या बालन और प्रतीक गांधी की दो और दो प्यार से है। रिलीज से पहले काफी चर्चा बटोर रही एलएसडी रिलीज के बाद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही है। पहले दिन की कमाई काफी सुस्त रही। इस फिल्म का निर्देशन दिबाकर बनर्जी ने किया है। हाल ही में फिल्म के कलेक्शन को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। फिल्म %एलएसडी 2% वर्ष 2010 में आई %लव सेक्स और धोखा% की सीकल है। करीब दशक भर बाद दिबाकर ने एक बार फिर एकता कपूर के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है। बता दें कि %एलएसडी 2% इंद के दस दिन बाद सिनेमाघरों में आई है। उससे पहले दो बड़े स्टार की फिल्मों लगी हुई हैं। इनमें अक्षय कुमार और टावर की %बड़े मियां छोटे मियां% है और दूसरी अजय देवगन की %मैदान%

है। रिलीज के पहले दिन %लव सेक्स और धोखा 2% ने सिर्फ 15 लाख रुपये का कारोबार ही किया। फिल्म के कलेक्शन पर निर्देशक दिबाकर बनर्जी का कहना है, %कभी-कभी किसी फिल्म में वह खूबी होती है, जो भाव्य, नियति और वास्तविक स्थिति की कुछ विचित्रता के चलते उसके दर्शकों पर असर डालती है। फिलहाल कुछ ऐसा ही है। एलएसडी आज रिलीज हुई है। इसके साथ एक और फिल्म रिलीज हुई है। वहीं करीब दो सप्ताह पहले एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, दुर्भाग्य से जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन, कई सिनेमाघरों में उसकी एडवांस बुकिंग हुई। दिबाकर बनर्जी ने आगे कहा, यह पावर का खेल है। कौन ज्यादा पावरफुल है? निर्देशक ने कहा कि अगर किसी को पता होता है कि ज्यादा दर्शकों तक कैसे पहुंचा जाए तो वह उसी के अनुसार तैयारी करेगा।

पति-पत्नी के बीच किसी को नहीं आने देना चाहिए-विद्या बालन

हिंदी फिल्मों की नामचीन अदाकारा विद्या बालन अपनी हालिया रिलीज फिल्म दो और दो प्यार को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में वह स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच उनका एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वह शादी-शुदा कपल को लेकर दिलचस्प सलाह देती हुई नजर आ रही हैं। विद्या बालन ने फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर से 14 दिसंबर 2012 को फेरे लिए हैं। इस बंधन में बंधे उन्हें एक दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। हाल ही में, एक इंटरव्यू में विद्या सफल शादीशुदा जीवन का मंत्र देते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा कि शादी दो लोगों के बीच होती है और इसे हमेशा दो लोगों के बीच ही रहने देना चाहिए। अभिनेत्री ने कपल के बीच चीजों को साझा करने और बातचीत पर जोर देते हुए सफल वैवाहिक जीवन का अभिन्न अंग बताया। विद्या ने बताया कि

शादीशुदा कपल के बीच किसी भी अन्य व्यक्ति को आने नहीं देना चाहिए, चाहे वह परिवार हो या दोस्त। अभिनेत्री ने आगे कहा कि वैवाहिक संबंध बेहतरीन रूप से परतदार, अपना, जटिल और निजी होता है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दो लोगों के बीच की भावनात्मक जुड़ाव को समझ पाना असंभव है। वहीं, फिल्म की बात करें तो शीर्षा गुहा ठाकुरता के जरिए निर्देशित %दो और दो प्यार% शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित एक रोमांटिक कॉमेडी है। यह फिल्म विद्या बालन और प्रतीक गांधी द्वारा निभाए गए एक विवाहित जोड़े के बारे में है। वहीं, सैथिल और इलियाना द्वारा निभाए गए पात्रों के साथ उनका विवाहेतर संबंध है।

थिएटर से बाहर निकलकर मिला दिया अभिषेक को फोन- राम गोपाल वर्मा

अभिषेक बच्चन और राम गोपाल वर्मा एक साथ फिल्म सरकार में काम कर चुके हैं। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। एक बार अभिषेक बच्चन की फिल्म रावण को देखकर राम गोपाल वर्मा हैरान रह गए थे। अभिषेक ने इस फिल्म में रावण की भूमिका निभाई थी। उनका किरदार इस फिल्म में बार-बार अपना सिर हिलाता रहता है। इस देखकर रामू के मन में सवाल खड़ा हो गया था, जिसका जवाब पाने के लिए उन्होंने अभिषेक को फोन घुमा दिया था। राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए फिल्म %रावण% से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन लगातार अपना सिर हिलाते रहते हैं, जोकि एक अजीब आदत है। राम गोपाल वर्मा थिएटर में इस फिल्म को देख रहे थे और जब भी अभिषेक बच्चन अपना सिर हिलाते तो हर कोई एक-दूसरे का मुंह ताकता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। थिएटर से बाहर निकलने के बाद राम गोपाल वर्मा को प्यूल आया कि अभिषेक से सिर हिलाने का कारण क्या है। इससे बाद रामू ने अभिषेक को फोन किया और इसका कारण बताने को कहा। इसके जवाब में



अभिषेक ने बताया कि निर्देशक मणि रतन और उन्होंने मिलकर इस बात पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि रावण के दस सिर थे। फिल्म में जब अभिषेक को फिल्मों में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीता की भूमिका अदा की थी।

एक ही विचार पर कायम रहता है। मालूम हो कि निर्देशक मणि रतन ने इस फिल्म को तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया था। खास बात है कि दोनों ही फिल्मों में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीता की भूमिका अदा की थी।

चमकीला को गोली मारकर नाच रहे थे उनके हत्यारे

निर्देशक इतियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर खूब उसाह देखने को मिल रहा है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांडा अहम किरदार में नजर आए हैं। फिल्म में अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से लोगों में दिवंगत पंजाबी गायक की जिंदगी के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है। अब हाल ही में, चमकीला के पूर्व सचिव मंकू ने उस दुखद समय के बारे में बताया है, जब गायक को मार दिया गया था। मंकू ने एक साक्षात्कार में कहा कि चमकीला को उनके अंतिम प्रदर्शन के लिए 8000 रुपये का भुगतान किया गया था। चूंकि चमकीला और अमरजोत शा से पहले भोजन करना चाहते थे, मंकू ने उन्हें भोजन के लिए छोड़ दिया और पास के मंच पर यह देखने के लिए चले गए कि सब कुछ क्रम में है या नहीं।

किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराया जायेगा: डीएम

क्रेडिट कार्ड बनवाने के साथ फसल बीमा अवश्य करावें: मंगला प्रसाद सिंह
अवधानामा संवाददाता



विभाग को निर्देशित किया कि नहरों के किनारे स्थित तालाबों में पानी भरने की व्यवस्था कराये और नलकूप विभाग को नलकूपों के निकट स्थित तालाबों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये इसके साथ ही उपायुक्त मनरेगा द्वारा यथा संभव अमृत सरोवरों में पानी भरवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सीमेन पर भारी छूट उपलब्ध है। इस सीमेन से 95 प्रतिशत बछिया पैदा होने की सम्भावना है। जनपद में विभिन्न स्थानों पर वृहद गौशालाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने किसान संगठनों से भूसा दान करने की अपील की।

किसान प्रतिनिधियों ने गोवंश संरक्षण में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी से किसानों के साथ गोष्ठियां आयोजित कर गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि नियमों के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, उपनिदेशक कृषि डॉ नन्द किशोर, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, अधिशासी अभियंता शारदा नहर, विद्युत तथा डीसी मनरेगा सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी व किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीएम की अध्यक्षता में हुई सीएम डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा



अवधानामा संवाददाता

हरदोई। विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय योजनाओं की प्रगति को बनाये रखा जाये। उन्होंने डूंग सैमल संग्रह में खराब प्रगति को लेकर डूंग इन्स्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण

को निर्देश दिए कि एफएसटीसी कवरज को बढ़ाया जाये। शत प्रतिशत संतुष्ट ग्रामों की संख्या बढ़ाई जाये। योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतिदिन आरा मशीनों पर पहुंच रही है ट्रैक्टर ट्राली व पिकअप में लदी प्रतिबंधित लकड़ी

वन विभाग व पुलिस दोनों की कार्रवाई पर लग रहे सवालिया निशान

अवधानामा संवाददाता

हरदोई। बिलग्राम क्षेत्र में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटान पर लगाम लगती नहीं दिख रही। खाकी व वन विभाग के जिम्मेदारों की सरपरस्ती के चलते लकड़ी उकेदारों के हौसले बुलंद हैं। प्रतिदिन प्रतिबंधित पेड़ों की कटान कर लकड़ी आरा मशीनों पर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं। बीती 15 मई को प्रमेश तिवारी पुत्र स्व. हरिशंकर तिवारी के खेत स्थित ग्राम अलोगढ़ (मोहल्ला मैदानपुरा) कस्बा बिलग्राम



में नीम के पेड़ लगभग 15 वर्ष पुराने का कटान हुआ था। जिसकी सूचना प्रमेश तिवारी ने दिनांक 16 मई को कोतवाली बिलग्राम में दी थी जिसमें शिकायतकर्ता प्रमेश तिवारी ने बताया है कि मुझको संदेह है कि उसका पेड़ कादिर पुत्र शाकिर निवासी मोहल्ला मैदानपुरा थाना बिलग्राम ने काटा है। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही स्थानीय कोतवाली पुलिस के द्वारा

जे जे एक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन

जुवेनाइल मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए: एसपी काइम सुबोध

अवधानामा ब्यूरो



इटावा। पुलिस लाइन सभागार में एसपी काइम सुबोध गौतम की अध्यक्षता में जे जे एक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एक्ट से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। एसपी काइम सुबोध गौतम ने कहा कि जुवेनाइल मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही न वरती जाए। पुलिस बाल कल्याण अधिकारी इस संबंध में नियमित ज्ञानार्जन करते रहें तथा रूप डिक्शन भी अवश्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में नियमित अंतराल पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल अवश्य हों। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे बाल संरक्षण

अधिकारी सोहन गुप्ता ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपराध में सलित बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए उन्हें बिना वर्दी पहने ही बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना चाहिए। पेश करने से पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है यदि आयु संबंधित कोई प्रपत्र नहीं है तो बाल न्याय बोर्ड के आदेश पर ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना

चाहिए। श्री गुप्ता ने बाल कल्याण समिति व बाल कल्याण बाल न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी तथा देखरेख व आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियां बताई तथा उन्हें पेश करने समय निर्धारित प्रारूपों को भरने की भी जानकारी दी। कार्यशाला में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शायक, चाइल्ड हेल्थलाइन की जिला कोऑर्डिनेटर कीर्ति गुप्ता, आंकड़ा

विश्लेषक उमर मुर्तजा, अलावा एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट प्रभारी विजय कुमार पांडेय उनके साथ रहे। इस दौरान थाना जीआरपी, सिविल लाइन, कोतवाली, जसवंतनगर, बलरई, इकदिल, बड़पुरा, चकरनगर, सहसां, बकेवर, ऊसरहार, भरेह, बिठौली, चौबिया आदि जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित सब इन्स्पेक्टर तथा महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

खाकी व वन विभाग की मिलीभगत से लकड़कट्टों के हौसले बुलंद

प्रतिदिन आरा मशीनों पर पहुंच रही है ट्रैक्टर ट्राली व पिकअप में लदी प्रतिबंधित लकड़ी

वन विभाग व पुलिस दोनों की कार्रवाई पर लग रहे सवालिया निशान

अवधानामा संवाददाता

हरदोई। बिलग्राम क्षेत्र में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटान पर लगाम लगती नहीं दिख रही। खाकी व वन विभाग के जिम्मेदारों की सरपरस्ती के चलते लकड़ी उकेदारों के हौसले बुलंद हैं। प्रतिदिन प्रतिबंधित पेड़ों की कटान कर लकड़ी आरा मशीनों पर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं। बीती 15 मई को प्रमेश तिवारी पुत्र स्व. हरिशंकर तिवारी के खेत स्थित ग्राम अलोगढ़ (मोहल्ला मैदानपुरा) कस्बा बिलग्राम

में नीम के पेड़ लगभग 15 वर्ष पुराने का कटान हुआ था। जिसकी सूचना प्रमेश तिवारी ने दिनांक 16 मई को कोतवाली बिलग्राम में दी थी जिसमें शिकायतकर्ता प्रमेश तिवारी ने बताया है कि मुझको संदेह है कि उसका पेड़ कादिर पुत्र शाकिर निवासी मोहल्ला मैदानपुरा थाना बिलग्राम ने काटा है। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही स्थानीय कोतवाली पुलिस के द्वारा

नहीं की गई और क्षेत्र में गश्त करने का दम्भ भरने वाले जिम्मेदार मौके पर या उसके बाद समाचार लिखे जाने तक नहीं पहुंचे। जिसके चलते वन विभाग व पुलिस दोनों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जो कि लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक बिलग्राम कस्बे के इर्द-गिर्द भी हरे पेड़ों की कटान जमकर जारी है। इस क्षेत्र में कटने वाले प्रतिबंधित पेड़ों की

लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां व पिक अप के माध्यम से कस्बे की गलियों व चौराहे से होकर गुजरती हैं। जबकि हर वर्ष सरकार व प्रशासन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण अभियान चलता है इस पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं विभिन्न संस्थाएं भी लगातार जागरूक करते हुए पौधरोपण कर रहे हैं जिससे हमारा क्षेत्र व देश हरा भरा रहे और प्रकृति संरक्षण का सपना साकार हो लेकिन जब रक्षक ही बन जाए रक्षक बन जाए तो उनसे पर्यावरण सुरक्षा की उम्मीद बेमानी के सिवा कुछ नहीं है वन संरक्षण और उसकी सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग ही खाऊ कमाऊ नीति के चलते लापरवाही बरत रहे हैं सूत्र बताते हैं कि क्षेत्र में खुले आम आए दिन वन माफिया तांख करते नजर आ रहे हैं लेकिन क्षेत्रीय खाकी सब जानने के बावजूद अनजान बनी हुई हैं।

संगीतमयी बुद्ध व भीम कथा का रात्रिकालीन आयोजन



अवधानामा ब्यूरो

इटावा, बसंहरा। मूज गांव में संगीतमयी बुद्ध व भीम कथा का रात्रिकालीन आयोजन किया गया। जिसमें तथागत बुद्ध व भीम के संस्मरण सुनाए गए। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि हम सबको तथागत बुद्ध के विचारों का जीवन में अनुसरण करना चाहिए। मुख्य वक्ता डॉ धर्मद कुमार व डॉ.एमपी सिंह ने कहा कि बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोद्धाचार्य सूरज राही बौद्ध ने

सांस्कृतिक से मध्य रात्रि तक बुद्ध कथा सुनाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार वीरेश मिश्रा, प्रेम कुमार शायक, रजत गुप्ता व इमरान अहमद ने अपने विचार रखे। आयोजक बलवीर सिंह जाटव बबलू ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लाल सिंह जाटव, रणजीत सिंह, नरेंद्र, अनुराग, गोविंद, प्रताप, कल्याण सिंह, हरिश्चंद्र, सुरेंद्र, राम अवतार, महेश, आनंद, आशु, धर्मवीर, सनेज, अर्जुन आदि का योगदान रहा।

डॉ. कैलाश बने सीबीएसई रिसोर्स पर्सन



अवधानामा ब्यूरो

इटावा। पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ.कैलाश चंद्र यादव को सीबीएसई ने अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बनाया था। इसी कड़ी में उन्हें विभिन्न विषयों की ट्रेनिंग देने वाले रिसोर्स पर्सन की भी जिम्मेदारी दी है। शुक्रवार को श्री कैलाश ने फतेहाद फरखवाबद के सेंट पाउल ब्रिटन एकेडमी सीनियर

सेकंडरी स्कूल में क्लास रूम मैनेजमेंट विषय पर दो दिवसीय ट्रेनिंग में जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए लगभग 60 शिक्षकों को विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग देकर अपने अनुभव एवं जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि यदि शिक्षक अपने क्लास रूम मैनेजमेंट को अच्छे कर लेता है तो बच्चों को विषय अच्छे से समझाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया सीबीएसई का प्रयास है कि शिक्षकों

को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ट्रेनिंग देकर उन्हें दक्ष एवं सक्षम बनाया जाए। जिससे बच्चों को विषय अच्छे से समझकर पढ़ाया जा सके और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। सीबीएसई द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी पर डॉ कैलाश चंद्र यादव ने कहा कि टीबी रोग विषय स्तर पर बड़ी संख्या में जान लेने वाली शीर्ष बीमारियों में से एक है। यह एक संक्रामित वायु जनित रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इन्होंने

संक्रामित रोगों के प्रति किया गया जागरूक

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। आर्मी एरिया के कैप्टन मनोज पाण्डेय, पी वी सी कॉम्प्लेक्स (मथुरा) में कैप्टन कमांडेंट कर्नल रजत पाण्डेय के निर्देशन में चल रहे 11 यू पी वाहिनी एनसीसी के संपुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में दिनांक 24 मई को जिला अस्पताल मथुरा से आये विषय विशेषज्ञ डॉ. अखिलेश दीक्षित, डॉ. एस पी राठौर, डॉ. निरचल दिवाकर ने एचआईवी, एड्स एवं टीबी जैसी घातक बीमारियों के बारे में कैडेटों को जागरूक किया। डॉ एस पी राठौर ने बताया कि टीबी रोग विषय स्तर पर बड़ी संख्या में जान लेने वाली शीर्ष बीमारियों में से एक है। यह एक संक्रामित वायु जनित रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इन्होंने

टीबी रोग के मुख्य लक्षण बताएं- दीर्घकालीन खासी, भूख की कमी, वजन घटना, थकान, सांस फूलना इत्यादि। डॉ अखिलेश दीक्षित ने कैडेटों को एचआईवी और एड्स रोग के बीच में संबंध बताया। इन्होंने बताया कि एचआईवी संक्रमण वाले किसी व्यक्ति के दौरान क्षय रोग विकसित होने की अधिक संभावना होती है। डॉ निरचल दिवाकर ने कैडेटों से अपील कि की वह भी अपने स्तर से समाज के लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करें। कैप्टन कमांडेंट कर्नल रजत पाण्डेय ने आए हुए अतिथियों की भुरी भुरी प्रशंसा की व भविष्य में ऐसे कार्यक्रम अधिक से अधिक हो ऐसी कामना की।

विश्व कछुआ दिवस: सफारी एक्सप्रेस के प्रथम संस्करण का विमोचन

वहाज अली निहाल

इटावा। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर चंबल सैक्ररी के अंतर्गत नदावां में आयोजित कार्यक्रम में इटावा सफारी पार्क द्वारा प्रकाशित होने वाले 'त्रैमासिक न्यूजलेटर' 'सफारी एक्सप्रेस' के प्रथम संस्करण का विमोचन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के द्वारा प्रथम मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा, प्रथम मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संजय श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इटावा सफारी पार्क के निदेशक डॉ. अनिल पटेल द्वारा सफारी एक्सप्रेस के इस संस्करण में इटावा



सफारी पार्क में बीते तीन माह के दौरान संपन्न विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। यह 'सफारी एक्सप्रेस' नामक न्यूज लेटर ऑनलाइन भी इटावा सफारी पार्क के ऑफिसियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उपायुक्तों की उपस्थिति में किया गया। इटावा सफारी पार्क के निदेशक डॉ. अनिल पटेल द्वारा सफारी एक्सप्रेस के इस संस्करण में इटावा

अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की टीम के पशु चिकित्सक डॉ योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में तथा डॉ आर के सिंह, उषा पशुचिकित्सक पशु पालन विभाग के निदेशक डॉ. अनिल पटेल के साथ में गोरखपुर प्राणि उद्यान भेजा गया। शेर भरत इटावा सफारी पार्क के लॉयन ब्रीडिंग सेंटर में दिनांक 26 जून 2019 को पैदा हुआ है। जबकि शेरनी गौरी सक्करबारा प्राणी उद्यान से दिनांक 25 सितंबर 2019 में इटावा सफारी पार्क में लायी गयी थी।

पति-पत्नी जिंदा जले, परीक्षा देकर लौट रही थी महिला

टायर फटने से कार पेड़ से टकराई

अवधानामा संवाददाता



हरदोई। हरदोई में पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार पति-पत्नी जिंदा जले। महिला अपने पति के साथ अटिंगा कार से बीए की परीक्षा देकर लौट रही थी। रास्ते में कार का टायर फट गया और वह नीम के पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद राहगीरों ने स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

पुलिस ने कार नंबर से पता तलाश कर पीड़ित परिवार को सूचना दी। कार सांडी से हरदोई की ओर आ रही थी। काराहा गौशाला के पास हादसा हुआ। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि दंपती को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। घटना के पीड़ित कोतवाली देहात क्षेत्र के रहे पुरवा के रहने वाले हैं। आकाश (32) अपनी पत्नी कीर्ति (30) को बीए की परीक्षा दिलाने के लिए सांडी थाना क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज में लेकर आया था। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों अपनी अटिंगा कार से घर लौट रहे थे। अचानक कार का टायर फट गया कर सड़क किनारे जोरदार टक्कर के कारण

ब्रज दर्शन को आने वाले भक्त पाएंगे निःशुल्क भोजन

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। वृंदावन श्रीबांके बिहारी जी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले भक्तों को अब वृंदावन में निःशुल्क भोजन मिलेगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मंगलमय परिवार न्यास की ओर से की है। उग्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने गुरुवार को बताया कि ब्रज दर्शन को आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन की यह व्यवस्था वृंदावन और बरसाना के बाद अन्य तीर्थ स्थलों पर भी बढ़ाई

अन्य तीर्थ स्थलों पर भी होगी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था: शैलजाकांत मिश्र

जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने जयपुर मंदिर के सामने अनूपपूर्णा भवन का निर्माण कराया है। 4.90 करोड़ की लागत से तैयार वातानुकूलित इस अनूपपूर्णा भवन में ब्रज दर्शन के लिए बाहर से आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। भोजन की यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक तथा शाम सात बजे से रात 9 बजे तक रहती है। वातानुकूलित अनूपपूर्णा भवन का संचालन मंगलमय परिवार न्यास (संत विजय कौशल महाराज) द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक साथ करीब 150 लोग भोजन कर सकते हैं। यहां प्रतिदिन 2000-2500 व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हैं। स्वच्छ और शांति पूर्ण भोजन को कांहा के भक्त एवं भोजन प्रसादी ग्रहण कर आनंदित होते हैं। परिषद के मुख्य कार्यपालक एस बी सिंह का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि ब्रज में दूर-दराज से आने

तक तथा शाम सात बजे से रात 9 बजे तक रहती है। वातानुकूलित अनूपपूर्णा भवन का संचालन मंगलमय परिवार न्यास (संत विजय कौशल महाराज) द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक साथ करीब 150 लोग भोजन कर सकते हैं। यहां प्रतिदिन 2000-2500 व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हैं। स्वच्छ और शांति पूर्ण भोजन को कांहा के भक्त एवं भोजन प्रसादी ग्रहण कर आनंदित होते हैं। परिषद के मुख्य कार्यपालक एस बी सिंह का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि ब्रज में दूर-दराज से आने

वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो खासकर असहाय लोगों को भोजन की। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद वृंदावन की भांति यही प्रयास राधारानी की नगरी बरसाना में भी कर रहा है। बरसाना में श्रीजी मंदिर के निकट राधा रात्री सोसाई जल पान रूह स्थापित किया गया है जहां राधा रात्री को भक्तों को फी भोजन ग्रहण कराया जाता है। बरसाना में इसका संचालन मान मंदिर द्वारा किया जा रहा है जो सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तथा शाम पांच बजे से नौ बजे तक संचालित रहता है।

लापता युवक का शव यमुना नदी में मिला

मथुरा। एक दिन पहले महानगर के राजाधिराज बाजार स्थित पाठक गली निवासी गायब चल रहे चतुर्वेदी समाज के एक नवयुवक का शुक्रवार दोपहर विश्राम घाट क्षेत्र में यमुना नदी में उतरता शव मिलने से सनसनी फैल गयी।

क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर समय से पुलिस के न पहुंचने पर वहां भारी हंगामा मच गया। बताते कि महानगर कोतवाली क्षेत्र के पाठक गली निवासी करीब 28 वर्षीय प्रस्तुत चतुर्वेदी उर्फ पऊआ पुत्र संजु गुरुवार को घर से संदिग्ध परिस्थितियों के चलते लापता हो गया था। शुक्रवार दोपहर विश्राम घाट स्थित एक शव यमुना नदी में उतरता मिला है। क्षेत्रीय लोगों ने शव को देख उसकी सूचना पुलिस को दी। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को यमुना नदी से बाहर निकाला गया। शव को देख परिजनों के होश उड़ गये। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमॉर्टम के लिये भेजा है। अब कोतवाली पुलिस घटना की जांच में जुटी है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

जरूरी है तभी हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। डा. अली जफर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा पहला कर्तव्य राष्ट्र और समाज का हित होना चाहिए मतदान राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। आलोक चतुर्वेदी ने शत प्रतिशत मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया।

केएम विवि के स्टाफ ने परिक्रमार्थियों को दी पांच दिन निःशुल्क जलसेवा

अवधानामा संवाददाता

मथुरा। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है, लेकिन गिराज महाराज से आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। केएम विश्वविद्यालय के एचआर डिपार्टमेंट में कार्यरत स्टाफ एवं श्रीबालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए पांच दिवसीय शीतल जल प्याऊ लगाई गई, जिसका हजारों श्रद्धालुओं ने 24 घंटे लाभ लिया। विवि के कुलाधिपति किशन चौधरी ने कार्यरत टीम के इस कार्य की सराहना व प्रशंसा की है। श्रीबालाजी महाराज की असीम कृपा से श्रीबालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट मथुरा

द्वारा गोवर्धन परिक्रमा में श्रीकृष्ण कंचन धाम के सामने शीतल जल प्याऊ पांच दिन लगाकर परिक्रमार्थियों की जल सेवा की। गर्मी से व्याकुल श्रद्धालुओं ने शीतल जल पीकर गिराज महाराज और श्रीबालाजी के जयकारे लगाए। प्याऊ के मुख्य आयोजक संचालक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के निर्देशन में संपूर्ण भारत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हजारों युवा कार्यकर्ता व पदाधिकारी महोदय भारत माता के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आपसी भाईचारा बना रहे। हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे राष्ट्र का विकास निरंतर गति से होता रहे और भविष्य में ना रुके इस निमित्त संपूर्ण जिलों में ध्रमण कर रहे हैं। असी कर्म में आज

मतदान देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है: अली

अवधानामा संवाददाता



घोसी। गौरक्ष प्रान्त/घोसी लोकसभा गुरुदेव डॉक्टर इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय संसदेयक संघ मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के निर्देशन में संपूर्ण भारत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हजारों युवा कार्यकर्ता व पदाधिकारी महोदय भारत माता के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आपसी भाईचारा बना रहे। हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे राष्ट्र का विकास निरंतर गति से होता रहे और भविष्य में ना रुके इस निमित्त संपूर्ण जिलों में ध्रमण कर रहे हैं। असी कर्म में आज

जरूरी है तभी हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। डा. अली जफर ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा पहला कर्तव्य राष्ट्र और समाज का हित होना चाहिए मतदान राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। आलोक चतुर्वेदी ने शत प्रतिशत मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया।

इस मीलान पर्व को लेकर विचार संगोष्ठी हुई। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में तुषारकांत हिंदुस्तानी और विशिष्ट वक्ता आलोक चतुर्वेदी रहे। यथा संचालन की जिम्मेदारी डा. अली जफर ने निभाई। तुषारकांत ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाली 1 जून को शत प्रतिशत मतदान कराना हमारा दायित्व होना चाहिए। वोट देते वक्त राष्ट्रहित को ध्यान में रखना

इस मीलान पर्व को लेकर विचार संगोष्ठी हुई। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में तुषारकांत हिंदुस्तानी और विशिष्ट वक्ता आलोक चतुर्वेदी रहे। यथा संचालन की जिम्मेदारी डा. अली जफर ने निभाई। तुषारकांत ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाली 1 जून को शत प्रतिशत मतदान कराना हमारा दायित्व होना चाहिए। वोट देते वक्त राष्ट्रहित को ध्यान में रखना

फिटनेस मंत्रा

हर उम्र की महिलाएं फॉलो कर सकती हैं ये 7 दिन का योगा प्लान, खत्म होगी जिद्दी चर्बी

कई लोगों का मानना होता है कि योग सिर्फ व्यायाम है। लेकिन आपको बता दें कि योग महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि यह न सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी मजबूती देता है। रोजाना योग करने से व्यक्ति सेहतमंद बना रहता है। इससे मसल्स मजबूत होती हैं और शरीर लचीला बनता है। वहीं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। वहीं आजकल की जिंदगी में हर किसी को तनाव होता है। वहीं यदि आप अपनी डेली रूटीन में प्राणायाम और योगासन को शामिल करती हैं, तो तनाव, डिप्रेशन और घबराहट कम करने में सहायता मिलती है। योग हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य को भी फायदा मिलता है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और शरीर को आसानी से पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको

सात दिन का आसन योग प्लान बताने जा रहे हैं, जो लगभग हर महिला की उम्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

पहला दिन

पहले दिन को शुरूआत सूर्योदय के साथ हठ योग से करें। इस दौरान गहरी सांस लेते हुए शरीर को हल्का स्ट्रेच करें।

रात को सोने से पहले विपरीत करणी, सेतुबंधासन और बालासन कर तनाव को दूर कर आरामदायक नींद पाएं।

दूसरा दिन

सूर्य नमस्कार कर अपने शरीर को वॉर्मअप करें। इसके बाद नौकासन, प्लैंक और डॉल्फिन प्लैंक जैसे पोज करें। इससे आपके मसल्स की मजबूती बढ़ेगी। इसके बाद शाम को कपालभाति और अनुलोम-विलोम जैसी ब्रॉन्डिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका मन शांत होगा और तनाव कम होगा।

तीसरा दिन

तीसरे दिन को शुरूआत विन्यास योग से करनी चाहिए। इस आसन



को करने के दौरान सांसों और आसन को मिलाते हुए विभिन्न गतिविधियों की जाती हैं। इससे आपका शरीर लचीला होने के साथ संतुलित होता है। आप त्रिकोणासन, वीरभद्रासन और वृक्षासन का भी अभ्यास कर सकती हैं।

वहीं शाम के समय थिन योग या हल्के स्ट्रेच कर मांसपेशियों की अकड़न को कम करें और अपने जोड़ों को लचीला बनाएं। इस दौरान बटरफ्लाई, ड्रैगन और केंटरपिलर जैसे आसनों में ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करें।

चौथा दिन

चौथे दिन को शुरूआत थिन-यांग योग से करना चाहिए। इस आसन में एक्टिव पोज और पैसिव स्ट्रेच को मिलाया जाता है, जो शरीर की एनर्जी को बैलेंस कर शरीर को आराम देता है।

वहीं शाम को ध्यान लगाने और मन को शांत रखने के लिए कुछ समय निकालें। शुरूआत में बेंचकर

सिर्फ ध्यान करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान लगाने से न सिर्फ आंतरिक शांति बल्कि करुणा की भावना भी पैदा होती है।

पांचवां दिन

इस दिन पावर योग का अभ्यास कर शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। इससे सहनशक्ति बढ़ेगी। इस दिन चैयर पोज से लेकर क्रिसेंट लंज और अधोमुख श्वानासन जैसी डायनेमिक सीरीज को एड करें।

फिर रात को सोने से पहले योग

निद्रा या गार्डेड रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिससे कि आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स फील कर अच्छी नींद आ सके।

छठा दिन

छठे दिन को शुरूआत भुजंगासन, सेतुबंधासन और बितिलासन जैसे आसनों से करनी चाहिए। इससे पीठ की मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और कमर दर्द में राहत मिलती है। साथ ही आपके शरीर का पोस्चर भी ठीक रहता है।

रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और तनाव को कम करने के लिए अर्द्ध मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए।

सातवां दिन

वहीं सप्ताह के आखिरी दिन शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए विभिन्न आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इस दिन आप बैकबैंक किए जाने वाले स्ट्रेच और ऊर्जे होकर किए जाने वाले आसन और खड़े होकर संतुलन बनाने वाले आसन कर सकती हैं। इससे आपका दिमाग भी चुस्त रहता है।

आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेड फास्टिंग, जानिए कारण



आज के समय में हर महिला अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देती है। हर महिला वजन को कम करने या मेटेन करने की कोशिश करने में लगी रहती है। क्योंकि सभी महिलाएं अपने फिगर को फिट रखकर खूबसूरत दिखना चाहती हैं। जिसके लिए वह एक्सरसाइज, योग, वेट लॉस डाइट और वॉक जैसी गतिविधियां अपने लाइफस्टाइल में शामिल करती हैं। बता दें कि वेट लॉस के कई अन्य तरीके भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इनमें से एक तरीका इंटरमिटेड फास्टिंग का है।

महिलाओं के लिए वेट लॉस की जर्नी में महिलाओं के लिए इंटरमिटेड फास्टिंग सबसे शानदार तरीकों में से एक है। इस दौरान आपको एक समय तक उपवास रखना होता है। इस फास्टिंग के दौरान आपको हेल्दी या अनहेल्दी खाने से भी परहेज करना पड़ता है। इस फास्टिंग को फॉलो करने के दौरान महिलाएं अधिकतर या तो सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, या फिर रात का डिनर स्किप करती हैं। इस दौरान पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना होता है।

बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि इंटरमिटेड फास्टिंग की सहायता से हर महिला अपना वेट कम कर सके। ऐसे में अगर आप भी खुद को फिट रखने के लिए इंटरमिटेड फास्टिंग करना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस

आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन महिलाओं को इंटरमिटेड फास्टिंग फॉलो करने से बचना चाहिए।

तनाव और वर्कलोड से परेशान

अगर आपकी लाइफ में ऑफिस का वर्क लोड ज्यादा है, या फिर आप घर और ऑफिस के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाती हैं। तो आपको इस तरह की फास्टिंग से बचना चाहिए।

ब्रेकफास्ट स्किप न करना

आर आप भी उन महिलाओं में शामिल हैं, जो सुबह का नाश्ता करना स्किप नहीं करती हैं। या फिर नाश्ता न करने से आपको कमजोरी व चक्कर आने लगते हैं। तो आपको वेट लॉस के लिए इंटरमिटेड फास्टिंग का ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए।

जंक फूड की शौकीन

अगर आप 16 घंटे की इंटरमिटेड फास्टिंग के बाद जंक फूड, तला-पुना और अनहेल्दी फूड खाना पसंद करती हैं। तो इंटरमिटेड फास्टिंग से आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए यदि आपको भी जंक फूड का शौक है, तो आपको वेट लॉस के लिए इंटरमिटेड फास्टिंग का ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए।

बता दें कि अगर इंटरमिटेड फास्टिंग की सहायता से आप भी वेट लॉस करना चाहती हैं, तो आपको जंक फूड, अनहेल्दी फूड और तनाव से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी को दूर करेंगी ये 5 चीजें, दिल और दिमाग रहेगा जवान



ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के काम को बेहतर करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड एक तरह का पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर के कई कामों के लिए जरूरी होता है। यह दिल और दिमाग दोनों को हेल्दी रखता है और सूजन को भी कम करता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड के फायदे

ओमेगा-3 फैटी एसिड लेने से दिमागी कमजोरी के जोखिम को कम कर सकते हैं और यह अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गटिया जैसी सूजन संबंधी बीमारियों को रोकते हैं। यह उम्र बढ़ने से जुड़ी आंखों की समस्याओं का खतरा भी कम करती है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी को दूर करने करने के लिए इन चीजों का करें सेवन

अलसी के बीज

अलसी में सबसे ज्यादा ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। आप इसे आसानी से डाइट में शामिल करें। अलसी को पीसकर स्मूदी, ओटमील या बेकड चीजों में डाल सकते हैं।

चिया सीड्स

चिया सीड्स भी ओमेगा-3 का बेहतरीन सॉर्स है, इसके साथ ही इनमें फाइबर और

प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसे आप पानी में भिगोकर जेल जैसा बनाकर और फिर पुडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या दही और सलाद में डाल सकते हैं।

अखरोट

अखरोट दिमाग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अखरोट में पर्याप्त मात्रा में होता है और साथ ही इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसे आप शाम के टाइम खा सकते हैं या फिर सलाद, ओटमील या बेकड चीजों में डाल सकते हैं।

हेमप सीड्स

हेमप सीड्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होता है और इनमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड संतुलित अनुपात होता है। इन्हें सलाद, सूप या दही के ऊपर छिड़ककर पोषण बढ़ाया जा सकता है।

अल्माल ऑयल

अल्माल ऑयल सीधे शैवाल से प्राप्त है और यह इंपीए और डीएचए दोनों का एक शाकाहारी स्रोत है। यह सल्टीमेंट के रूप में यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल दिन आवश्यक फैटी एसिडों का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो शाकाहारी भोजन करते हैं।

ब्रेकफास्ट में इन चीजों के सेवन से कम होगा दिल संबंधी बीमारियों का खतरा, रहेंगे हेल्दी

आज के समय में लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण हाई कोलेस्ट्रॉल का होना है। ऐसे में कहीं कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी में हावी न हो जाए। इसके लिए बचाव करना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। क्योंकि जब आप यह जान पाएंगे, तभी आप अपने लिए सही डाइट का चुनाव कर पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सि सब्सटेंस की तरह होता है, जो लिपिड द्वारा निर्मित होता है।

जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो फैटी डिपोजिट आर्टरीज में बनने लगते हैं। जिसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होने लगती है। जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बन सकता है। शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा गलत खानपान



होता है। इससे बचाव के लिए आपको अपनी डाइट में उन चीजों को शामिल करना चाहिए, जो बांडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने न दें। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सुबह कैसा नाश्ता करना चाहिए, जिससे की शरीर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे।

आपके हार्ट और ओवरऑल हेल्थ के लिए ओट्स सबसे अच्छा नाश्ता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसमें सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो डाइजैस्टिव ट्रेक्ट में

मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से अटैच हो जाता है। जिससे आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल आसानी से बाहर निकल जाता है।

ब्रेकफास्ट के लिए व्हाल ग्रेन सैंडविच भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। व्हाल ग्रेन सैंडविच में लो कैलोरी, हाई फाइबर और विटामिन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो वेट घटाने में भी मदद करते हैं। ऐसे में इसके सेवन से आपके शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

आपकी सेहत के लिए बादाम का

रुमती-जलती घमौरियों से राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, झट से मिलेगा आराम

गर्मियों का मौसम आते ही लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इस मौसम में घमौरियों की समस्या बढ़ जाती है। इसको प्रिकली हीट और हीट रैश भी कहा जाता है। यह पसीने की ग्रन्थियों के पोर्स बंद होने की वजह से हो जाती है। इसके होने पर शरीर में छोट-छोटे लाल दाने निकल आते हैं और जलन व खुजली की समस्या हो सकती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। घमौरियां सबसे ज्यादा सीने, पीठ, चेहरे और हाथों पर निकलती हैं। घमौरियां निकलने पर घूप में जाने से परेशानी और दिक्कत बढ़ती है। ऐसे में अगर आप भी घमौरियों से परेशान हो गए हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको घमौरियों से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं।



डिटॉक्स ड्रिंक्स

इसके साथ ही गर्मियों में घमौरियों की समस्या से बचने के लिए अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। इसके लिए आप रोजाना नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि नींबू पानी आपकी बांडी के लिए एक अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक हो सकता है। यह शरीर को साफ करने के साथ विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। वहीं नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

कॉटन कपड़े

गर्मियों में घमौरियों की समस्या से बचने के लिए कॉटन कपड़े पहनना चाहिए। क्योंकि इस कपड़े में पसीना सोखने के गुण पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में पॉलिस्टर, रेयॉन, सिंथेटिक और जॉर्जेट आदि फैब्रिक

पहनने से बचना चाहिए।

शहद

बता दें कि शहद में एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोजाना शहद का सेवन करने के साथ ही इसको स्किन पर अप्लाई करती हैं, तो घमौरियों में आराम मिलता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन में होने वाली जलन को दूर करता है।

नारियल तेल

अगर आप भी घमौरियां होने से परेशान हो गए हैं, तो रात में सोने से पहले आप नारियल तेल का तेल लगाएं। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हीट रैश को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की स्थिति को सुधारने में मदद करता है।

अगर आपको भी ये लक्षण हो रहे हैं महसूस, हो सकती है आयरन की कमी, अनदेखा न करें

शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है, यह हमारे बांडी के लिए जरूरी पोषक तत्व है। आज के समय में आयरन की कमी काफी लोगों में देखने को मिल रही है। दरअसल, हीमोग्लोबिन एक तरह का कॉम्पोनेंट होता है, जो रेड ब्लड सेल्स में होता है। इसे एक तरह का प्रोटीन कहा जाता है, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। वहीं, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन न हो, तो सेल्स और टिशूज को सही तरह से काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आयरन की कमी से हमारे ओवरऑल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं आयरन की कमी होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं।

आयरन की कमी से दिखने वाले लक्षण

जोष में सूजन किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर जोष में सूजन हो सकती है। लेकिन, आयरन की कमी होने पर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जोष में सूजन होने से



खाना निगलने में तकलीफ हो जाता है। ऐसे में शरीर में अन्य पोषक तत्वों की भी कमी हो सकती है। इसलिए इसे कभी हल्के में न लें।

होंठों का फटना

कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पेड्रोलिम जेली लगाने या अन्य तरह के घरेलू उपायों के आजमाने के बावजूद फटे होंठों की समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है। शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। आयरन की कमी होने पर होंठों के कॉर्नर वाले भाग फटने की समस्या आयरन की कमी हो सकती है। ऐसे में लिप क्रीम लगाना काफी जरूरी नहीं है। आपको आयरन की कमी को पूरा करने की कोशिश करनी है।

नाखूनों का टूटना नाखून टूटने की वजह आयरन की कमी का एक लक्षण है। आमतौर पर आयरन की कमी होने पर स्पून-शेपड फिंगरनेल्स से हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आयरन की कमी से नाखून टूटते हैं। अगर आप आयरन की कमी पूरी कर लें, तो नाखूनों के टूटने की समस्या दूर हो जाएगी।

अजीब तरह की क्रेविंग होना

आयरन की कमी होने पर व्यक्ति को अजीब-गरीब चीजें खाने की क्रेविंग होती है। इस दौरान मिट्टी, कले, कांडबोड जैसी खाने की क्रेविंग होती है। तो यह आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।

गर्मियों में इन लोगों को लू लगने का सबसे ज्यादा खतरा, जानिए कैसे करें अपना बचाव

अप्रैल-मई का महीना आते ही गर्मी अपने पूरी शबाब पर होती है। हर रोज तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। वहीं चिलचिलाती धूप, गर्मी और गर्म हवाओं से इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल रहता है। गर्मियों में मौसम में खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वहीं गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा लू लगने का होता है। आपको बता दें कि कई बार लू लगने के कारण व्यक्ति की जान तक चली जाती है।

ऐसे में इस गर्मी यदि आप भी लू से अपना बचाव करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको लू लगने के कारण और इससे बचाव के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आएं जानते हैं कि कैसे आप गर्मियों में लू से खुद का बचाव कर सकते हैं।

लू की चपेट में आने के

पांच कारण अगर आप एसी में रहते हैं और एसी वाले कमरे से निकलकर फौरन धूप में जाते हैं। तब भी आपको लू लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नॉर्मल टेम्परेचर से निकलकर हाई टेम्परेचर में जाते हैं, तो शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाता है। ऐसा हीट स्ट्रोक के कारण होता है। इसलिए यदि आपको धूप में जाना हो, तो पहले कमरे के तापमान को सामान्य करें और उसके बाद ही बाहर निकलें।

वहीं लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहने से बहुत तेज प्यास लगने लगती है। हम सभी अक्सर धूप से आने के फौरन बाद ठंडा पानी पीते हैं। जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान गड़बड़ जाता है और हम लू की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा धूप से आने के कुछ देर बाद ही पानी पीना चाहिए। जब आप लंबे समय तक धूप में



रहते हैं, तो शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से भी आपको लू लग सकती है। लू से बचने के लिए आपको कुछ-कुछ तरी पर पेय पदार्थ का सेवन करते रहना चाहिए। आप फलों का जूस और नारियल पानी का भी सेवन कर

सकते हैं। गर्मी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप अपने चरम पर होती है। इस दौरान घर से बाहर निकलने पर आप लू की चपेट में आ सकती हैं। इसलिए जब भी घर से इस समय बाहर निकलें, तो सूती कपड़े पहनकर निकलें। क्योंकि सूती कपड़ों में आपकी त्वचा सांस लेती

रहती है और यह शरीर के तापमान को सही बनाए रखने में मदद करता है। अगर गर्मियों के मौसम में आप खाली पेट घर से बाहर निकलते हैं, तब भी आप लू की चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि खाली पेट रहने से शरीर की ऊर्जा में तेजी से गिरावट होने लगती है।

एफटीआईआई के छात्र ने 77वें कान्स फिल्म महोत्सव में जीता ला सिनेफ पुरस्कार

नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के छात्र चिदानंद नाइक की कोर्स के अंत में बनाई गई फिल्म सनफ्लॉवर वर द फर्स्ट वनस टू नो को फ्रांस में 77वें कान्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कान्स ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। विजेता की आधिकारिक घोषणा 23 मई, 2024 को महोत्सव में की गई, जहां छात्र निदेशक चिदानंद नाइक ने पुरस्कार प्राप्त किया। फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नाइक ने, फिल्मांकन सूरज ठाकुर ने किया है। संपादन मनोज वी ने और ध्वनि अभिषेक कदम ने दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा मिल रही है। विशेष रूप से एफटीआईआई ने पिछले कुछ वर्षों में कान्स महोत्सव में

अपने छात्रों की फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छे पुरस्कार विजेता की आधिकारिक घोषणा 23 मई, 2024 को महोत्सव में की गई, जहां छात्र निदेशक चिदानंद नाइक ने पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रदर्शन किया है। एफटीआईआई छात्रों की एक और फिल्म कैटडॉग के 73वें कान्स में पुरस्कार जीतने के चार साल बाद मौजूदा मान्यता मिली है। 77वें कान्स फिल्म महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में भारत से कई प्रविष्टियां देखी गईं। एफटीआईआई के कई पूर्व छात्र जैसे पायल कपाडिया, मैसम अली, संतोष सिवन, चिदानंद एस नाइक

और उनकी टीम को इस साल के कान्स में पहचान मिली।



सनफ्लॉवर वर द फर्स्ट वनस टू नो- एक बुजुर्ग महिला की कहानी है, जो गांव का मुर्गा चुरा लेती है, जिससे समुदाय में अशांति फैल जाती है। मुर्ग को वापस लाने के लिए एक भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें बुढ़ी महिला के परिवार को निर्वासन में भेज दिया जाता है। यह पहली बार है कि एफटीआईआई के 1-वर्षीय टेलीविजन पाठ्यक्रम के किसी छात्र

की फिल्म को प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल में चुना गया और पुरस्कर्

त किया गया। 2022 में एफटीआईआई में शामिल होने से पहले, चिदानंद एस नाइक को 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में 75 क्रिएटिव माइंड्स में से एक के रूप में भी चुना गया था, जो सिनेमा के क्षेत्र में उभरते युवा कलाकारों को पहचानने और सहयोग करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पहल थी। एफटीआईआई के अध्यक्ष आर

माधवन ने फिल्म की पूरी छात्र इकाई को बधाई दी है। उन्होंने कहा, इस बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चिदानंद नाइक और सनफ्लॉवर वर द फर्स्ट वनस टू नो की पूरी टीम को बधाई। यही कामना है कि वह अपनी असाधारण पहचान बनाए और प्यार के साथ एक शानदार करियर की शुरुआत करें। साथ ही, ऐसी विश्व स्तरीय प्रतिभा को निखारने के लिए एफटीआईआई के सभी कर्मचारियों और प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई और अभिवादन। ला सिनेफ उत्सव का एक आधिकारिक खंड है, जिसका उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर के फिल्म स्कूलों की फिल्मों को मान्यता देना है। यह फिल्म दुनिया भर के 555 फिल्म स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 2,263 फिल्मों में से चुनी गई 18 लघु फिल्मों (14 लाइव-एक्शन और 4 एनिमेटेड फिल्मों) में से एक थी।

प्रधानमंत्री ने की शीला दीक्षित की तारीफ, संदीप दीक्षित ने जताई कृतज्ञता

याद किया
प्रधानमंत्री के बयान के क्लिप को शेयर करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होते हुए भी प्रधानमंत्री ने मेरी मां और उनके योगदान को याद किया।



चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शीला दीक्षित की तारीफ करते हुए कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से शीला दीक्षित का सम्मान करते थे। उन पर लगाए गए आरोप मेरे गले नहीं उतरता था। उन्होंने यह भी कहा कि शीला के आखिरी दिनों में आरोप लगाकर बदनाम किया गया था। संदीप दीक्षित ने इस वीडियो को शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है।

प्रधानमंत्री के बयान के क्लिप को शेयर करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होते हुए भी

प्रधानमंत्री ने मेरी मां और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने आगे कहा, मेरी मां (शीला दीक्षित) और प्रधानमंत्री 12 वर्षों तक साथी मुख्यमंत्री रहे और अक्सर विभिन्न मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सात लोकसभा में से एक उत्तर पूर्वी सीट पर संदीप दीक्षित की प्रबल दावेदारी थी। अंत में यह सीट कन्हैया कुमार को दे दी गई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी मैदान में हैं। जो इस सीट से दो बार चुने गए हैं।

डॉबिवली हादसे में कंपनी की मालकिन नासिक से गिरफ्तार

मुंबई (हि.स.)। डॉबिवली के अमुदान केमिकल कंपनी हादसे में शुक्रवार को पुलिस ने कंपनी की मालकिन मालती प्रदीप मेहता को नासिक के पंचवटी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम दूसरे आरोपित मलय प्रदीप मेहता की सरगर्मी से तलाश कर रही है। डॉबिवली की अमुदान केमिकल कंपनी में गुरुवार को विस्फोट के बाद लगी आग में शुक्रवार सुबह तक 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घायल 64 लोगों का इलाज डॉबिवली के कई अस्पतालों में हो रहा है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में आज सुबह कंपनी के मालिक मलय प्रदीप मेहता और मालती प्रदीप मेहता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। पुलिस को कंपनी की

मालकिन मालती मेहता के बारे में नासिक जिले के पंचवटी इलाके में छिपी होने की जानकारी मिली थी। इस पर मानपाड़ा पुलिस ने नासिक पुलिस के सहयोग से मालती मेहता को गिरफ्तार कर लिया है।

मानपाड़ा पुलिस की टीम इस मामले के दूसरे आरोपित मलय प्रदीप मेहता को भी खोज रही है, लेकिन मलय मेहता महाराष्ट्र से बाहर जाकर छिप गया है। पुलिस मलय मेहता की भी तलाश कर रही है। अमुदान कंपनी में गुरुवार को लगी आग रात तक बुझ गई थी, लेकिन मौके पर एनडीआरएफ की टीम कूलिंग का काम अभी तक कर रही है। मानपाड़ा पुलिस को कंपनी में घातक रसायन छिपाये जाने की आशंका है, पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही है।

धार भोजशाला में सर्वे के बीच पढ़ी गई जुमे की नमाज, काली पट्टी बांधकर किया सांकेतिक विरोध

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मुस्लिम समाज ने सौंपा ज्ञापन

भोपाल/धार (हि.स.)। ऐतिहासिक भोजशाला का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने शुक्रवार को 64 वें दिन 6 घंटे तक सर्वे किया। टीम ने सुबह से ही सर्वे का काम शुरू करके दोपहर 12 बजे तक समाप्त कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर सांकेतिक रूप से विरोध करते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। जुमे की



नमाज को देखते हुए भोजशाला परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान मंगलवार को हिंदू पक्ष को हनुमान चालीसा का पाठ और शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज अता करने की अनुमति दी है। इसी आदेश पर आज मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। मुस्लिम समाज के शहर

पालन करें। यदि फिजिकल एक्सवेशन बंद नहीं किया जाता है तो मुस्लिम समाज बड़ा आंदोलन करेगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन भी नायब तहसीलदार को सौंपा है। शुक्रवार के सर्वे में भोजशाला के गर्भगृह, उत्तर, पश्चिमी व दक्षिण क्षेत्र में लेबलिंग के साथ ही मिट्टी हटाने का काम हुआ है।

उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में की गई खुदाई में 3-3 फीट गहराई और बड़ गई है। अब 18 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अब मशीनों के आने का इंतजार है। तभी यह सर्वे व्यापक और वैज्ञानिक रूप से होगा। अगले सप्ताह मशीनों के आने की उम्मीद जताई गई है। भीतरी भाग में सर्वे के तहत वीडियो ग्राफी, फोटोग्राफी, क्लीनिंग और ब्रशिंग का काम भी चल रहा है।

अहमदाबाद : मेडिकल कॉलेज के 4 सीनियर डॉक्टर रैगिंग मामले में निलंबित



अहमदाबाद (हि.स.)। अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) संचालित मणिनगर नरेन्द्र मोदी मेडिकल कॉलेज के 4 सीनियर डॉक्टरों को रैगिंग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। चारों सीनियर डॉक्टरों पर अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ रैगिंग का आरोप है। जूनियर डॉक्टरों की शिकायत पर मामला कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी के पास भेजा गया। जांच में दोषी पाए गए इन सभी चार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिनमें दो महिला डॉक्टर भी हैं। एएमसी संचालित मणिनगर नरेन्द्र मोदी मेडिकल कॉलेज में 4 सीनियर डॉक्टरों की शिकायत एंटी रैगिंग कमेटी से की गई थी। इसके अनुसार जूनियर डॉक्टरों को 7 दिनों तक नहाने से मना करने, एक ही प्रिंक्रिप्शन को 700 बार लिखने आदि का काम सौंपा जाता था। जो ऐसा नहीं करते उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी में शिकायत मिलने पर इसकी जांच के बाद डॉ ब्रज वाघाणी को 2 साल, डॉ शिवानी पटेल को एक वर्ष, डॉ करण कुमार पारेजिया को 25 दिन और डॉ अनुरी नायक को 25 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

नेपाल में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट मिला, केपी 1 और केपी 2 की पुष्टि

काठमांडू (हि.स.)। नेपाल में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट मिला है। कई मरीजों की जांच के बाद वायरस के नए वैरिएंट केपी 1 और केपी 2 की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डॉ. शेखवहादुर पुन ने बताया कि कोरोना रोगियों के रैडम सैम्पलिंग की जांच करने 40 प्रतिशत लोगों में केपी 1 और केपी 2 वैरिएंट होने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल में पहली बार मिला कोरोना वायरस का नया वैरिएंट कोरोना के ओमिक्रोन का ही सब वैरिएंट है। यह वैरिएंट अभी सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप और कई अफ्रीकी देशों में देखने को मिला है। डॉ. शेखवहादुर पुन ने नेपाल में भी इसके तेजी से फैलने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि यह कितना खतरनाक है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। डॉ. पुन ने कहा कि हालांकि, यह शरीर में प्राकृतिक रूप से विकसित हो रहा है लेकिन यह कितना आगे बढ़ेगा और किस स्तर तक नुकसान करेगा।

ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति रईसी सुपुर्द-ए-खाक



तेहरान (हि.स.)। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को शिया दरगाह में गुरुवार को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विदेश मंत्री तथा छह अन्य लोगों के साथ मृत्यु हो गई थी। रईसी को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह के अंदर एक कब्र में दफनाया गया। इस दरगाह में शिया समुदाय के आठवें इमाम दफन हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने काले कपड़े

पहने हुए थे। उनके जनाजे में हालांकि जनी भीड़ शामिल नहीं हुई, जितनी 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवायल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद के जनाजे में थी। इसके पीछे रईसी को लेकर लोगों की भावनाएं एक संभावित संकेत हो सकती हैं। रईसी सरकार ने 2022 में महसा अमीनी की मौत को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान सख्त कार्रवाई की थी, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा था।

अमीनी को ईरान की महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब कथित तौर पर नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था। इस कार्रवाई के साथ-साथ ईरान की संघर्षरत अर्थव्यवस्था का सारकारी टेलीविजन और समाचार पत्रों की कवरेज में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इतना ही नहीं ईरान-इराक युद्ध के अंत में करीब पांच हजार असंतुष्ट लोगों को सामूहिक हत्या में रईसी के शामिल होने पर भी कभी चर्चा नहीं की गई।

यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस ने दागी एस-300 मिसाइलें, सात की मौत, 16 घायल

कीव (हि.स.)। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर गुरुवार तड़के एस-300 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनोहोवो ने रूस के हमले की पुष्टि की। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की ने इस रूसी हमले को बेहद क्रूर बताते हुए पश्चिमी देशों से पर्याप्त एयर डोम (वायु रक्षा प्रणाली) न मिलने पर फिर से निराशा व्यक्त की। मालूम हो कि रूसी सेना ने हाल ही में व्यापक अभियान के तहत खार्किव के कई गांवों को आपने कब्जे में ले लिया है। वहीं, यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि ये हमले देश की आसमान की रक्षा के लिए अमेरिका निर्मित पैट्रियट सिस्टम की तुरंत आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। कुलेबा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जर्मनी ने हाल ही में मिसाइल सिस्टम देने का वादा किया था। इसको जितनी जल्दी हो सके छह और प्राप्त करना न केवल यूक्रेन के अस्तित्व के लिए बल्कि यूरोप में शांति के लिए भी



महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि रूस ने बुधवार को भी यूक्रेन के ऊर्जा बंधे को निशाना बनाया था। ड्रोन हमले से उत्तरी सूमी रीजन में पांच लाख लोग अंधेरे में डूब गए। हाल के सप्ताहों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने

युद्धग्रस्त देश को देशव्यापी ब्लैकआउट करने को मजबूर कर दिया है। हालांकि, हमलों का मुकाबला करने और पर्याप्त हवाई सुरक्षा के बिना मरम्मत की अनुमति देने से बिजली आपूर्ति की समस्या गंभीर हो सकती है।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा से भारतीय छात्रों का कम हो रहा मोह

रनातकोतर पाठ्यक्रम में 21 हजार छात्र हुए कम



लंदन (हि.स.)। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का मोह भारतीय छात्रों में मोह कम होने के साथ छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में इस बार लगभग 21,000 की

में 16 प्रतिशत की गिरावट आई। ब्रिटेन के गृह विभाग के विश्लेषण में कहा गया, मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय नागरिकों को 116,455 अध्ययन वीजा प्रदान किया गया, (कुल संख्या का 26 प्रतिशत) जो पिछले वर्ष की तुलना में 21,717 कम है। ये आंकड़े ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर के लिए एक स्वागत संकेत हो सकते हैं जिन्होंने चार जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए दूसरे देशों से लोगों के प्रवासन पर अंकुश लगाने को अपने प्रमुख मुद्दों में से एक बनाया है। दूसरी ओर, छात्र वीजा के आंकड़े उन विश्वविद्यालयों को चिंतित करेंगे जो विदेशी छात्रों से मिलने वाले शुल्क पर निर्भर हैं।

सहकारी संस्थाओं में वित्तीय घपले को लेकर गृहमंत्री लामिछने के खिलाफ पीड़ितों ने शुरू किया अनशन



काठमांडू (हि.स.)। सहकारी संस्थाओं के धन की व्यापक अनियमितता मामले में चिरे गृहमंत्री रवि लामिछने के खिलाफ पीड़ित व्यक्तियों ने शुक्रवार से रिले अनशन शुरू किया है। पोखरा, भैरहवा, बुटवल, चितवन और काठमांडू के अलग अलग सहकारी संस्थाओं के पीड़ित व्यक्तियों ने एक समूह बनाकर आज से गृहमंत्री रवि लामिछने के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है। काठमांडू के माइतीघर मंडला में सहकारी पीड़ितों ने रिले अनशन शुरू कर दिया है। इन पीड़ित पक्ष को विपक्षी दलों का भी समर्थन है। गृहमंत्री के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की तरफ से आगामी रविवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। गृहमंत्री के खिलाफ काठमांडू सहित एक साथ कई शहरों में रिले अनशन की शुरुआत हुई है। आन्दोलनरत सहकारी पीड़ितों ने बताया कि आज पूर्वाह्न ठीक 11 बजे से काठमांडू के माइतीघर के अलावा पोखरा, बुटवल, भैरहवा, धरान, नवलपरासी और चितवन में भी रिले अनशन की शुरुआत हुई है। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान महासंघ के अध्यक्ष कुशलव केसी ने बताया कि जब तक बचतकर्ताओं का एक-एक पैसा वापस नहीं आ जाता, तब तक उनका आन्दोलन वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं से करोड़ों रुपये का घपला करने वाले गृहमंत्री की भूमिका की जांच सरकार द्वारा नहीं किए जाने के कारण मजबूर होकर वे अनशन करने बैठे हैं।

काठमांडू विमानस्थल के रनवे पर गढ़वा बनने से उड़ानें बाधित, जल्द होगी मरम्मत

काठमांडू (हि.स.)। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल के रनवे पर अचानक गढ़वा बनने से कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। कुछ विमान पिछले एक घंटे से आसमान में चकरात काट रहे हैं तो कुछ अभी भी उड़ान भरने की प्रतीक्षा में हैं।

एयरपोर्ट ऑथरिटी के मुताबिक और बैकाक से आने वाली थाई बैकाक जाने के लिए नेपाल एयर पिछले एक घंटे से आकाश में



एयरलाइंस, ग्वांडाओ जाने के लिए सिचुवान एयरलाइंस, दोहा जाने वाली कतर एयरलाइंस, कुनमिंग जाने के लिए एयर चाइना अपने यात्रियों को बिठाकर पिछले एक घंटे से पार्किंग से टेक्सी वे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑथरिटी के मुताबिक मलेशियन एयरलाइंस ही चकरात काट रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही रनवे को दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद पहले होल्ड पर रहे विमानों को लैंडिंग की परमिशन दी जाएगी और इसके बाद टेक्सी वे पर होल्ड विमानों को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिलेगा।

इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर मतदान आज

पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, बने हैं 2241 मतदान केंद्र

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज में कल मतदान होना है। जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। परेड ग्राउंड, केपी इंटर कॉलेज, एमएनएनआईटी कैम्पस व नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। तेज धूप और गर्मी को देखते हुए रवानगी स्थल पर पंखाल, पंखा और पेयजल की व्यवस्था कराई गई है।

शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। गुरुवा शाम यहां से प्रचार प्रसार थम गया। मतदान के लिए शुक्रवार को



पोलिंग पार्टियों को बूथों पर भेजा रहा है। वोटिंग के लिए जनपद में 4712 पोलिंग बूथ और 2241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत चार कार्मिक लगाए गए हैं। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुनाव कर्मचारी शामिल हैं।

कार्मिकों को बूथों तक पहुंचाने के लिए शहर के परेड ग्राउंड, केपी इंटर कॉलेज, एमएनएनआईटी कैम्पस व नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैदान से रवानगी

स्थल बनाया गया है। एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा ने बताया कि सभी कार्मिकों को अपनी निजी साधनों से रवानगी स्थल पर पहुंचना होगा। वहां से बसों के माध्यम से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों में भेजा जाएगा। और बताया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 बजे सभी कार्मिकों को रवानगी स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परेड ग्राउंड से मेजा करछमा, बारा, कोरांव,

प्रतापपुर और हंडिया, केपी कॉलेज से इलाहाबाद पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, एमएनएनआईटी से फाफामऊ और सोरांव तथा नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैदान से फूलपुर में लगे मतदान कार्मिक रवाना होंगे।

इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय सीटों कल यानी 25 मई को मतदान होगा। जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन के साथ रवाना की जा रही हैं। इसके लिए शहर में चार केंद्र बनाए गए हैं। जहां से पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल तक जायेंगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। परेड ग्राउंड, केपी इंटर कॉलेज, नार्दन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड

टेक्नोलॉजी के मैदान से पोलिंग पार्टी रवाना किये जा रहे हैं।

जनपद में 4712 बूथों पर कल शनिवार को मतदान होगा। सभी बूथ पर चार मतदानकार्मिकों की तैनाती की गयी है। करीब 21 हजार मतदानकार्मिकों को लगाया गया है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिया। प्रयागराज में दोनों लोकसभा के अतिरिक्त आंशिक के कुछ भाग के प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा क्षेत्र में सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इसके बाद ईवीएम मूडिंग मंडी परिसर में बने स्ट्रग रूम में रखी जाएंगी। डीएम ने चारो स्थलों पर बिजली बिजली और पंखाल के साथ-साथ डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करने का कारण निर्देश जारी किया है।

रंगकर्म चित्रकला तथा कविता पर विचार विमर्श



अवधनामा संवाददाता

कवि रंगकर्मी एवं चित्रकार का संगम

प्रयागराज। जाने-माने रंगकर्मी-निर्देशक एवं नाट्य लेखक शैलेश श्रीवास्तव के काला-डॉडा स्थित आवास पर वरिष्ठ कवि डा. योगेन्द्र कुमार मिश्र विश्वबन्धु एवं शम्भूनाथ श्रीवास्तव शम्भू तथा अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त चित्रकार रवीन्द्र कुशवाहा का समागम हुआ। विषय था अनौपचारिक बैठक में रंगकर्म-चित्रकला तथा कविता पर विचार विमर्श करना तथा कविता पाठ। अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कलाकार की सरलता

सहजता के बीच उसकी दुर्गम कला यात्रा पर चर्चा हुई और एक ठोस कार्य करने का संकल्प लिया। योगेन्द्र ने गरीबी और बेवसी को चित्रित करती हुई अपने शिक्षाकाल की रचना सड़क के एक किनारे सुनाकर एक प्रश्न पूरे समाज-देश के सामने खड़ा कर दिया। शम्भूनाथ ने शायरी पेश की कि तुमने जो मुंह से फूंककर शमा बुझा दिया। हसरत भरे परवाने का अरमां मिटा दिया। सुनाकर कहा कि व्यंग्यूर कर दिया। कहा कि ऐसी बैठकें

रचनात्मकता के लिए खाद-पानी का काम करती हैं।

रवीन्द्र ने कला को स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य टानिक की संज्ञा से नवाजा और अपनी कविता साथ चाहिए को सुनाते हुए कहा कि धड़कन को एक श्वास चाहिए, मित्रता को विश्वास चाहिए। जीने को एक आस चाहिए, चिंतन को आध्यात्म चाहिए। थिरकन को एक पांव चाहिए, चित्रण को एक भाव चाहिए। बिम्बों को आकार चाहिए, स्वप्नों को साकार चाहिए पर खूब तालियां बटोरीं। शैलेश ने सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अंत में आभार प्रकट किया।

अमृतानश की बल्लेबाजी से सेंट पीटर्स क्लब को मिली जीत

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। सेंट पीटर्स क्रिकेट क्लब ने सुनैना देवी स्मारक अंडर-12 क्रिकेट सीरीज में भाग प्रताप सिंह क्रिकेट क्लब को 19 रन से हराकर सीरीज में अजय बढत हासिल किए हैं। सेंट पीटर्स क्लब के अमृतानश यादव के शानदार (71 रन, 59 गेंद, आठ चौके) की पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाई है। शुक्रवार को भानु प्रताप मैदान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट पीटर्स क्रिकेट क्लब ने 25 ओवर में आठ विकेट पर 163 रन (अमृतानश यादव 71रन, आदित्य सिंह 1/21, आर्युष बिन्दु 1/25, प्रत्युष त्रिपाठी 1/44) पर बनाए। जवाब में भानु प्रताप सिंह क्रिकेट क्लब की टीम ने



25 ओवर में सात विकेट पर 144 रन (राज 22, अनुपाथ पाल 21, रूपक पाल 15 नाबाद, प्रियदर्शी सिंह 15, अर्नव सिंह 13 रन, प्रॉजल 1/18, आर्युष त्रिपाठी 1/19, अनन्या भारतीय 1/23, देव 1/29) ही बना सके। मैच से पहले सीरीज का उद्घाटन सुनैना देवी की बहू व भानु प्रताप सिंह

क्रिकेट क्लब के कोच सचिन प्रकाश की माता गीता देवी ने किया, आयोजन सचिव सचिन प्रकाश ने मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत किया, इस अवसर पर श्याम भारतीय, राम चंद्र यादव, अमेश सरोज रांजेश कुमार सरोज, बजरंगी विश्वकर्मा, व सुशील कुमार विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।

आग से झूठे युवक की मौत

प्रयागराज। शाहगंज थाना क्षेत्र के बैंगनटोला निवासी इमरान (22) की एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब एक माह पहले वह किसी बात से नाराज होकर घर के बाहर आग लगा कर खुद को जलाने की कोशिश की थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी से उसका एसआरएन में इलाज चल रहा था। इमरान कबाड़ का व्यवसाय करता था। उसके परिवार में एक बेटा व एक बेटे हैं पत्नी कुछ महीने पहले छोड़कर इमरान का पूरा परिवार कबाड़ का कारोबार करते हैं। इमरान की शादी नाहिद के साथ हुई थी। इमरान और नाहिद से दो बच्चे हैं। नाहिद फोन पर किसी से बात करती थी। बच्चे व बाते इमरान को बताते जिसको लेकर अक्सर इमरान और उसकी पत्नी में झगडा होता था। 25 अप्रैल को नाहिद फोन पर बात कर रही थी तभी इमरान ने उसे रोहाथ पकड़ लिया। जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ हुआ।

गर्मी की देखते हुए मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सक्षुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए शुक्रवार को सेक्टर और जौनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को भी पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना किया गया।

प्रयागराज जनपद में कुल 46,64,519 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 25,27,676 और महिला वोटर्स की संख्या 21,36,224 हैं। प्रयागराज की फूलपुर और इलाहाबाद सीट में दस विधानसभा क्षेत्र हैं जबकि दो विधानसभा सीट हंडिया और प्रतापपुर भदोही लोकसभा में आती हैं। जनपद में कुल 2244 मतदान

संवेदनशील बूथ पर अतिरिक्त सतर्कता

प्रयागराज। प्रयागराज में 25 मई को होने वाले मतदान को सक्षुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जनपद में 386 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त कर लोगों को सुरक्षा का अहसास दिलाते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कमिश्नरेंट पुलिस ने साइबर सेल का एक अलग कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसमें 40 ऐसे पुलिस कर्मियों की टीम विशेष साफ्टवेयर के जरिए नजर रख रही है।

केंद्र और 4712 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में 4412 मॉडल बूथ हैं जिसमें 12 पिक बूथ और 05 मॉडल बूथ शामिल हैं। जिले में 386 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों के पास गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। पेय जल और छाया की भी व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पोलिंग पर्सन को निर्देश देते हुए कहा कि अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही एक बार ध्रमण करना

अवश्य सुनिश्चित कर लें। यदि बूथ के आसपास कहीं पर राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों के पोस्टर/बैनर आदि लगे हो तो उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। प्रयागराज में मतदान के पहले जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं , जनपद में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जनपद में कुल 71 स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाए गए हैं, जो अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय

सीमा पर स्थित हैं। चेकपोस्ट पर पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

जनपद में मग्न सीमा पर कोरांव, शंकरगढ़ व खीरी थाना क्षेत्र में कुल 13 स्थानों पर चेकपोस्ट पर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं, पुरामुफ्ती, एयरपोर्ट, मऊआहमा, फूलपुर, हंडिया और मेजा थाना क्षेत्र में 15 अंतरजनपदीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहां अगले दो दिनों तक लगातार 24 घंटे निगरानी बरती जाएगी। इसके अलावा जनपद में भी संवेदनशील स्थानों पर कुल 43 चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग जारी है। अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय सीमा पर चेकिंग के साथ ही जनपद में 108 उड़नदस्ते भी हर सदिश गतिविधि पर नजर बनाए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन विपटों में स्टिक तीन-तीन पलटाइंग सर्विलांस व स्टिकसर्विलांस टीमों लगातार ध्रमणशील की गई हैं।

जौनपुर-मछलीशहर लोकसभा चुनाव के लिये पोलिंग पार्टियां रवाना

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर (सरायख्वाजा)। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर से जौनपुर सदर व मछलीशहर लोकसभा में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों रवाना कर दी गई है और तैयारी पूरी करने का दावा किया गया है। बता दें कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर से लोकसभा क्षेत्र जौनपुर सदर व मछलीशहर में चुनाव मतदान आज होगा। इसके लिए 16000 मतदान कर्मचारी, रिजर्व कर्मचारी 2000 लगाए गए जो चुनाव करायेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टि 18000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। छोटे बड़े 2000 वाहन पोलिंग पार्टियों को लेकर रवाना हुई है। कुल 3510 मतदान केंद्र हैं। दोनों लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी न आने पर



निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान करने के लिये बूथों पर रहेगा सुरक्षा के कड़ा इंतजाम

जौनपुर। सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 19 लाख 37 हजार 237 मतदाता करेंगे जिसमें 10 लाख 26 हजार 234 पुरुष, 9 लाख, 50 हजार 912 महिलाएं मतदाता हैं। मछलीशहर सुरक्षित सीट पर 12 उर्मादवार ताल ठेक रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19 लाख 40 हजार 605 मतदाता करेंगे जिसमें 10 लाख 16 हजार 490

रिजर्व में रहे गए कर्मी में 700 से अधिक कर्मचारियों को दायित्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतदान कर्मी भीमपु गर्मी में काफी परेशान दिखे, महिला कर्मी भी परेशान रही। पोलिंग



पुरुष और 9 लाख 24 हजार 46 महिलाएं मतदाता हैं। बूथों पर व्यवस्था का जायजा जिलाधिकारी रविंद्र मादड़, पुलिस अधीक्षक डा. अजय पाल शर्मा ,अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी बदलापुर अरविंद वर्मा, उपजिलाधिकारी संतोषी सिंह, तहसीलदार राकेश सिंह, राकेश कुमार, खंड विकास अधिकारी धर्मेन्द्र प्रसाद द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी ले रहे हैं।

25 मई को मतदान के लिये रहेगा सार्वजनिक अवकाश: जिलाधिकारी

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र मादड़ ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ के क्रम में निर्माशिण्कुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग का करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभ उप निर्वाचन 2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतएव शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 25 मई दिन शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश कोभाग्य तथा उप कोषागार में भी लागू होंगे।

उमरे प्रयागराज द्वारा निःशुल्क जल प्याऊ सेवा का आयोजन



अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। सेंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा भीषण गर्मी से राहत देने के लिए जनता की सेवा में निःशुल्क जल प्याऊ सेवा का आयोजन निरंतर किया जाता रहता है। इस क्रम निःशुल्क सेवा का आयोजन केन्द्रीय चिकित्सालय के वाहर एवं आकस्मिक विभाग के गेट के पास 30 लीटर के चार बड़े-बड़े चूड़ों में शीतल जल की व्यवस्था की गयी है, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके सहयोगकों तथा राहगीरों को शीतल जल पिलाकर

निःस्वार्थ उनकी सेवा की जा सके।

सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के मंडल सचिव आलोक कुमार वर्मा, अनूप कुमार श्रीवास्तव व अमरकांत चौधरी द्वारा मिश्रन वितरित कर शीतल जल पिलाकर निःशुल्क जल प्याऊ सेवा का उद्घाटन किया गया तथा लोगों को जल संरक्षण के महत्त्व को समझाते यह अपील भी की कि जल को व्यर्थ न करें। इस कार्यक्रम में सेंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड के सेवानिवृत्त अधिकारी ए. के आर्य, सतीश चंद्र, मो. हिबुल्लाह सहित 30 सदस्यों ने भी भाग लिया।

अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख में दुखी इंसान: सृष्टि भूषण

संस्कार शिविर में आर्थिका श्री ने कहा वाहर की नहीं अंदर की सम्पत्ति से अमीर बने

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। समाज में व्यक्ति अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख को देखकर दुखी है आज के व्यक्ति के जीवन से मानो जैसे खुशी मानो गायब सी हो गई है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि उन्हें बिना स्वार्थ का जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे जीवन में अपार खुशियां आ सकें। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख देने का भी अधिकार नहीं है। विचार पार्ष्वनाथ दिगम्बर जैन अटायमिंदर ने जिनधर्म प्रभाविका आर्थिका सृष्टिभूषण माता ने श्रमण संस्कृति संस्कार शिविर में धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख देने का भी अधिकार नहीं है। किसी इंसान को अपने दुख के कारण दुख हो तो बात समझ में आती है अगर उसे दुसरो के सुख को देखकर दुखी होता है तो एक बात मन में आती है कि संसार की ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं का शिकार तो नहीं है। दूसरे हमसे ज्यादा सुखी है, दूसरों की वदती तरक्की हमें दिखाई दे रही है अच्छी बात है अगर हमें तकलीफ क्यों हो रही है। इसका अर्थ कुछ यह होता है कि हमारी सोच में कहीं कुछ गडबडी है और यहीं से शुरुआत होती है अपने आपन में सुधार करने को। उन्होंने कहा नजर को बदलिए नजरिया बदल जाएगी।

धर्मसभा का शुभारम्भ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, आचार्य वर्द्धमान सागर महाराज विद्याभूषण सम्मतिसागर महाराज के समुख श्रेष्ठी राजेश पंचैलिया इंदौर, कैरियर काउन्सलर रीतेश गाजियाबाद, कमल हाथीशाह भोपाल मीडिया प्रभारी अक्षय अलया, डा0 सुनील संचय, सचिन शास्त्री द्वारा दीपप्रज्वलित कर किया। शिविर में आर्थिका विश्वक्वश श्री माता जी ने कहा आज की युवा पीढ़ी दिशा विहीन हो रही है बच्चों को इतना लायक न बनाए कि तुम्हें ही नालायक समझने लगे। संस्कार मात्र शब्दों से न होकर आचरण में झलकनी चाहिए हमेशा ग्रहण का भाव रखे अंदर के राग द्वेष जितने घटेंगे उतने अच्छे संस्कार हो जाएंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से दिगम्बर जैन पंचायत के अध्यक्ष डा0 अश्वजित टडैया, महामंत्री आर्युष जैन, शीलचंद्र अनौरा, सनत जैन खजुरिया, मनोज जैन बबीना, पारस मनया, अमित जैन सर्राफ प्रमुख रूप से मौजद रहे। नगर के जैन मंदिरों में संस्कार शिविरों के माध्यम से अपूर्व धर्म प्रभावना हो रही है जिनकी व्यवस्थाओं को संयोजित करने में डा0 आलोक मोदी, प्रमोद जैन पाय,वीरचंद्र सर्राफ, अभय जैन कैलमुया विकास जैन सौरभ आनंद जैन पंचमनार संजय जैन ककडारी,राकेश जैन बखरावनी, विमल जैन पाय, सुबेनुद मोदी,जितेन्द्र जैन राजू, वीणा जैन गौना, अनूप जैन खैरा का योगदान मिल रहा है।

चोरों ने सप्ताह में दूसरी बार बैंक में चोरी करके पुलिस को दी खुली चुनौती

खिड़की तोड़कर बैंक में रखे दो बैटरी उख ले गये चोर

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर (चन्दवक)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बलरामपुर मोड़ के पास स्थित बड़ौदा यूपी बैंक में बीती रात चोरों ने बैंक के पीछे लगे खिड़की को तोड़कर अन्दर घुस बैंक के स्ट्रॉंग रूम का दरवाजा तोड़ना चाहा, मगर स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे को तोड़ने में असफल रहे। तोड़-फोड़ की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों के आने की आहट सुन बैंक में रखे दो बैटरी को

पुलिस पकड़ से कोसों दूर हैं चोर, ग्रामीणों में भय व्याप्त

लेकर चम्पत हो गये। बैंक के करीब पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो बैंक के पीछे की खिड़की में लगी सरिया ताडा हुआ देख चोरों होने का अंदेशा हुआ जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरी की सूचना बैंक मैनेजर व पुलिस को दी। सूचना पाकर

तक मतदान केंद्र पर पहुंचते रहे। अधिकारियों में रिजर्व रखे गए मतदान कर्मियों को अलर्ट रहने को कहा है। जरूरत पड़ने पर जिससे उनको जिम्मेदारी दी जा सके।

आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

प्रयागराज। औद्योगिक क्षेत्र स्थित बजहा गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक का आम के पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। इससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर प्रतापटर्म में लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति बजहा गांव में एक आम के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लिए हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की तो मृतक की शिखान्त नीरम प्रजापति (34) पुत्र रामधनी नीरामी जोकन्ह, थाना करछमा के रूप में हुई। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल की जांच किया।

आध्यात्मिक शिविर के शुभारम्भ पर आज निकेलगी श्री जी की मृत्यु शोभायात्रा

ललितपुर। पं0 टोडरमल स्मारक टस्ट जगपुर एवं दिगम्बर जैन स्वाध्यायमण्डल व अखिल भारतीय जैन युवा फैडरेशन के तत्वावधान में आज 25 मई से वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ पर भव्य श्री जी की शोभायात्रा निकलेगी उक्त जानकारी देते हुए स्वाध्याय मण्डल के महामंत्री सुरेश चंद्र जैन एड बानपुर ने बताया कि शोभायात्रा शीतलनाथ जिनानलय से प्रारम्भ होकर सविल लान्ड स्थित स्यादरद बाल संस्कार केन्द्र हो हुए वर्गी जैन कान्वेंट स्कूल पहुंचेगी जहां अधिपेक शान्तिधारा के उपरान्त शिविर का उद्घाटन करतार चंद्र मुन्ना लाल जैन अभिलाषा गुप्ता द्वारा किया जाएगा।

शोहदे की छेड़खानी से युवती का स्कूल जाना हुआ दूभर

अवधनामा संवाददाता

परिजनों ने दर्द कराई एकआईआर

है। छात्रा जार्जटाउन स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। उसने पुलिस को बताया कि बुरी का रहने वाला अमित यादव कई दिनों से उसको परेशान कर रहा है। उसके साथ ऋषभ वर्मा भी आता है। दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। कॉलेज से निकलते ही पीछे लग जाते हैं और रास्ते में छेड़खानी करते हैं। उसकी बात न मानने पर मारने की धमकी देते हैं। छात्रा ने आरोपियों का वीडियो भी बना लिया।

इसके बाद महिला हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत की।

छात्रा ने अपने घरवालों को बताया कि उसके परिजनों ने पहले आरोपी युवक को समझाने की कोशिश की लेकिन इसके बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आखिर में छात्रा के पिता ने जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी शोहदे के कारण उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वाहन से स्कूटी सवार गम्भीर रूप से घायल

जौनपुर (धर्मापुर)। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरद्वीनपुर गेट के पास एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदवक निवासी मुकेश गौतम शुक्रवार को अपनी स्कूटी से जौनपुर शहर के लिए निकला। लगभग साढ़े 12 बजे जैसे ही मुकेश जौनपुर-केराकत मार्ग पर कबीरद्वीनपुर गेट के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा से आ रहे किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया। घटना के फलस्वरूप मुकेश गौतम (34) निवासी चंदवक घायल अवस्था में सड़क पर गिरा हुआ था। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने उसे एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मुकेश कुमार का सिर फट गया था तथा कान से खून निकल रहा था। इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष बृजेश गुप्ता ने बताया कि घायल युवक को अस्पताल भिजवा दिया गया है। तहरीर देने पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

पूर्वतंत्र रेलवे

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/कार्य, वारंसे मुख्य कारखाना प्रबंधक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्यों के लिए ऑनलाईन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। क्र.सं. 1-ई-निविदा सूचना संख्या एवं निविदा कार्य का विवरण: टेंडर नं.: '05-जीकेपी-एफडब्ल्यूएस-2024-25' 'रिफिशमेंट ऑफ इन्सुलेशन करिंग आरए-45/एनईआर इन मेकेनिकल वर्कशॉप, गोरखपुर', अनुमानित लागत (₹ में): ₹13,62,810/-; धरौटेर राशि (₹ में): ₹27,300/-; निविदा प्रत्र का मूल्य: शुन्य; संधिदा की अवधि: 02 माह। निविदा समापन की तिथि एवं अवधि: 13.06.2024 को 11:00 बजे, क्र.सं. 2-ई-निविदा सूचना संख्या एवं निविदा कार्य का विवरण: टेंडर नं.: '06-जीकेपी-एफडब्ल्यूएस-2024-25' 'गिट ब्लास्ट वलीनिंग ऑफ बोगी सेट (आइसीएफ/मैग्नेट फीएट), ऐक्सल वॉक्स हाउजिंग एण्ड ब्रकर केसिंग ऑफ्लूडींग इट्स पेंटिंग वर्क एट मेकेनिकल वर्कशॉप, गोरखपुर' कोर 02 इयर्स'; अनुमानित लागत (₹ में): ₹18,98,65,128/-; धरौटेर राशि (₹ में): ₹10,99,300/-; निविदा प्रत्र का मूल्य: ₹शून्य; संधिदा की अवधि: 24 माह। निविदा समापन की तिथि एवं अवधि: 14.06.2024 को 11:00 बजे। उचरोरत ई-निविदाओं का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या "http://www.irreps.gov.in"पर देवे। उच मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/कार्य गोरखपुर देवों में वीडी/शिमरेंट न पिथे

अडाणी पोर्ट्स को सेंसेक्स में शामिल करने का फैसला, दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो की छुट्टी

रिबैलेंसिंग एक्सरसाइज के तहत सेंसेक्स में बदलाव 24 जून से प्रभावी होंगे

नई दिल्ली (हि.स.)। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने इस बार अपने बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स के साथ ही अपने अन्य इंडेक्सों में भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। बीएसई ने इस बार की हाफ इयरली रिबैलेंसिंग एक्सरसाइज के तहत अडाणी पोर्ट्स को सेंसेक्स में शामिल करने का फैसला लिया है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो सेंसेक्स से बाहर हो जाएगी। सेंसेक्स में ये बदलाव एक महीने बाद 24 जून से



प्रभावी होंगे। बीएसई की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों के स्टॉक्स की हर 6 महीने पर रिबैलेंसिंग एक्सरसाइज के तहत समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में कंपनियों के परफॉर्मंस के हिसाब से उन्हें सेंसेक्स या दूसरे इंडेक्स में कायम रखा जाता है या फिर उन्हें

बाहर कर किसी दूसरी कंपनी को जगह दी जाती है। रिबैलेंसिंग एक्सरसाइज के तहत इस बार सेंसेक्स के अलावा बीएसई 100, सेंसेक्स 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 और बीएसई बैंकेक्स में भी बदलाव किया जा रहा है। बीएसई के मुताबिक बीएसई 100 इंडेक्स में रूरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (आरईसी), केनरा

बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कमिन्स इंडिया और एचडीएफसी एएमसी को शामिल किया जा रहा है। अभी मौजूद एसबीआई काइस्ट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, पेज इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज को इस सूचकांक से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी तरह सेंसेक्स 50 से डिवीज

लेबोरेट्रीज की छुट्टी हो रही है। उसकी जगह टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेट लेगी। जानकारों के मुताबिक जिन कंपनियों के स्टॉक्स को सूचकांक में शामिल किया जाता है या सूचकांक से बाहर किया जाता है, उससे उन कंपनियों के स्टॉक्स भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस की कई स्कीम इंडेक्स आधारित होती हैं। जब भी म्यूचुअल फंड हाउस अपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाता है, तो उससे इंडेक्स में शामिल सभी स्टॉक्स को पैसा मिलता है, जिससे कंपनियों के स्टॉक्स की कीमत में तेजी आने की संभावना बन जाती है। इसी तरह जब म्यूचुअल फंड हाउस किसी इंडेक्स फंड से पैसे की निकासी करते हैं, तो उससे भी कंपनियों के स्टॉक्स के बाजार भाव पर नकारात्मक असर पड़ता है।

होम क्रेडिट इंडिया की ओर से किए गए द ग्रेट इंडियन वॉलेट अध्ययन से वित्तीय कल्याण में बढ़ते आत्मविश्वास का पता चलता है

दो-तिहाई कंज्यूमर बचत और निवेश का दावा करते हैं लखनऊ में, 2023 में 25 हज़ार की तुलना में 2024 में औसत व्यक्तिगत मासिक आय 29 हज़ार है

लखनऊ। अग्रणी ग्लोबल कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइडर की स्थानीय शाखा, होम क्रेडिट इंडिया ने अपने इन-हाउस वार्षिक कंज्यूमर सर्वे - द ग्रेट इंडियन वॉलेट स्टडी- प्रमुख फाइनेंशियल पहलुओं के प्रति कंज्यूमर का व्यवहार का दूसरा संस्करण जारी किया। ग्रेट इंडियन वॉलेट का अध्ययन दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, रांची, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना और कोच्चि सहित 17 शहरों में किया

गया था। सेंपल साइज़ 18-55 वर्ष के आयुवर्ग में लगभग 2500 था, जिसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की थी। इसके परिणामों पर बोलते हुए, होम क्रेडिट इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आशीष तिवारी ने कहा- ग्रेट इंडियन वॉलेट अध्ययन हमारे लिए दिशादर्शक के रूप में काम करता है, जो हमें हर साल कंज्यूमर के फाइनेंशियल व्यवहार के जटिल परिदृश्य के जरिए मार्गदर्शन करता है। इस साल का अध्ययन मजबूत आर्थिक विकास के कारण शहरी और अर्ध-शहरी कंज्यूमर्स के बीच समग्र वित्तीय कल्याण में उछाल को दिखाता है, जो कंज्यूमर भावनाओं, खर्च के पैटर्न और विभिन्न रजतसाठिथकी और खंडों के बीच बचत की आदतों में स्पष्ट अंतर्दृष्टि देता है।- ग्रेट इंडियन वॉलेट अध्ययन के अनुसार, वर्तमान स्थिति और

भाविय की धारणा दोनों के संदर्भ में शहरी और अर्ध-शहरी कंज्यूमर्स के बीच वित्तीय कल्याण सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। 52वें कंज्यूमर्स ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में उनकी आय में वृद्धि हुई है, जबकि 74वें कंज्यूमर्स को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष तक उनकी आय में वृद्धि होगी। लगभग दो-तिहाई दावा करते हैं कि वे आनेवाले वर्ष में अधिक (66वें) इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे। कंज्यूमर्स भावना में यह उछाल अर्थव्यवस्था में वृद्धि, कमाई की क्षमता में वृद्धि और आय वृद्धि की सकारात्मक धारणा से प्रेरित है। क्षेत्र के आधार, 2024 में, लखनऊ में औसत व्यक्तिगत मासिक आय में वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 25 हज़ार से बढ़कर 29 हज़ार हो गई, जबकि 2023 में निश्चित मासिक खर्च भी 14 हज़ार से बढ़कर 18 हज़ार हो गया।

लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी सपाट स्तर पर बंद

नई दिल्ली (हि.स.)। घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को एक बार फिर मजबूती का नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी ने पहली बार 23 हजार अंक के आंकड़े को पार किया, लेकिन बाद में मुनाफावसूली का दबाव बन जाने की वजह से शेयर बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.01 प्रतिशत और निफ्टी 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, मीडिया, टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। दूसरी ओर आईटी, एफएमसीजी, मेटल, हेल्थकेयर और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्राडर मार्केट में आज मिला-जुला कारोबार होता नजर आया, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.20 प्रतिशत की गिरावट

के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज बाजार की कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 10 कारोबारी दिन के बाद पहली बार घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 419.82 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 420.22 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 3,945 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,700 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,143 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। 102 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,258 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में

आएँ। आज बाजार की कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 10 कारोबारी दिन के बाद पहली बार घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 419.82 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 420.22 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 3,945 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,700 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,143 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। 102 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,258 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में

आएँ। आज बाजार की कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 10 कारोबारी दिन के बाद पहली बार घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 419.82 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 420.22 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 3,945 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,700 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,143 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। 102 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,258 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में

आएँ। आज बाजार की कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 10 कारोबारी दिन के बाद पहली बार घट गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 419.82 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 420.22 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 3,945 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,700 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,143 शेयरों में गिरावट का रुख रहा। 102 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,258 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 884 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में

आदित्य बिड़ला समूह का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार



नई दिल्ली (हि.स.)। आदित्य बिड़ला समूह (एबीजी) की कंपनियों का संयुक्त रूप से बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) शुक्रवार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। समूह की कंपनियों का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर संयुक्त मार्केट कैप 8,51,460.25 करोड़ रुपये आंका गया है। आदित्य बिड़ला समूह ने जारी एक बयान में कहा कि समूह के मार्केट कैप में बढ़ोतरी ने बाजार के मानक सूचकांकों सेंसेक्स एवं निफ्टी को सालाना आधार पर एक साल, तीन

साल और पांच साल की समय-सीमा में पीछे छोड़ दिया है। आदित्य बिड़ला समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। उल्लेखनीय है कि आदित्य बिड़ला समूह (एबीजी) की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, हिंडालको, आदित्य बिड़ला कैपिटल, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिड़ला फैंशन एंड रिटेल, टीसीएनएस क्लॉदिंग, आदित्य बिड़ला मनी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सेंचुरी एंका और पिलानी इन्वेस्टमेंट शामिल हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुलुक-4 मनोरंजन को ऊंचाई प्रदान करेगा

पहला ओटीटी शो-इसने चौथे सीज़न में की दस्तक
ख्यात अभिनेता श्री जमील खान ने बताया कि गुलुक-4 में संतोष मिश्रा इस बार क्या संदेश देगे



लखनऊ। ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रिय सीरिज के चौथा भाग यानी गुलुक-4 मनोरंजन को ऊंचाई प्रदान करेगा। लगातार तीन भागों में दर्शकों पर जो छाप छोड़ी है, उसी क्रम को आगे ले जाए जा रहा है। यहां पर नैतिक मूल्यों की बात होगी। वहीं गामी के दिनों के इस सीरिज को देखकर सुकून भी महसूस होगा। यह बात मीडिया से चर्चा करते हुए गुलुक-4 के ख्यात अभिनेता श्री जमील खान ने कही। जो संतोष मिश्रा का किरदार निभाते हैं। वे स्क्रीन पर इस नाम से ही लोकप्रिय हैं। उन्होंने

कहा कि हमने सदियों के दौरान शूट किया था। यह मुझे मेरे गांव के दिनों की याद दिलाता है। जब हम कुतरे पर इनस और स्वेटर पहनते थे। उसी तरह, गुलुक आपको सदियों और वह नोस्टैल्जिक गांव के दिनों को महसूस कराएगा। ओटीटी और सिनेमा के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। मुझे ओटीटी बहुत पसंद है क्योंकि अगर गुलुक हमेशा के लिए दर्शकों से जुड़ा हुआ है। सिनेमा दूसरी ओर ऐसी फिल्में को प्रस्तुत करता है। जो आती और जाती रहती हैं। दोनों के अलग-अलग टारगेट दर्शक होते हैं और वे

अलग-अलग स्तर का मनोरंजन प्रदान करते हैं। हम बात करे गुलुक की तो यह एक ऐसी खूबसूरत श्रृंखला है। जो हर दर्शक और परिवार से संबंधित है। यह आपको हंसाती है, पारिवारिक मुद्दों और प्यार पर ध्यान केंद्रित करती है। रिश्तों को उजागर करती है और आपको भावुक भी करती है। गुलुक का पहला सीजन सिर्फ 15 दिनों में शूट किया गया था और यह बहुत बड़ी सफलता थी। कलाकारों के ख़ास रोल से बनेगा नया ताना-बाना। भोपाल पर आधारित, इस सीरिज में सोनी लिव की प्रिय मिश्रा परिवार गुलुक-4 के साथ वापसी के लिए तैयार है। अभिनेता जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राज गुप्ता और हर्ष मयार अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आएंगे। यह शो अपने दर्शकों को यादों और नोस्टैल्जिया की एक पूर्णता की यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। मेरा किरदार बहुत ज़मिंदारी वाला बन गया-वैभव राज गुप्ता अभिनेता वैभव राज गुप्ता ने

मीडिया से चर्चा में कहा कि पहला सीजन वैभव के भाई अमित राज गुप्ता द्वारा निर्देशित किया गया था। दूसरा सीज़न मेरे दिल में बहुत विशेष स्थान रखता है। मीडिया से सवाल के जवाब में कहा कि इस सीज़न में मेरा किरदार बहुत ज़मिंदारी वाला बन गया है। जहां वह किसी भी कदम से पहले सोचता है। वैभव अपने पिताजी के साथ बैठ कर क्राफ्ट बनाने और किताबें पढ़ने का आनंद लेता था। वैभव अपने पिताजी से डरता है, लेकिन गुलुक की सफलता के बाद भी उसका परिवार उसे उसी तरह से प्यार करता है। वैभव कहते हैं- मेरे माता-पिता मुझसे अधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें बहुत सारे संदेश भेजता है और उनसे मिलने आता है। वैभव ने बताया कि मुझे जाने भागे कलाकार रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी और इफ़्फ़ान खान से प्रेरणा मिलती है। वैभव ने बताया कि मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया और उनसे बात करना शुरू किया ताकि वे उतर प्रदेशी भाषा का महसूस कर सकें।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.7 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर



मुंबई/नई दिल्ली (हि.स.)। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मई को समाप्त हफ्ते में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 648.7 अरब डॉलर के नए सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 17 मई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक भांगे जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.36 अरब डॉलर बढ़कर 569.01 अरब

डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य भी 1.24 अरब डॉलर बढ़कर 57.19 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के मुताबिक इस दौरान विशेष आरक्षण अधिकार (एसडीआर) 11.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.17 अरब डॉलर रहा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 16.8 करोड़ डॉलर घटकर 4.33 अरब डॉलर रह गई। इससे पहले 5 अप्रैल, 2024 को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.56 अरब डॉलर के सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का पहला यूलिप- आईसीआईसीआई प्रू प्लैटिनम लॉन्च

कानपुर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी का पहला यूनिट-लिंक्ड प्रोडक्ट आईसीआईसीआई प्रू प्लैटिनम लॉन्च किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर पे-आउट को उनके ग्राहकों की फंड वैल्यू के अनुरूप बनाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्राहकों को पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशित रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से, यह ग्राहकों को लंबी अवधि में धन बनाने के लिए लागत और कर-कुशल मार्ग रास्ता देता है। लॉन्च की घोषणा करते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अमित पाट्टा ने कहा, -आईसीआईसीआई प्रू प्लैटिनम, हमारी कंपनी का पहला यूनिट-लिंक्ड प्रोडक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स

के भुगतान को उनके ग्राहकों के फंड मूल्य के अनुरूप बनाने और लंबी अवधि में दोनों के हितों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईसीआईसीआई प्रू प्लैटिनम में ग्राहक बिना किसी लागत या कर निहितार्थ के परिपक्वता वॉर्गे के बीच अत्यंत निपट मुक्त रिस्क कर सकते हैं। ग्राहक इस प्रोडक्ट के तहत 21 फंडों की श्रृंखला में से चुन सकते हैं, जिसमें 13 इंडिटी और 8 प्रत्येक में अलावा चार पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का विकल्प भी शामिल है। उन्होंने कहा, -हम लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रक्रियाओं को नया रूप देने और पेश करने का प्रयास करते हैं, जो सरल हों। यह सही ग्राहक को सही कीमत पर और सही चैनल के माध्यम से सही प्रोडक्ट सुनिश्चित करने के हमारे दर्शन के अनुरूप है। हमने वार्षिकी और पेंशन बचत मंच पर अग्रणी प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इनमें एक वार्षिकी प्रोडक्ट शामिल है, जो खरीद

केंद्र ने 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के बीच अच्छी खबर है। गेहूं की खरीदारी पिछले साल से आगे निकल गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद विपणन वर्ष 2024-25 में 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा है। इससे पिछले विपणन वर्ष में कुल खरीद 262.02 लाख टन रही थी। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में गेहूं की अच्छी खरीद से कुल खरीदारी को बढ़ावा मिला है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय भंडारण के लिए 262.48 लाख टन खी मौसम के अनाज गेहूं खरीदा जा चुका है। इससे 59,715 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। गेहूं खरीद विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 124.26 लाख टन, हरियाणा में 71.49 लाख टन, मध्य प्रदेश में 47.78 लाख टन, राजस्थान में 9.66 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 9.07 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 9.07 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 9.07 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है।

कानपुर। भारत की प्रमुख इको-फंडेडली पेंट कंपनी और 24 अरब यूएस डॉलर वाले जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3 प्रतिशत से अधिक (लगभग 67 करोड़ रुपए) के एबिटा मार्जिन के साथ अपना पहला पूर्ण वर्ष परिचालन लाभ दर्ज किया। यह जेएसडब्ल्यू पेंट्स को सबसे कम अवधि में परिचालन लाभ दर्ज करने वाली पहली और सबसे युवा भारतीय पेंट्स कंपनी बनाता है। उद्योग में अपनी 10 गुना से अधिक विकास दर दर्ज करते हुए कंपनी का सकल राजस्व 2,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर चुका है। सकल राजस्व में वृद्धि को डेकोरेटिव पेंट और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स दोनों व्यवसायों से समर्थन मिला है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा जेएसडब्ल्यू पेंट्स के लिए सबसे कम समय में मुनाफा कमाने वाली

बिजनेस लॉन्च के 5 साल के भीतर जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने दर्ज किया अपना पहला परिचालन लाभ

सबसे युवा पेंट कंपनी बनना बड़ी उपलब्धि रहा है। अब हम नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता उद्देश्यपूर्ण जीवन और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के प्रति अपनी प्राथमिकताएं विकसित कर रहे हैं। मुझे अपने मैनुफैक्चरिंग और मार्केटिंग निवेश में विकास का नेतृत्व करने के लिए आशीष राय का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स 29 साल की औसत कामकाजी उम्र के साथ उद्योग में सबसे युवा, सबसे अधिक लैंगिक विविध और जोरदार टीम के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री सुंदरसन एएस के अनुसार, हम एक युवा टीम हैं और ऐसे काम करने की इच्छा रखते हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। हमें खुशी है कि हम जो बदलाव लाना

चाहते हैं, उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसने हमें तेज गति से तरकी करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम अपने उपभोक्ताओं के दरवाजे पर

प्रगति, उपभोक्ता की बढ़ती जरूरतें और नवीन पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के साथ डेकोरेटिव पेंट बिजनेस में हम तेजी से विकास

करेंगे, हमारी इस प्रतिबद्धता से हमारे ग्राहकों को बहुत खुशी होगी। मौजूदा विकास दर को ध्यान में रखते हुए जेएसडब्ल्यू पेंट्स आगले दो वर्षों के भीतर (यानी वित्त वर्ष 2026 तक) 5,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। व्यवसाय में डेकोरेटिव पेंट्स सेगमेंट द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव करके इसे मजबूती दी जाएगी। कंपनी ने आशीष राय को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर-डेकोरेटिव नियुक्त किया है।



सपा और कांग्रेस के समय में सत्ता के दलाल खा जाते थे गरीब का राशन: सीएम योगी

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे लिए देश पहले है। कोरोना कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन का नारा दिया था। फी में टेस्ट, फी में उपचार और फी में वैक्सिन के साथ ही 80 करोड़ जनता को फी में राशन देने का कार्य मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। वहीं दूसरी तरफ यही राशन सपा और कांग्रेस के समय में सत्ता के दलाल खा जाते थे।

सीएम ने कहा कि देश में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, उच्च शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था हुई है। मोदी



जेपी नड्डा व सीएम योगी को भगवान बुद्ध की प्रतिमा देते विजय दुबे

जी ने यहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र का निर्माण कराया है। कोरोना कालखंड में आया होता तो कुशीनगर थर्डलैंड और सिंगापूर की तरह चमकता दिखता। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार। सपा और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार

कैसे तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं। कहते हैं कि सत्ता में आएं तो अल्पसंख्यकों को उनकी सचि के हिसाब से खानपान की स्वतंत्रता देंगे। क्या अल्पसंख्यकों

कांग्रेस का मेनिफेस्टो बहुत खतरनाक है: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस का मेनिफेस्टो बहुत खतरनाक है। ये झूठ बोल रहे हैं, अर्नाल प्रलाप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया था, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये इंडी गठबंधन वाले लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया चाहते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये कहते हैं कि आएं तो परसलन लॉ यांनी तालिबानी शासन लागू करेंगे। तब बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाओं को बुर्के में रखेंगे। तीन तलाक को फिर से लागू करेंगे।

इंडी गठबंधन के लोग देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं

और बहुसंख्यकों के खाने में कोई अंतर है, लेकिन एक जगह पर दोनों की राह अलग अलग है। जब कोई मुस्लिम गोमांस खाना चाहता है तो हिन्दू विरोध करता है। कांग्रेस गोकशी को बढ़ावा देने की बात कर रही है। क्या आप इस पाप में भागीदार बनेंगे। योगी ने कहा कि मोदी जी को ताकत

कमल के फूल पर बटन दबाने से मिलती है। उनकी ताकत का श्रेय आपको जाता है। जिसमें भी कमल पर वोट दिया है वो बोलने का अधिकारी है। कि राम मंदिर हमने बनाया है। एक तरफ मोदी जी पुण्य दिला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को मिलने वाला वोट गोकशी का पाप चढ़ाएगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण



अमेठी अवधनामा संवाददाता। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के डिप्टीट जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में बनाये गये स्ट्रांग रूम के आउटर कार्ड का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं इयूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारीगण को सतर्कतापूर्वक इयूटी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुमा जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार त्यागी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मोहम्मद असलम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज



देवरिया अवधनामा संवाददाता। 26 मई को रूद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी उन्होंने कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के साथ भीषण गर्मी को देखते हुए मंच से लेकर सभी ब्लॉकों तथा मीडिया गैलरी में उचित पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। रैली के प्रभारी हरीश ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया की अनुशासित रूप से सभी कार्यकर्ता अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें की आने वाली जनता को पानी के लिए जूझना ना पड़े और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इस दौरान रैली के सह प्रभारी आशीष मिश्रा, जिला प्रभारी संतराज यादव, जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, रूद्रपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि छटे लाल निगम, भाजपा नेता रजनीश उपाध्याय, प्रभाकर तिवारी, साज सज्जा प्रभारी आनंद शाही उपस्थित रहे।

अखिलेश प्रताप ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण



देवरिया अवधनामा संवाददाता। आचार्य नरेन्द्र देव इष्टर कालेज पथरदेवा के खेल मैदान पर कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव/प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री अविनाश पाण्डेय जी के कल होने वाले जनसभा के लिए इण्डिया गठबंधन के प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव पूर्व प्रमुख विजय प्रताप यादव, संजय मल्ल, अचिंशेख त्रिपाठी राजन, सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव, राघवेंद्र सिंह राकेश, अजय यादव, बैजनाथ मिश्र , मंजूर आलम, मुकुंदभास्कर मणि, जयदीप त्रिपाठी, अरविन्द सिंह, शिवशंकर सिंह सेंथवार आदि लोग मौजूद रहे।

देश में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी: विजय कुमार

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा का ने जो नारा 400 पार का दिया गया सत्य साबित होने जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व भाजपा प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को जीतने जा रही है। जिसकी वजह प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। अपराधी प्रदेश छोड़ कर भाग चुके हैं। जहां विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि भाजपा की सरकार देश में बनी तो संविधान समाप्त कर दिया जायेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी भी संविधान के मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। उक्त बातों पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने सहजनवा में प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान पूर्व विधायक देव नारायण उर्फ जी एम सिंह, मंगल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे।

मोदी-योगी पर फिर जनता करेगी विश्वास

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। देश की जनता विकास की गति को और तेज करने के लिए भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। मोदी, योगी पर जनता का पूर्ण विश्वास है। देश की 140 करोड़ जनता सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है। जिसमें मुफ्त राशन, उखला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुजान कार्ड सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं। इससे इलावा देश व प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़कों की गड़बड़ मुक्त हो चुकी है। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे। और 400 पार का नारा भी सिद्ध होने जा रहा है। उक्त बातों भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने सहजनवा में आयोजित भाजपा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।

ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। सहजनवा रेलवे स्टेशन से पश्चिम एक 50 वर्षीय अज्ञेय महिला की ट्रेन से कट कर मौत हो गई है। पुलिस ने लाश को कच्छे में लेकर मर्चरी के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी से खलीलाबाद की तरफ से गोरखपुर जा रही मालगाड़ी जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते वाली थी। की एक 50 वर्षीय अज्ञेय महिला ट्रेन के आगे दूर गई। जिसकी मौत पर मौत होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की तलाशी ली तो उसके पास से पांच हजार तीन सौ पैंसठ रुपया तथा 4 कमला पसंद का गुटका बरामद किया।

सीवान खाली पाकर गांवों में तांडव कर रहे आवारा पशु



अमेठी। सीवान खाली पाकर आवारा पशु अब गांवों में घुसकर तांडव कर रहे हैं। जिले के विभिन्न गांवों में आवारा पशुओं की समस्या आज भी बरकरार है। लोग आवारा पशुओं की समस्या से नहीं उबर पा रहे हैं। जयद की फसलों की रात में भी किसान रतजगा कर रखवाली करने को मजबूर हैं। जिले के गांव और नगर में आवारा पशुओं का कहर कम नहीं हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह आवारा पशु झुंड के झुंड नजर आते हैं कहीं-कहीं तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है। रात के समय ज्यादातर आवारा पशुओं का झुंड सड़कों पर ही देखा जा रहा है। जिससे आवामन भी पूरी तरीके से बाधित हो जाता है इन्होंने आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। किसानों को रात-रात भर जागकर अपनी फसलों की सुरक्षा इन आवारा पशुओं से करनी पड़ रही है। जहां जगह देखने को मिलता है की झुंड के झुंड आवारा पशु किसानों की जयद फसल चौपट कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने बांसगांव लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को किया संबोधित कांग्रेस राज में सुबह भ्रष्टाचार, शाम को होते थे आतंकी धमाके

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के राज में सुबह भ्रष्टाचार की खबरों से होती थीं और शाम होते होते कहीं आतंकी धमाके हो जाते थे। उन्होंने इंडी गठबंधन को रामद्रोही बताते हुए कहा कि ये लोग देश में गोकशी की छूट देना चाहते हैं। इन्हें वोट देने का मतलब पाप का भागीदार बनना होगा। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बरहज में बांसगांव लोकसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी कमलेश पासवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वह पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक ही आवाज हर तर्फ सुनाई दे रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार। कांग्रेस और सपा की हालत 400 पार का नारा सुनकर जलबो जैसी हो गई है। मुख्यमंत्री ने अनंत महाराष्ट्र बाबा राघवदास जी की

डीडीयू से संतकबीर नगर लोकसभा के खजनी विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना



परियोजना निदेशक अनिल सिंह बचत अधिकारी ब्रजेश यादव की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बता दें कि 62 संत कबीर नगर लोक सभा के 325 खजनी विधानसभा गोरखपुर जनपद में पड़ता है जिसकी पोलिंग पार्टियों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से 291 मतदान केंद्रों पर बने 407 बूथ के लिए 1628 पोलिंग कर्मचारी को 86 बस से रवाना किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 50 छोटी गाड़ियों से सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया।

मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे: जेपी नड्डा

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। जब सही जगह बटन दबता है तो एम्स, मेडिकल कॉलेज, एपीकल्बर टेबिनकल यूनिवर्सिटी मिलता है और गलत जगह बटन दबता है तो अराजकता और अन्याय का राज आता है। उत्तर प्रदेश पहले असुरक्षित, अराजकता और माफिया राज का गढ़ बना हुआ था। जहां हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, व्यापारी पलायन कर रहे थे।

आज मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के परिश्रम से गुंडे-माफिया जमीन में दफन कर दिए गए या जेल में बंद हैं और प्रदेश शांति व विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में एपीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ आवास का निर्माण किया गया है। अगले पांच साल में 3 करोड़ और नए आवास का निर्माण करवाया जाएगा। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। वह शुक्रवार को किसान इष्टर

मुख्यमंत्री योगी ने बांसगांव लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को किया संबोधित कांग्रेस राज में सुबह भ्रष्टाचार, शाम को होते थे आतंकी धमाके

अवधनामा संवाददाता

रामद्रोही देना चाहते हैं गोकशी की छूट, इन्हें वोट देकर पाप का भागीदार न बनें

पानभक्त एक तरफ है और रामविरोधी दूसरी ओर। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और सपा के लोग कहते हैं कि राममंदिर बेकार बना है। राममंदिर नहीं बल्कि इनकी बुद्धि बेकार है। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। राममंदिर मोदी जी के नेतृत्व में जरूर बना है, मगर इसके पुण्य के भागीदार आप बनेंगे। क्योंकि आपने कमल चुनाव विह्वल करके मोदी जी और युझे ताकत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश बदल चुका है। 10 साल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान को भी पता है कि आज का भारत छेड़ता नहीं है, और किसी ने

अयोध्या में बन गया राम मंदिर, सरकार बनते ही मथुरा की बारी : ब्रजेश पाठक



समाजवादी पार्टी की सरकार ने भक्तों पर वलवाई थी गोलियां

देवरिया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को सलेमपुर सेंट पॉल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशावाहा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ढाई महीने से रोज चुनाव प्रचार में जगह-जगह आप के बीच जाने का अवसर मिल रहा है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लड़ाई एक तरफ राम मंदिर बनवाने वाले राम भक्तों से है तो दूसरी तरफ का सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों के बीच है। तय आपको करना है कि आप किसकी तरफ रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने भक्तों पर गोशियां चलायीं, जिससे अयोध्या नगरी खून से लाल हो गई थी। डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा

समाजवादी पार्टी की सरकार ने भक्तों पर वलवाई थी गोलियां

जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भीड़ बता रही है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। अयोध्या में भयंकर बनाया गया, अब सरकार बनते ही मथुरा की बारी है। मथुरा में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर इंतजार कर रहे हैं। आप मोदी जी के हाथों के मजबूत कीजिए। जल्द ही अदालत के माध्यम से भगवान कृष्ण पूरी दुनिया के सामने बांसुरी बजाते नजर आएंगे। इस दौरान पूर्व

विकास की राह पर अग्रसर किया। कोरोना के वैक्सिन बनने के समय अखिलेश इसे मोदी टीका कहकर लोगों को गुमराह करता था। जब वैक्सिन तैयार हुई तो सबसे पहले इन्होंने ही वह टीका लगाया। कोरोना से 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम मोदी जी ने किया। विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह घमंडिया गठबंधन दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अतिपिछड़ा विरोधी है क्योंकि इनके आरक्षण पर डाका डालकर ये मुस्लिम उत्थिकरण करना चाहते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, घमंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सारे भ्रष्टाचारी एकसाथ हो गए हैं और इनके सभी नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। मोदी योगी

स्वामी प्रसाद मोर्य के चुनाव कार्यालय पर हुआ पथराव



अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मोर्य के कसया स्थित चुनाव कार्यालय पर शुक्रवार की रात करीब 12 बजे अज्ञात लोगों ने पथराव करते हुए तोड़फोड़ की। पुलिस सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। घटना का कारण क्या है और हमलावर कौन हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। शुक्रवार को कसया बस स्टेशन परिसर में स्वामी के समर्थन में होने वाली चंद्रशेखर रावण की जनसभा स्थल पर भी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि स्वामी समर्थकों और मारुति सवार एक युवक के बीच कसया बस स्टेशन परिसर के समीप किसी बात को लेकर कहलुआ हुई। युवक की पिटाई करने की भी बात कही जा रही है। इसके कुछ देर बाद ही स्वामी प्रसाद मोर्य के चुनाव कार्यालय व जनसभा स्थल पर तोड़फोड़ की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना कसया गिरिजेश उपाध्यक्ष ने बताया कि जांच की जा रही है कि हमलावर कौन हैं और घटना की वजह क्या है। दूसरी ओर घटना को लेकर सिपाही मामले भी निकाले जा रहे हैं। इस पहलु पर भी जांच की जा रही है।

यूपी में छठवें चरण का मतदान आज: चुनावी मैदान में मेनका गांधी, निरहुआ समेत कई दिग्गज

अवधनामा संवाददाता



गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इनमें से कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो बेहद हॉट सीट हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 प्रत्याशियों को तकदीर का फैसला होगा। इन 14 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ-साथ बलरामपुर की गैसडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 25 मई को मतदान होगा। छठवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, इनमें सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, सन्तकबीर नगर, लालगंज (आरक्षित), आजमगढ़, जौपुर, मछलीशहर (आरक्षित), भदोही तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र गैसडी शामिल है। इनमें दो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 14 लोकसभा सीट पर 146 पुरुष और 16 महिलाओं सहित कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि गैसडी विधानसभा सीट पर सात प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुलतानपुर में भाजपा की मेनका गांधी का सपा के राम धुआल निषाद और बसपा के उदयराज वर्मा से मुकाबला है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे

भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से कांग्रेस कोटे के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह से है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निवर्तमान भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेश यादव से है। धर्मेश यादव 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में निरहुआ से हार गए थे। जौनपुर लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को बसपा ने फिर चुनावी मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशावाहा और भाजपा के

सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीडित कमलापति त्रिपाठी की चौथी पीढ़ी के ललितेश मिर्जापुर जिले में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। डुमरियागंज में भाजपा सांसद और पार्टी प्रत्याशी जगदीबिका पावल का मुकाबला सपा के भीष्मशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी से होगा। अंबेडकरनगर में भाजपा के त्रिशेख पांडेय और सपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है जबकि संतकबीर नगर में भाजपा के मौजूदा सांसद प्रदीप निषाद और सपा के लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद मुकाबले में हैं।

कुशांशंकर सिंह से है। भदोही में भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद बसु बिंद की जगह विधायक विनोद कुमार बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। विपक्षी दल ने इंडिया गठबंधन ने तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है।

लापरवाह अधिकारियों को लगायी फटकार

- दिए कार्यवाही के निर्देश
- विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
- ग्राम पंचायत के खेल मैदान व पार्क कराए विकसित, पावों नदियों का करें पुनरोद्धार



भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपद के विकास कार्य एवं कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों से लेकर विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ शुक्रवार को विकास भवन सभागार में बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासपरक व जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने परिषदीय विद्यालयों में नवीन विद्यार्थियों की नामांकन की स्थिति, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र एवं उन्हें प्रदत्त सुविधाएं, ऑपरेशन कायाकल्प तथा मिशन पोषण आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विकासखंड

शिकोहाबाद में कम नामांकन पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी शिकोहाबाद को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करे एवं नामांकन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि वह सभी विद्यालयों में प्रथम भाग में बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासपरक व जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने परिषदीय विद्यालयों में नवीन विद्यार्थियों की नामांकन की स्थिति, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र एवं उन्हें प्रदत्त सुविधाएं, ऑपरेशन कायाकल्प तथा मिशन पोषण आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विकासखंड

जाने पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान व पार्क मनरेगा योजना से विकसित कराने के लिए डी सी मनरेगा व डी पी आर ओ एवम जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने डी सी मनरेगा व सम्बन्धित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जनपद की पांचो नदी सिरसा, सेंगर, आवा, इशान व अरिन्द नदी का पुनरोद्धार का कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि गिरते हुए जल में सुधार हो सके और क्षेत्र के किसानों को सिंचाई कार्य में मदद मिल सके। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 जून से पूर्व क्षेत्र पंचायत की बैठक

कर कम से कम प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत के बजट से नवीन गौ संरक्षण केंद्र विकसित किए जाएं और उनके लिए सहभागिता से भूसा दान कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान पाया कि वर्ष 2023-24 के लक्ष्य 36192 के सापेक्ष 18196 परिवारों की महिलाओं को समूह से जोड़ा गया है जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष महिलाओं को योजना अंतर्गत रोजगार से जोड़ा जाए और यह केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप से उनके जीवन स्तर व आर्थिक स्तर में वृद्धि दिखे। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, परियोजना निदेशक प्रदीप पांडे, जिला विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप यादव, जिला अर्थ एवं सव्य अधिकारी एमपी सिंह सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, संबंधित विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दरगाह मेले के लिए मजिस्ट्रेट होंगी नगर मजिस्ट्रेट

बहराइच। सै. सालार मसऊद गाजी की दरगाह पर 30 मई से 30 जून 2024 तक चलने वाले वार्षिक जेट मेला-2024 को सफुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, बहराइच को मेला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम, बहराइच व उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर बहराइच को सहायक मेला मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर को सह पुलिस प्रभारी तथा सहायक मेला मजिस्ट्रेटों के साथ क्रमशः प्रभारी निरीक्षक, नगर/देहात व थानाध्यक्ष, दरगाह शरीफ को सह पुलिस प्रभारी नियुक्त किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट जेट मेला-2024 के ओवर आल प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर ओवर आल सह पुलिस प्रभारी नामित किये गये हैं जो मेले में तैनात सभी अधिकारियों से समन्वय रखते हुए शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कड़ी निगरानी रखेंगे।

वार्षिक खेलकूद समारोह में किये छात्र-छात्राएं सम्मानित



अवधानामा संवाददाता। पालीवाल महाविद्यालय में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वार्षिक खेलकूद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएस, एनसीसी के अलावा महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न क्रिया कलाओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, महाविद्यालय प्रभारी प्रदीप पांडे, प्रभारी निरीक्षक, नगर/देहात व थानाध्यक्ष, दरगाह शरीफ को सह पुलिस प्रभारी नियुक्त किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट जेट मेला-2024 के ओवर आल प्रभारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर ओवर आल सह पुलिस प्रभारी नामित किये गये हैं जो मेले में तैनात सभी अधिकारियों से समन्वय रखते हुए शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कड़ी निगरानी रखेंगे।

पालीवाल, डॉ. अनुम शर्मा, डॉ. विशाल पाठक, डॉ. प्रेम प्रभाकर, डॉ. पुष्कर, डॉ. अनुराग आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एनसीसी के 12, एनएसएस के 12, स्पोर्ट्स और कल्चर कार्यक्रम में भाग लेने वाले लगभग 100 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह सभी छात्र-छात्राएं वह रहे जिन्होंने पूरे वर्ष में हुए महाविद्यालय के कार्यक्रम, खेलकूद, विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुशील कुमार मिश्रा ने किया। सभी छात्र-छात्राओं को प्रशस्त पत्र एवं शिल्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था।

चाहे नर हो या नारी मतदान सब की जिम्मेदारी: प्रबंधक

सुल्तानपुर। लोकसभा चुनाव 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा है। 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। आरडीएस इंटर कालेज अमहट के प्रबंधक शशि सिंह, प्रिंसिपल करिश्मा तिवारी संयुक्त बैठक कर अधिक से अधिक मतदान की अपील की। पांचवें चरण के मतदान के पहले विद्यालय के प्रबंधक व प्रिंसिपल ने शिक्षकों बच्चों गार्जियन से विशेष अपील करते हुए पिछले चुनाव में वोटिंग प्रसेंटेज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के वोटिंग प्रसेंटेज बढ़ाने हेतु विद्यालय के सभी शिक्षक ने यह तय किया है कि सुल्तानपुर जनपद में सबसे ज्यादा मतदान का प्रशस्त हो शिक्षक मतदाताओं एवं प्रबुद्ध वर्ग से खास अपील की है। सभी प्रबुद्ध वर्ग एवं ग्रामीण इलाके के सम्मानित मतदाता अधिक से अधिक संख्या मतदान के लिए उपस्थित हो और मतदान प्रतिशत के तरीके को बदलें पिछले चार चरणों में लगभग 66% मतदान हुआ। इसमें मतदान प्रतिशत को बढ़ाना हम सभी प्रबुद्ध जनों की जिम्मेदारी है, मताधिकार का प्रयोग करें। ग्रामीण शहरी लोगों से अपील करते हुए प्रबंधक और प्रिंसिपल ने संयुक्त अधिवान छोड़ा है, जिससे हमारा सुल्तानपुर सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला लोकसभा माना जाय। ताकि सुल्तानपुर लोकसभा पूरे देश में जागरूक जनता जागरूक मतदाता के रूप में पहचाना जाए। विद्यालय में मुख्य रूप से सुनीता सिंह, संतोष सिंह, अल्फिया, अंजलि, अर्चना, मंसा, वजीहा, वंदना, जय कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, अनिल वर्मा, शांति वर्मा, सीनू वर्मा, सुमन सिंह, तुकटुक पटेल, बाबूलाल सिंह, दिव्या सिंह सहित बहुत से शिक्षक और गार्जियन उपस्थित रहे।

योग कार्यक्रम में गूंजा करें योग, रहें निरोग



अवधानामा संवाददाता

शिकोहाबाद। पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा बुध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला तथा योगाभ्यास कराते हुए योग के महत्व को समझाया। कार्यक्रम का आयोजन बजाज इलेक्ट्रिकल्स

लिमिटेड आवासीय परिसर में किया गया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिलाप्रभारी पंतजली युवा समिति अध्यक्ष आर्य ने बताया कि भगवान बुद्ध द्वारा मानव के लिए एक शुभ संदेश दिया गया। जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया। उन्होंने कहा कि

भगवान बुद्ध ने हमेशा जीवन में आहारविहार एवं योग को अत्यंत महत्व दिया। योग गुरु अभय आर्य ने उपस्थित सभी सदस्यों को योग अनलोग विलोम, भस्त्रिका, ध्रमरी, प्रणायाम एवं कई प्रकार के आसन की क्रिया करायी व निरोग रहने का संदेश दिया। पर्यावरण मित्र अध्यक्ष किरण बजाज ने मुम्बई से भेजे अपने संदेश में कहा कि योगासन सिर्फ दैनिक कसरत नहीं है। यह देह और श्वास का अध्यात्मिक सन्तुलन है। जब हम प्रणायाम करते हैं तब प्राण वायु शुद्ध और तेजस्वी बनती है। हम अपनी प्राण वायु को सन्तुलित करते हैं। उससे ऊर्जा शीतलता उत्पन्न होती है। मन के विचार निरस्त होते हैं। प्राणायाम श्वास की गति नियंत्रित कर एकाग्रता शान्ति और जीवन को रोगमुक्त करना है।

पीएम सूर्य घर योजना-पंजीकरण कराए

- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की सराहनीय पहल

अवधानामा संवाददाता

ललितपुर। पीएम सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अधिकारियों अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी एवं विद्युत रीडर्स का प्रशिक्षण शिविर विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ललितपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा प्रशिक्षण शिविर में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा



13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। इस योजना में ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके यहां आवासीय विद्युत कनेक्शन है उनको अनुदान के आधार पर उनकी छत पर सौर प्रोफिट प्लांट की स्थापना कराई जाएगी। इसमें अधिकतम 75% तक की अनुदान धनराशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना के लिए पीएम सूर्य घर का पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर उपभोक्ता अपने स्वयं के मोबाइल से अथवा लोकवाणी केंद्र से आवेदन

कर सकता है। आवेदन के पश्चात उसका स्थलीय निरीक्षण विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और उपयुक्तता पाए जाने पर उसके यहां उपभोक्ता द्वारा चयनित वेंडर से छत पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। एक बार सोलर पावर प्लांट की स्थापना हो जाने पर उसके अनुदान की धनराशि उपभोक्ता के निर्धारित बैंक खाते में कर दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण में जनपद ललितपुर में 10000 विद्युत उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर

आज से नौतपा शुरू, गर्मी के लिहाज से नौ दिन बेहद खतरनाक

अवधानामा संवाददाता

ललितपुर। ज्येष्ठ मास की गर्मी से एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 25 मई से नौतपा का प्रकोप भी शुरू हो रहा है। ज्ञातव्य है कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह में नौ दिन ऐसे होते हैं, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए इन्हें नौतपा के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहती है। नौतपा में सूर्य से धरती तपने लगती है, और सूर्य आग उगलता है। ज्योतिषी पंचांग नौतपा के दौरान इस बार भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। यदि नौतपा के सभी दिन पूरे रहे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होगा। नौतपा के दौरान पेड़-पौधे लगाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इन दिनों पेड़ों में जल डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं।



तक रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 2 जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। नौतपा में सूर्य से धरती तपने लगती है, और सूर्य आग उगलता है। ज्योतिषी पंचांग नौतपा के दौरान इस बार भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। यदि नौतपा के सभी दिन पूरे रहे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होगा। नौतपा के दौरान पेड़-पौधे लगाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इन दिनों पेड़ों में जल डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं।

मतगणना से सम्बन्धित बैठक 25 मई

बहराइच। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत 56-बहराइच (अ.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 57-कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट इस जनपद की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 287-पयागपुर व 288-कैसरगंज की मतगणना 04 जून 2024 को पूर्वाह्न 8.00 बजे नवीन कृषि उत्पादन मण्डल समिति, सलारपुर बहराइच में प्रारम्भ होगी। जनपद में मतगणना का कार्य संस्कृत सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से 25 मई 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गई है।

यू.के. रॉयल अवार्ड से नवाज़ी गयी पिंग रिक्शा चालक

- डीएम की अभिनव पहल पर पिंग रिक्शा की सारथी बनी थी 05 महिलाएं
- बर्किंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स से की भेंट

अवधानामा संवाददाता

बहराइच। गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बैंकों से ऋण दिलाकर जिले की पांच महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें पिंग रिक्शा उपलब्ध कराकर अभिनव पहल की थी। नारीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित स्वः रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.आई.) अन्तर्गत



चर्चित तलाकशुदा निराश्रित 05 महिलाओं बिट्टु, सायरा, मेघा, शिव कुमारी व आरती को शहर की सड़कों पर पिंग आरती का सारथी बनने का अवसर मिला था। जनपद बहराइच के रिसिया ब्लॉक की रहने वाली पिंग रिक्शा चालक आरती को 22 मई 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंस ट्रस्ट के द्वारा यू.के. रॉयल अवार्ड से नवाज़ा गया है। आगा खान फाउंडेशन से चुड़ी हुई आरती को जिला प्रशासन की ओर से

02 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंग ई रिक्शा स्कीम के तहत ई-रिक्शा मिला था। जहां तक बात की जाय यू.के. रॉयल अवार्ड की तो इसके लिए सम्पूर्ण विश्व से नामांकन मांगा गया था। ई-रिक्शा चालक आरती का चयन 'अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण' अवार्ड के लिए हुआ है। कार्यक्रम के लिए लंदन आने जाने के लिए प्रिंस ट्रस्ट के द्वारा आरती को सहाय्य किया गया और आगा खान फाउंडेशन की सी.ई.ओ. टिनी साहनी

और कार्यक्रम अधिकारी सीमा शुक्ला ने इस कार्यक्रम में आरती के साथ प्रतिभा किया गया। कार्यक्रम के उपरान्त आरती सहित अन्य प्रतिभागियों के विश्व प्रसिद्ध बर्किंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात का अवसर भी प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रिक्शा चालक आरती को यू.के. रॉयल अवार्ड मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह जनपद के लिए गौरव की बात है। डीएम ने कहा कि आरती को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। डीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है जिले की महिलाएं आरती से प्रेरणा लेकर अपने लिए स्वावलम्बन की राह चुनकर नई इबारत लिखने का संकल्प लेंगी।

मतदान से पूर्व धर्मेंद्र सिंह ने कराया बड़ा उलटफेर

अवधानामा संवाददाता

सुल्तानपुर। मतदान होने के 24 घंटे पूर्व निश जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा आरूपमान कार्ड सह प्रभारी सुल्तानपुर धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष डॉ आर ए वर्मा, व लोकसभा प्रभारी के. के. सिंह सुल्तानपुर ने 2 दर्जन से अधिक दलित समाज के ग्रामप्रधानों व BDC को भोजपा में शामिल करवाया। केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर में पट्टीका पहनाकर उक्त जनप्रतिनिधियों को शामिल कराया गया जिसमें अमर बहादुर प्रधान



परसोंढा, जंगबहादुर प्रधान महमूदपुर लखनपुर, देवीदीन प्रथम मैथन, जयसिंहपुर, मायाराम पूर्व प्रधान भभोटे, छोटलाल प्रधान भैरपुर, बनवारी पूर्व प्रधान विशुनदासपुर, जानकीदेवी पूर्व प्रधान देवपारपर, सन्तराम प्रधान

प्रतिनिधि जयसिंहपुर खुर्द, सत्तू प्रधान हमजाबादप्रसादी प्रधान मैथन, संतप्रसाद प्रधान मलवा, पन्नालाल BDC हमजाबाद, मंगल BDC मैथन, रामअचल BDC कोंडल, रामदेव BDC जयसिंहपुर, मेहेंद्र BDC सिरोड़ी

संतराम BDC पेमापुर, रामप्रकाश BDC डीह भिखारी, रामनिहोर BDC पूर्व रामनाथपुर, रामचरन पूर्व BDC अरेसी, सुनीता प्रधान साटा, संजय प्रधान, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित सभी ग्राम प्रधान व BDC ने

पार्टीबकी सदस्यता ली नेताओं ने पार्टी जिलाध्यक्ष डॉ आर ए वर्मा, 38 लोकसभा आयुष्मान कार्ड प्रभारी सुल्तानपुर और धर्मेन्द्र सिंह का आभार जताया। संकल्प लिया की गाँव और क्षेत्र का एक एक मतदाता, राष्ट्रनिर्माण के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। सांसद महोदया माँ मेनिका संजय गांधी जी को भारी मतो से विजयी बनाएगा। इस अवसर पर अनिल सिंह प्रधान हमजाबाद, विपिन वर्मा प्रधान डीहभिखारी, पिटू सुनील कुमार अग्रहरी प्रधान जयसिंहपुर, मनीष सिंह प्रधान भभोटे पार्टी कार्यवाहकों में उपस्थित रहे।

लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी.एन.रोड, लखनऊ- 226001 (उ.प्र.)
ई-मेल nnlko@up.nic.in टेली-फैक्स 0522-2622440

क्र. सं.	भवन संख्या एवं मोहल्ले का नाम	दर्ज भवन स्वामी का नाम	प्रस्तावित भवन स्वामी का नाम	नामान्तरण का आधार
1	N1-047 सेक्टर-एन1	सुरेशा नान्द	साकेत कुमार मिश्रा	रजिस्ट्री
2	L-2/285/G सेक्टर-जी	आनन्द श्रीवास्तव	नेहा श्रीवास्तव एवं मनीष श्रीवास्तव	दान- विलेख
3	MDS/75-76/G सेक्टर-जी	त्रिलोक सिंह	गुरुमुख सिंह	रजिस्ट्री
4	SS-II/254/D1 सेक्टर-डी 1	रमेश कुमार गुप्ता	किरण अवस्थी	रजिस्ट्री
5	K/255/K सेक्टर-ए	चमेली देवी	सुधा दुबे पत्नी अमर शंकर दुबे	पंजीकृत वसीयत
6	M-3/658/H सेक्टर-एच	हरजीत सिंह गांधी पुत्र राजेन्द्र सिंह	सपना तिवारी पत्नी कुलदीप तिवारी	रजिस्ट्री
7	M-2/195 सेक्टर-एच	यश टण्डन पत्नी पी0एल0	विश्व टण्डन, राजीव टण्डन एवं सुनिष टण्डन	पारिवारिक
8	2/695 सेक्टर-एच	अरविन्द कुमार चौधरी पुत्र सुख लाल चौधरी	बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 मोही लाल यादव	रजिस्ट्री
9	SS/1330/331/H सेक्टर-एच	मनदीप सिंह व अर्पण कौर	कंचन जायसवाल पत्नी श्री विशाल जायसवाल	रजिस्ट्री
10	E-3/094,095/H सेक्टर-एच	राजेश कुमार एवं किरन रस्तोगी	गौरव निगम पुत्र दिलीप निगम	रजिस्ट्री
11	570/168 छेटी पकरी	बेचा लाल	सरोज पत्नी स्व0 रूपेश कुमार	पारिवारिक
12	570/034 छेटी पकरी	शकुन्तला देवी पाण्डेय पत्नी कमला पाण्डेय	संदीप कुमार पाण्डेय एवं प्रदीप कुमार पाण्डेय	दान- विलेख
13	M-3/453/H सेक्टर-एच	सुरेश कुमार	शैली कुमार	पारिवारिक
14	GF-174 सेक्टर-एच खजाना मार्केट	राजेश कुमार तिवारी	विशाल दास	रजिस्ट्री
15	SS/M-262/G बरिगवाँ	अरविन्द कुमार त्रिपाठी केयर ऑफ श्रीपाल त्रिपाठी	सौरभ सिंह पुत्र दिलीप कुमार सिंह	रजिस्ट्री
16	SC/C-087 साउथ सिटी	ले0 कर्नल राकेश रस्तोगी	राजश्री पत्नी रवि प्रकाश	रजिस्ट्री
17	S-II/283 एल्डिको-2	राजेश शेखन पुत्र वी0एस0 शेखन	गीता कुशावहा एवं अश्वन कुमार	रजिस्ट्री
18	KN-179-MIN शारदा नगर	रजनीश कुमार गौतम एवं रेनु कान्त	अश्वनी कुमार चौबे पुत्र राजनम चौबे	रजिस्ट्री
19	590- H/1/147(115A) हैवतमऊ मन्थवा आशिक	अमित कुमार सिंह पुत्र मान सिंह	विजय अग्रवाल एवं अर्चना अग्रवाल	रजिस्ट्री
20	SC/B-127 साउथ सिटी	मीनू श्रीवास्तव पत्नी स्व0 सुनील श्रीवास्तव	अजय सिंघल एवं मधू सिंघल	रजिस्ट्री
21	578/085-A गौरी आशिक	शिवचरन	राजेन्द्र कुमार	पारिवारिक
22	578/091-A गौरी आशिक	शिवचरन	राज कुमार	पारिवारिक
23	SN/204(GIS) शान्ती नगर	अनिल कुमार दुबे	मंजू द्विवेदी	पारिवारिक
24	582-KA/292 बेहसा	चन्द्रावती	जितेन्द्र कुमार	पारिवारिक-दान विलेख
25	SN/387 शान्तीनगर	धर्मेन्द्र पी. सिंह	प्रतिभा यादव	रजिस्ट्री

जोनल अधिकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के पिपराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित किया

अनर्थकारी है कांग्रेस और सपा का गठबंधन: मुख्यमंत्री योगी

- कांग्रेस-सपा शासन में सुबह की शुरुआत घोटाले से होती थी
- एससी-ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों में बांटना चाहती हैं कांग्रेस और सपा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अवधानामा ब्यूरो

गोरखपुर/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत से आतंकवाद और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। जबकि कांग्रेस और सपा के शासन में सुबह की शुरुआत घोटाले से होती थी। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन किसी ने छेड़ता तो उसे छेड़ता भी नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार शाम पिपराइच में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा प्रत्याशी रविकानन शुकल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी

पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दोनों के कार्यकाल और साथ को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश का नाम और मान दुनिया में बढ़ाने वाली मोदी सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा का अनर्थकारी गठबंधन। इन दोनों के बीच जब भी गठबंधन हुआ तो अनर्थ ही हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब सही मत पड़ता है तो विकास, सुरक्षा, सम्मान और गरीब कल्याण की गारंटी होती है। जैसा कि जनता ने सही मत देकर मोदी सरकार बनाई तो आज देश में अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए आयुष्मान योजना



का लाभ मिल रहा है। अब तो तीसरी बार मोदी सरकार में 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान का लाभ मिलने जा रहा है। मोदी सरकार में किसान को सम्मान निधि मिल रही है जबकि सपा की सरकार में किसान आत्महत्या करता था। सपा के शासन में गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी जबकि आज हर गरीब का शौचालय बन गया है, उच्चवला योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई

गैस कनेक्शन मिल गया है। पहले जहां रसोई गैस के लिए लाठी पड़ती थी तो वहीं अब यूपी में होली और दिवाली में गैस मिलेडर मुफ्त दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने चार करोड़ गरीबों के मकान बनवाए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर जो गरीब बच गए हैं, उनके भी मकान बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में हुए विकास कार्यों में एम्स, खाद कारखाना, आयुष विश्वविद्यालय

आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सब सही मत पड़ने की वजह से संभव हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है।

देश में कहीं फोरलेन तो कहीं सिक्सलेन सड़कें बन रही हैं। एम्स, ट्रिपल आईटी, बन रहे हैं। बंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो चल रही है। आईटीआई, पालीटेक्निक व विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बन रहे हैं। इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी रविकानन शुकल, भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, क्षेत्रीय मंत्री जनादन तिवारी, लोकसभा प्रभारी जनादन, संयोजक निरंकर त्रिपाठी, पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह, सहजनावा के विधायक प्रदीप शुकल, टाउन एरिया चेयरमैन संजय मेरेशिया, राधेश्याम सिंह, महंत सिंह, विरेंद्र पाठक, संघमणि उपाध्याय आनंद शाही आदि भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

प्रत्येक बूथ पर भाजपा के पक्ष में मतदान हो सुनिश्चित करें: मंत्री धर्मपाल सिंह

- वोटर पर्ची तथा मोदी जी का फ़ पर प्रत्येक परिवार तक पहुंचाएं: संगठन मंत्री अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को चन्दौली लोकसभा तथा राबर्ट्सगंज लोकसभा संचालन समिति, लोकसभा व विधानसभा के प्रभारी व संयोजकों के साथ बैठक में बूथ प्रबंधन के माइक्रोमैनेजमेंट पर चर्चा की। प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि बूथ प्रबंधन पर केन्द्रित रणनीति के तहत कार्य करते हुए निश्चित विजय के फार्मूले पर काम करना है। बूथ प्रबंधन में बूथ समिति के सदस्यों और पन्ना प्रमुखों के कार्यों का विभाजन करके जिम्मेदारी तय करते हुए काम करना है। प्रत्येक बूथ



पर अधिकतम मतदान और भाजपा के पक्ष में मतदान सुनिश्चित करना है। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाकर प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क करके अवश्य मतदान और भाजपा के लिए मतदान का बार-बार आग्रह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार पर्ची, वोटर पर्ची तथा मोदी जी का फ़ पर प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करते हुए मतदान पूर्ण होने तक मजबूती से बूथ पर डटे रहना है। प्रत्येक बूथ पर पिछले चुनाव से 370 अधिक वोटों को भाजपा से जोड़ने

के लक्ष्य का निश्चित लक्ष्य लेकर काम करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक पदाधिकारी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी में है।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि मजबूत बूथ प्रबंधन से ही बूथ विजय सुनिश्चित होती है। इसलिए बूथ समिति, पन्ना प्रमुखों सहित बूथ के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की योजनाओं व ऐतिहासिक निर्णय को पहुंचाने का काम करना है। बूथ पर जाकर मोदी-योगी सरकार के कामों और सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों के कालखंड के कारनामों की चर्चा भी करना है। उन्होंने कहा कि वातावरण हमारे अनुकूल है और हम प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा का परिश्रमी कार्यकर्ता प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है।

कनिष्ठ लिपिक सुबीर भाल निलम्बित

- प्राधिकरण की छवि सुबरी भाल ने किया धूमिल

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अवैध निर्माण की फाइल गायब करने के आरोपी कनिष्ठ लिपिक सुबीर भाल को शुक्रवार को निलम्बित कर दिया। आरोपी कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिये गये हैं। लखनऊ के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि विपिन सिंह व अन्य की ओर से हुसैनगंज क्षेत्र में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। अवैध निर्माण के खिलाफ विहित प्राधिकारी न्यायालय प्रवर्तन जून-6 ने वाद संख्या 401/2021 योजित किया था। विहित प्राधिकारी

न्यायालय प्रवर्तन जून-6 में पेशकार के पद पर तैनात कनिष्ठ लिपिक सुबीर भाल पर आरोप है कि उसने अवैध निर्माणकर्ता के साथ दुरिधि संधि कर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए उक्त वाद की मूल पत्रावली गायब कर दी। सुबीर भाल के इस कृत्य से अवैध निर्माण के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में बाधा पहुंची, जिससे प्राधिकरण की छवि भी धूमिल हुई। प्रथम दृष्टया मामले में दोषी पाए जाने पर उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने आरोपी बाबू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। उपाध्यक्ष ने निलम्बन आदेश जारी करने के साथ ही आरोपी बाबू के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिये हैं, जिसके लिए विशेष कार्याधिकारी देवाश निवेदी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटायें जा रहे पोस्टर

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,77,32,939 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 1,09,55,307 तथा निजी स्थानों से 67,77,632 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी।

एरा वि.वि. में वैल्यू क्रिएशन पर एक सफल इंटरैक्टिव पर हुई चर्चा

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। एरा यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक और शोधकर्ता डॉ. गौतम महाजन, अध्यक्ष, कस्टमर वैल्यू फाउंडेशन और डॉ. अमृता दास, इस्टीमेट्यूट ऑफ करियर स्टडीज (आईसीएस) के संस्थापक, निदेशक द्वारा वैल्यू क्रिएशन पर एक सफल इंटरैक्टिव चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हैप्पीनेस विभाग, लिबरल एजुकेशन विभाग, सॉफ्ट स्क्रिल विभाग के संकाय सदस्यों और एरा मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने सहर्ष भाग लिया। कार्यक्रम का शुरुआत कुलपति, एरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर (डॉ.)



अब्बास अली महदी ने पुष्पगुच्छ से मेहमानों का स्वागत करते हुए की। सत्र की शुरुआत हैपीनेस और फ्रेंड विभाग की प्रमुख प्रोफेसर मीता घोष के स्वागत भाषण से हुई। इसके अलावा, माननीय कुलपति, एरा

विश्वविद्यालय, प्रो. (डॉ.) अब्बास अली महदी ने मेहमानों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया और एरा रूप ऑफ इस्टीमेट्यूट्स के मूल मूल्यों पर प्रकाश डाला जो दिल से संचालित संगठन के रूप में कार्य करता है।

207.24 लाख रुपये की शराब, ड्रग व नकदी जब्त



अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों व उडनदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 23 मई, 2024 तक कुल 49527.39 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 9182.78 लाख रुपये नकद

- जब्ती संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

धनराशि, 5542.28 लाख रुपये कीमत की शराब, 23865.20 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2559.03 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 5567.16 लाख रुपये कीमत

शहीदों की याद में मजलिस और शोकसभाओं का सिलसिला जारी

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। बीते दिनों एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने वाले ईरानी राष्ट्रपति आयतुल्लाह इब्नाहिम ईरानी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अन्वुल्लाहियान, आयतुल्लाह आले हाशिम सहित अन्य शहीदों की याद में मजलिस और शोकसभाओं का सिलसिला जारी है। शुकवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में मजलिसें आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और ईराने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई, ईरानी जनता और शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी। हरदोई रोड स्थित सरफराजगंज के रौएज हजरत अली में अंजुमने हैदरी व स्थानीय निवासियों की ओर

- शहर के अलग-अलग इलाकों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी
- ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य शहीदों के बारे में विस्तार से बताया

से शोकसभा और मजलिस का आयोजन किया गया। शोकसभा को मौलाना सईदुल हसन नकवी, मौलाना मोहम्मद वसीम, मौलाना नजर अब्बास रिजवी सहित अन्य उलमा ने सम्बोधित करते हुए ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य शहीदों के बारे में विस्तार से बताया। शोकसभा के बाद हुई मजलिस को मौलाना हसन नकवी जैरासी ने खिताब किया। मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने कुरान



शोक सभा को संबोधित करते मौलाना फिरोज अली

में कहा कि हम लोगों के दिलों में मोमिन की मोहब्बत डाल देते हैं। कितने लोग हैं जो ईरान गये और वहां शहीदों से मिले। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिलों में उनके लिए

ओबीसी आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह कर रहे नेता

अवधानामा ब्यूरो

लखनऊ। पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोस मंसूरी ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर ओबीसी आरक्षण को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री मंसूरी ने कहा कि भाजपा को हार का आभास हो गया है। अपनी हार की बौखलाहट में भाजपा नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दो चरण शेष हैं और भाजपा नेता ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में कह रहे हैं कि हम मुस्लिम ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे। श्री मंसूरी ने कहा कि जो सरकार मुस्लिम ओबीसी का कोटा तक अभी तय नहीं कर सकी वह मुस्लिम ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा



कि अगर भाजपा ओबीसी वर्ग की हितैषी है तो ओबीसी की आबादी के अनुपात में यानि 54.8 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दे देती। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने चुनावी जुमलों से लोकसभा चुनाव के शेष बचे दो चरणों के चुनाव में ओबीसी समुदाय को गुमराह कर वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता इनके चुनावी स्टंट को समझ चुकी है और इनसे होशियार हो चुकी है।



शोक सभा को संबोधित करते मौलाना फिरोज अली

में कहा कि हम लोगों के दिलों में मोमिन की मोहब्बत डाल देते हैं। कितने लोग हैं जो ईरान गये और वहां शहीदों से मिले। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिलों में उनके लिए

टीएचडीसीआईएल ने मनाया स्वच्छता पखवाड़ा

अवधानामा संवाददाता

लखनऊ। टुस्को लिमिटेड के मनोज सरदाना अनिल बडोनी, मृदुल दुबे, शशांक लाल, धीरेन्द्र प्रसाद गौरेला जो की इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर हैं। स्वच्छता पखवाड़ा का शुभ आरम्भ उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलाम हुसैन पुरवा, विभूति खंड गोमतीनगर के छात्र छात्राओं द्वारा निबंध प्रतियोगिता द्वारा किया गया और साथ ही टुस्को लिमिटेड लखनऊ के कार्यालय समीप प्रांगण को स्वच्छ



करके (झाड़ू) लोगों के बीच स्वच्छता जागरूक किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा का योजना मनोज सरदाना

के नेतृत्व में संचालन किया गया। ये स्वच्छता के प्रति जागरूक और प्रगति के लिए एक संदेश दिया गया।